



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2468]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2010/अग्रहायण 17, 1932

No. 2468]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2010/AGRAHAYANA 17, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2906(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 756(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 934+000 कि.मी. से 978+000 कि.मी. तक के भू-खण्ड (वाराणसी-औरंगाबाद सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 12 मई, 2010 को "दैनिक जागरण" और "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० २ के ९३४.००० किमी० से ९७८.००० किमी० तक (वाराणसी-औरंगाबाद सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक/अंचल का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	औरंगाबाद	(1) बारुन	(1) खेमदा चादर-8 थाना नं० 154	1/910	सरकारी	व्यावसायिक	1335	गैर मजरूआ आम
				746	निजी	व्यावसायिक	10	नारायण सिंह पिता स्व० केशव सिंह नि० खेमदा
				747	निजी	व्यावसायिक	687	नारायण सिंह पिता स्व० केशव सिंह नि० खेमदा
				748	निजी	व्यावसायिक	830	नारायण सिंह पिता स्व० केशव सिंह नि० खेमदा
				749	निजी	व्यावसायिक	215	नारायण सिंह पिता स्व० केशव सिंह नि० खेमदा
				750	निजी	व्यावसायिक	62	नारायण सिंह पिता स्व० केशव सिंह नि० खेमदा
				433	सरकारी	रास्ता	647	जिला परिषद (सड़क)
				442	सरकारी	रास्ता	566	जिला परिषद (सड़क)
				440	सरकारी	मीट	972	बिहार राज्य विद्युत परिषद
				816	निजी	व्यावसायिक	2630	नारायण सिंह पिता स्व० केशव सिंह नि० खेमदा
				559	निजी	घनहर	326	देवनन्दन प्रसाद पिता स्व० केशव सिंह नि० खेमदा
				823	निजी	व्यावसायिक	326	देवनन्दन प्रसाद पिता स्व० केशव सिंह नि० खेमदा
				824	निजी	आवासीय	452	मदन प्रसाद, बबन प्रसाद पिता स्व० मोतीलाल प्रसाद नि० खेमदा
				825	निजी	आवासीय	670	श्री कैलाश प्रसाद पिता स्व० रामदेवी प्रजापति नि० खेमदा
				551	सरकारी	रास्ता	81	गैर मजरूआ आम
				549	सरकारी	रास्ता	142	गैर मजरूआ आम
				547	निजी	व्यावसायिक	1276	संजीव कुमार सिंह पिता देवनन्दन प्रसाद नि० खेमदा
				546	निजी	व्यावसायिक	486	नारायण सिंह पिता स्व० केशव सिंह नि० खेमदा
				820	निजी	व्यावसायिक	810	सुनील सिंह पिता सरयू सिंह व अशोक कुमार गुप्ता पिता स्व० हीरालाल गुप्ता नि० खेमदा
				545	निजी	व्यावसायिक	3560	चन्द्रावती देवी पति देवनन्दन प्रसाद व मनीष कुमार पिता देवनन्दन प्रसाद व देवनन्दन प्रसाद पिता स्व० केशव सिंह व संजीव कुमार पिता देवनन्दन प्रसाद व नारायण सिंह पिता स्व० केशव सिंह व कैलाश प्रसाद पिता स्व० रामदेवी प्रजापति नि० खेमदा
				818	निजी	व्यावसायिक	750	खदेरू प्रजापति पिता स्व० नन्हकू प्रजापति नि० खेमदा
				543	निजी	व्यावसायिक	935	कैलाश प्रसाद पिता स्व० रामदेवी प्रजापति व रामबचन प्रजापति पिता स्व० राजकुमार प्रजापति व शिवनन्दन सिंह पिता स्व० नथुनी सिंह व खदेरू प्रजापति पिता स्व० नन्हकू प्रजापति नि० खेमदा
				542	निजी	व्यावसायिक	283	कैलाश प्रसाद पिता स्व० रामदेवी प्रजापति नि० खेमदा
				541	निजी	व्यावसायिक	290	नारायण सिंह, देवनन्दन प्रसाद पिता स्व० केशव सिंह नि० खेमदा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				539	सरकारी	व्यावसायिक	550	बिहार राज्य विद्युत परिषद
				538	सरकारी	व्यावसायिक	384	बिहार राज्य विद्युत परिषद
				535	सरकारी	व्यावसायिक	202	बिहार राज्य विद्युत परिषद
				537	निजी	व्यावसायिक	448	जनेश्वर प्रसाद पिता स्‍व० रामदिलाल राम नि० खेमदा
				534	सरकारी	नौट	266	बिहार राज्य विद्युत परिषद
				527	सरकारी	नौट	345	बिहार राज्य विद्युत परिषद
				854	सरकारी	व्यावसायिक	1700	श्रीर मजस्‍सा मालिक व बिहार राज्य विद्युत परिषद
				596	सरकारी	नौट	40	बिहार राज्य विद्युत परिषद
				595	सरकारी	नौट	121	बिहार राज्य विद्युत परिषद
				855	सरकारी	मिन्ड	210	बिहार राज्य विद्युत परिषद
				598	सरकारी	पत्‍नी	750	बिहार राज्य विद्युत परिषद
				853	सरकारी	नौट	602	बिहार राज्य विद्युत परिषद
				802	सरकारी	नौट	81	बिहार राज्य विद्युत परिषद
				751	निजी/सरकारी	व्यावसायिक	3641	नारायण सिंह पिता स्‍व० केशव सिंह नि० खेमदा व रिक्‍शा विभाग
				817	निजी/सरकारी	व्यावसायिक	688	सुनील कुमार, संजीव कुमार, मनीष कुमार पिता देवनन्दन प्रसाद नि० खेमदा व बिहार राज्य विद्युत परिषद
				814	सरकारी	मिन्ड	444	श्रीर मजस्‍सा आम
				531	निजी	फ्‍लावर	162	देवनन्दन प्रसाद पिता स्‍व० केशव सिंह नि० खेमदा
				532	निजी	व्यावसायिक	283	मीम कुमार सिंह पिता नारायण सिंह नि० खेमदा व रामजी सिंह पिता स्‍व० रघू सिंह व स्‍नेहा सिंह पिता बीरन सिंह नि० खेमदा बालून
				533	सरकारी	व्यावसायिक	323	बिहार राज्य विद्युत परिषद
				522	निजी	व्यावसायिक	283	मीम कुमार सिंह पिता नारायण सिंह व श्रीमती प्रभावती देवी पति रामजी सिंह नि० खेमदा बालून
				524	निजी	व्यावसायिक	283	देवनन्दन प्रसाद पिता स्‍व० केशव सिंह नि० खेमदा
				520	निजी	व्यावसायिक	344	सुनील कुमार, मनीष कुमार, संजीव कुमार पिता देवनन्दन प्रसाद नि० खेमदा
				519	निजी	व्यावसायिक	65	सुनील कुमार, मनीष कुमार, संजीव कुमार पिता देवनन्दन प्रसाद नि० खेमदा
				518	निजी	व्यावसायिक	690	सुनील कुमार, मनीष कुमार, संजीव कुमार पिता देवनन्दन प्रसाद नि० खेमदा
				515	निजी	व्यावसायिक	465	सुनील कुमार, मनीष कुमार, संजीव कुमार पिता देवनन्दन प्रसाद व राम बिलास सिंह, नगीना सिंह पिता स्‍व० नन्दक सिंह नि० खेमदा
				517	निजी	व्यावसायिक	40	कैलाश प्रसाद पिता स्‍व० रामदेवी प्रजापति व विश्वलेखा कुमार सिंह, सुरेन्द्र कुमार सिंह पिता सत्यू सिंह व राजा कुँवर पति स्‍व० ब्रह्म कुमार नि० खेमदा
				538	निजी	व्यावसायिक	526	सुनील कुमार सिंह पिता देवनन्दन प्रसाद व श्रीमती चन्द्रावती देवी पति देवनन्दन प्रसाद व नारायण सिंह पिता स्‍व० केशव सिंह नि० खेमदा
				815	सरकारी	व्यावसायिक	243	बिहार सरकार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				540	सरकारी	व्यावसायिक	121	बिहार राज्य विद्युत परिषद
				819	सरकारी	व्यावसायिक	121	बिहार सरकार
योग							32742	
			(2) बारुन	1746	निजी	व्यावसायिक	708	रामनरेश पाण्डेय पिता स्व० राम मूरत पाण्डेय व प्रदीप लाल पिता किशुनदेव लाल नि० बारुन
			चादर-2 थाना नं० 155	1762	निजी	व्यावसायिक	1132	अरुण कुमार, अशोक कुमार पिता बृजनन्दन सिंह नि० भगवान बिगहा व राम अशीष सिंह पिता स्व० गणेश सिंह व नगेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह पिता स्व० परमेश्वर सिंह नि० बारुन
				1752	निजी	व्यावसायिक	870	उदय सिंह पिता इन्द्रदेव सिंह नि० बारुन
				1753	निजी	व्यावसायिक	1376	उमा देवी पति स्व० प्रमोद सिंह नि० तेन्दुआ, नबीनगर व बबन सिंह पिता जगदेव सिंह व मुखदेव सिंह पिता भिखारी सिंह व सत्यदेव सिंह पिता महादेव सिंह नि० निजग्राम
				1755	निजी	धनहर	61	उदय प्रताप सिंह, अभिमन्यु, मन्दू, मुकेश, ग्रीस सिंह पिता रामप्रसाद सिंह व शिवपति देवी पति स्व० राम स्वरूप सिंह व जैराम सिंह, शालीग्राम सिंह, रामेश्वर सिंह, हरी नारायण सिंह पिता स्व० देवकी सिंह नि० निजग्राम
				1754	निजी	धनहर	202	प्रमोद कुमार सिंह पिता चन्द्रदीप सिंह नि० निजग्राम
				1756	निजी	धनहर	61	उदय प्रताप सिंह, अभिमन्यु, मन्दू, मुकेश, ग्रीस सिंह पिता रामप्रसाद सिंह व शिवपति देवी पति स्व० राम स्वरूप सिंह व जैराम सिंह, शालीग्राम सिंह, रामेश्वर सिंह, हरी नारायण सिंह पिता स्व० देवकी सिंह नि० निजग्राम
				1796	निजी	व्यावसायिक व परती	1214	महेन्द्र सिंह, नागेन्द्र सिंह पिता परमेश्वर सिंह व राम अशीष, रामलायक सिंह पिता गणेश सिंह व जगदीश सिंह, जगदीप सिंह पिता स्व० रामबिलाश सिंह नि० बारुन
				1797	सरकारी	धनहर	465	गैर मजरूआ मालिक
				1798	सरकारी	धनहर	2428	गैर मजरूआ मालिक
				1820	निजी	धनहर	243	रामजी सिंह, महादेव सिंह पिता स्व० भिखारी सिंह नि० निजग्राम
				1813	सरकारी	पिण्ड	2509	गैर मजरूआ आम
				1852	निजी	धनहर	20	भरत सिंह पिता राम औतार सिंह नि० निजग्राम
				1822	सरकारी	बोंघ	40	गैर मजरूआ आम
				1853	निजी	व्यावसायिक	582	विरेंद्र कुमार सिंह, देवेन्द्र कुमार सिंह पिता राम स्वरूप सिंह नि० मलु खैरा
				1818	निजी	व्यावसायिक	105	रामजी यादव पिता नि० रेडीया
				1846	निजी	धनहर	809	मुखदेव सिंह पिता स्व० भिखारी सिंह नि० मस्तुल बारुन
				1845	सरकारी	धनहर	748	गैर मजरूआ मालिक
				1805	सरकारी	व्यावसायिक	81	गैर मजरूआ मालिक
				1804	सरकारी	धनहर	40	गैर मजरूआ मालिक
				1803	निजी	व्यावसायिक	1457	भोला प्रसाद गुप्ता पिता स्व० जतन प्रसाद व कलावती देवी पति भोला प्रसाद व उदल सिंह पिता स्व० इन्द्रदेव सिंह व रामदहिन सिंह पिता स्व० मुसाफीर सिंह नि० निजग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1802	निजी	जामातीय व व्यावसायिक	1052	अमय सिंह, मनोज सिंह, अरुण सिंह पिता राम सुरिष्ठ सिंह व बलिराम सिंह पिता स्व० मेख नारायण सिंह नि० बारुन व महेन्द्र सिंह यादव पिता स्व० सोहन यादव नि० बहुरिया बिगहा व महेन्द्र यादव, उपेन्द्र यादव, जितेन्द्र यादव, सत्येन्द्र यादव पिता स्व० अमारीक सिंह नि० मालपुर व रामदहिन सिंह पिता स्व० मुसाफीर सिंह व अशोक सिंह पिता भरत सिंह व सुरेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह पिता स्व० सरजू प्रसाद सिंह व यशोदा देवी पति स्व० रामदत्त सिंह व केदार सिंह, बंदी सिंह, रामजी सिंह, रामरूप सिंह, राम प्रमोद सिंह पिता स्व० मुसाफीर सिंह व राम सुन्दर सिंह पिता स्व० राजदेव सिंह नि० बारुन व विरेन्द्र कुमार सिंह, देवेन्द्र कुमार सिंह पिता रामस्वरूप सिंह नि० मल्लु खैरा
योग							16203	
		(3) सिंधुरिया थाना नं० 157		213	निजी	व्यावसायिक	2246	रामचन्द्र पासवान पिता छेदी पासवान व चनदीप पासवान, ललदीप पासवान, मनदीप पासवान पिता स्व० राजेन्द्र पासवान व विरेन्द्र, सुरेन्द्र पिता बासदेव पासवान व पारस पासवान, गोरख पासवान पिता जैराम पासवान व रामदरती कुँअर पति स्व० गया दुसाध व श्रीमती अंजु देवी पति महेन्द्र सिंह नि० मसतुल बारुन व श्रीमती इन्दु देवी पति राजेश कुमार व श्रीमती पुष्पा देवी पति श्री बबन सिंह नि० सुमाव नगर, डेहरी
				214	निजी	वनकर	223	रामचन्द्र पासवान पिता छेदी पासवान व चनदीप पासवान, ललदीप पासवान, मनदीप पासवान पिता स्व० राजेन्द्र पासवान व विरेन्द्र, सुरेन्द्र पिता बासदेव पासवान व पारस पासवान, गोरख पासवान पिता जैराम पासवान व रामदरती कुँअर पति स्व० गया दुसाध व श्रीमती अंजु देवी पति महेन्द्र सिंह नि० मसतुल बारुन
				212	निजी	जामातीय	1376	रामकृत पासवान, लल्लन पासवान पिता गिरधारी पासवान व प्रदीप पासवान, जयदीप पासवान पिता स्व० रामकृत पासवान नि० निजग्राम व सरोज यादव, संतोष यादव पिता रामनरेश यादव नि० कुसा बसडीहा
				215	सरकारी	बोंब	5017	गैर मजरूआ आम
				210	सरकारी	बोंब	202	गैर मजरूआ आम, सर्वसाधारण
				209	सरकारी	व्यावसायिक	243	बकास्त मालिक
				203	निजी	व्यावसायिक	1942	गोपाल सिंह पिता बलिराम सिंह व सत्येन्द्र सिंह, अरुण सिंह पिता स्व० मुखदेव सिंह नि० निजग्राम
				202	सरकारी	बोंब	61	गैर मजरूआ आम
				201	निजी	वनकर	78	मुन्ना सिंह पिता स्व० चन्द्रदीप सिंह नि० बहुरिया बिगहा व कुन्ती देवी पति स्व० राजदेव सिंह व रघुवंश पिता स्व० रामस्वरूप सिंह व श्रीमती ठाकुर मणि देवी पति स्व० त्रिवेनी सिंह नि० निजग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				192	निजी	बनहर	971	राम प्रसाद चौधरी पिता स्‍व० रघुनन्दन चौधरी व प्राण चौधरी पिता स्‍व० रामरेखा चौधरी नि० निज ग्राम व गणेश प्रसाद पिता स्‍व० हीरालाल प्रसाद नि० बारुण
				191	निजी	बनहर	40	रामचन्द्र पासवान पिता छेदी पासवान व चनदीप पासवान, ललदीप पासवान, मानदीप पासवान पिता स्‍व० राजेन्द्र पासवान व विरेन्द्र, सुन्दर पिता बासदेव पासवान व पारस पासवान, गोरख पासवान पिता जैराम पासवान व रामदरती कुँअर पति स्‍व० गया दुसाध नि० निजग्राम
				190	सरकारी	आहर	20	गैर मजरूआ आम
				189	सरकारी	मिन्‍ड	10	गैर मजरूआ आम सर्वसाधारण
				188	सरकारी	सरा	20	गैर मजरूआ आम
				183	सरकारी	बनहर	405	बकास्त मालिक
				182	निजी	बनहर	142	मुन्‍ना सिंह पिता दीपा सिंह नि० निजग्राम
				180	निजी	आमासीव	40	महावीर पिता व राम नन्द सिंह पिता स्‍व० दुख हरन सिंह व लालदेव पिता स्‍व० शिवशंकर सिंह व रामेश्वर चौधरी, रामकृष्‍ण, कृष्‍णा प्रसाद पिता रामेश्वर प्रसाद व तुलसी प्रसाद, असरफी राम, सुदामा राम पिता राम प्रसाद नि० निजग्राम
				181	सरकारी	बोंब	2268	गैर मजरूआ आम
				176	निजी	बनहर	91	देवेन्द्र चौधरी, वीरेन्द्र चौधरी, विनय चौधरी पिता त्रिवेणी चौधरी व पान कुमारी देवी पति स्‍व० रामगोपाल चौधरी व सुनील कुमार, अनिल कुमार पिता रामदीन चौधरी व गणेश प्रसाद पिता जगत नारायण राम नि० निजग्राम
				175	सरकारी	आहर	10	गैर मजरूआ आम
				219	सरकारी	नीट	223	केशरे हिन्‍द
				220	सरकारी	नीट	142	गैर मजरूआ मालिक
				221	सरकारी	सड़क	971	बिहार सरकार, अनाबाद सर्वसाधारण
				116	निजी	आमासीव	647	ललिता साव पिता स्‍व० बेंगा साव व शिव प्रसाद यादव पिता अलियार यादव व सूक्‍न साव पिता स्‍व० नान्हक साव व जनार्दन साव पिता गनौरी साव व शिवशंकर साव पिता किशुन साव नि० निजग्राम
				115	निजी	आमासीव	121	नरायन पासवान पिता व शिवशंकर साव पिता किशुन साव नि० निजग्राम
				114	निजी	बनहर	121	राम अवतार सिंह पिता स्‍व० राजा सिंह नि० सिन्‍धुरिया
				449	सरकारी	मिन्‍ड	1618	गैर मजरूआ आम
				447	निजी	बनहर	71	मथुरा सिंह पिता स्‍व० मुंगेश्वर सिंह व विजय सिंह, शिवमंगल सिंह पिता स्‍व० इन्द्रदेव सिंह व अशोक सिंह पिता स्‍व० फौजी सिंह नि० निजग्राम
				448	सरकारी	बनहर	2509	बकास्त मालिक
				450	सरकारी	पराती कबीम	2589	गैर मजरूआ आम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>मनुष्य सिंह भिला रस्य मुजेन्ना सिंह व सिन्धवा सिंह, सिन्धुमल सिंह भिला रस्य मुजेन्ना सिंह व रसीम सिंह भिला रस्य मुजी सिंह व अरोक सिंह भिला रस्य कनारसी सिंह व बन्ना सिंह, मेहन सिंह भिला रस्य नोरोन्ना सिंह व सनोव सिंह, मनोव कुमर भिला रस्य लल्लू सिंह व प्रहल्लाद सिंह, सुमीन सिंह, अफिर सिंह भिला रस्य बरत सिंह व राम बिलास सिंह भिला रस्य मुल बरत सिंह व खीर देवी परी रस्य राम सिन्धव सिंह व राम अकरत सिंह, कैलाश सिंह, रामनन्दन सिंह, भिला रस्य मुकरण सिंह व पार्वती कुँवर परी रस्य केदार सिंह भिो भिलागाम</p>
452	मिर्ची	बगार	2832					
75	मिर्ची	बगार	61					<p>रमेश सिंह, रामेश सिंह भिला रस्य प्रभा सिंह भिो भिलागाम</p>
74	मिर्ची	बगार	61					<p>मुरानन्दन सिंह भिला रस्य मुखादेव सिंह भिो भिलागाम</p>
73	मिर्ची	बगार	273					<p>संसार सिंह भिला केदार सिंह व अलोक सिंह भिला पार्वती सिंह व कैलाश सिंह भिला सिन्धुल्ल सिंह व अलोक सिंह भिला बगारसी सिंह भिो भिलागाम</p>
72	मिर्ची	बगारसी	10					<p>मुजन्मन सिंह, कुँवर सिंह, दीनेश सिंह, रामदेव सिंह, अरुण सिंह भिला रस्य मुखादेव सिंह भिो भिलागाम</p>
68	गजगरी	बगार	10					<p>शैर मजरुखा आम</p>
654	गजगरी	बौर	1012					<p>शैर मजरुखा भादिक</p>
113	मिर्ची	बगार	81					<p>मुखाबारा</p>
112	मिर्ची	बगारसी	101					<p>जगन्नाथ प्रसाद भिला रामनन्दन व उत्तम कुमर भिला जगन्नाथ प्रसाद भिो विगुल देवरी</p>
111	मिर्ची	बगारसी	131					<p>जगन्नाथ प्रसाद भिला रामनन्दन व उत्तम कुमर भिला जगन्नाथ प्रसाद भिो विगुल देवरी</p>
110	मिर्ची	बगारसी	81					<p>जगन्नाथ प्रसाद भिला रामनन्दन व उत्तम कुमर भिला जगन्नाथ प्रसाद भिो विगुल देवरी</p>
109	मिर्ची	बगारसी	65					<p>जगन्नाथ प्रसाद भिला रामनन्दन व उत्तम कुमर भिला जगन्नाथ प्रसाद भिो विगुल देवरी</p>
108	मिर्ची	बगारसी	81					<p>कुँवर सिंह भिला रस्य मुखादेव सिंह भिो भिलागाम</p>
135	गजगरी	बगारसी	20					<p>बकरत भादिक</p>
223	गजगरी	बगार	215					<p>बिकरत रसकार</p>
224	गजगरी	बगार	324					<p>बिकरत रसकार</p>
225	गजगरी	बगार	40					<p>बिकरत रसकार</p>
226	गजगरी	बगार	486					<p>बिकरत रसकार</p>
227	गजगरी	बगार	245					<p>बिकरत रसकार</p>
228	गजगरी	बगार	890					<p>बिकरत रसकार</p>
229	गजगरी	बगार	243					<p>अनंताद सर्वसाधारण</p>
117	गजगरी	मिर्ची	20					<p>शैर मजरुखा आम</p>
70	मिर्ची	बगार	81					<p>रामकुल पासवान, लल्लन पासवान भिला रस्य सिन्धुमली पासवान व प्रदीप पासवान, जगदीप पासवान भिला रामकुल पासवान भिो भिलागाम</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				71	निजी	बनहर	20	नन्दू सिंह, महेन्द्र सिंह पिता स्व० रामप्रसाद सिंह नि० मुन्शी बिगहा
योग							31798	
			(4) दयालपुर धाना नं० 146	27	निजी	आवासीय	3530	शिवबालक चौहान पिता स्व० जगदेव चौहान व प्रदीप सिंह, विन्ध्याचल सिंह पिता स्व० दशरथ सिंह नि० बरडी खुर्द
				26	सरकारी	बोंब	20	गैर मजरुआ आम
				28	सरकारी	पत्ती कदीम	610	गैर मजरुआ मालिक
				41	निजी	बनहर	486	कामता सिंह, सत्येन्द्र सिंह पिता स्व० गणेश सिंह व चन्दन सिंह पिता स्व० लक्ष्मण सिंह नि० मधुपुर
				40	निजी	बनहर	121	कामता सिंह, सत्येन्द्र सिंह पिता स्व० गणेश सिंह व चन्दन सिंह पिता स्व० लक्ष्मण सिंह नि० मधुपुर
				39	निजी	आवासीय	1052	रामेश्वर सिंह पिता स्व० राधो सिंह व अनुग्रह सिंह पिता स्व० कमला सिंह व सरयू सिंह पिता स्व० रामचन्द्र सिंह व रामबिलास सिंह, सुखदेव सिंह पिता स्व० जीतवाहन सिंह व राजेन्द्र सिंह पिता स्व० बन्धू सिंह नि० मुन्शी बिगहा
				38	सरकारी	पत्ती कदीम	566	गैर मजरुआ मालिक
योग							6385	
			(5) श्रीपालच क धाना नं० 145	61, 63/ 46	निजी	व्यावसायिक	189	नन्दू सिंह, महेन्द्र सिंह पिता रामप्रसाद सिंह व जनेश्वर सिंह, राधा सिंह, कृष्णा सिंह, सुभाष सिंह पिता रामचन्द्र सिंह व लखन सिंह पिता स्व० प्रगास सिंह व डोमन सिंह पिता स्व० मुखा सिंह नि० मुन्शी बिगहा व गोरखनाथ सिंह पिता सुर्यदेव सिंह नि० बिसाई
				63/50	निजी	बनहर	45	करीमन चौहान पिता बुद्धन चौहान नि० बरडीखुर्द
				66/51	निजी	बनहर	15	यमुना सिंह पिता नि० सतुआही
				66/52	निजी	बनहर	18	श्रीराम महतो, बलिराम महतो, देवलाल महतो पिता स्व० रामस्वरूप महतो नि० बरडीखुर्द
				66/53	निजी	बनहर	20	धनमुनी देवी पति राम गणेश चौहान नि० बरडीखुर्द
				66/54	निजी	बनहर	20	मु० महेश्वरी कुँअर पति स्व० लक्ष्मण चौहान व सुमित्रा कुँअर पति स्व० यमुना चौहान व जानकी चौहान पिता मुन्नीलाल चौहान व मुन्नीलाल चौहान पिता स्व० जगमोहन चौहान नि० दयालपुर
				66/55	निजी	बनहर	57	रामप्रसाद चौहान पिता स्व० रघुनन्दन चौहान नि० बेला आम्हा थाना
				66/56	निजी	आवासीय	40	गोपाल चौहान पिता दीनदयाल चौहान नि० दयालपुर टोला मुन्शी बिगहा
				66/57	निजी	आवासीय	28	चन्दन कुमार सिंह पिता लक्ष्मण सिंह नि० मधुपुर
				66/58	निजी	व्यावसायिक	80	सत्येन्द्र सिंह, कामता सिंह पिता गणेश सिंह व चन्दन कुमार सिंह पिता लक्ष्मण सिंह नि० मधुपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				67/58	निजी	बनहर	142	गोपाल चौहान, अमृत चौहान पिता दीनदयाल चौहान नि० दयालपुर टोला मुन्ही बिगहा व श्रीमती सान्नी देवी पति कपिलदेव चौहान नि० मांगी, नबीनगर
				67/60	निजी	बनहर	332	श्रीमती सान्नी देवी पति कपिलदेव चौहान नि० मांगी, नबीनगर व चन्द्रिका कामिनी पति भुनेश्वर नोनिया नि० बिजयीपुर, गया व गोपाल चौहान पिता दीनदयाल चौहान नि० दयालपुर टोला मुन्ही बिगहा
				60/45	सरकारी	बनहर	4612	बिहार सरकार
				71/261	निजी	बनहर	32	शु० महेश्वरी कुँवर पति स्व० लक्ष्मण चौहान व सुमित्रा कुँवर पति स्व० यमुना चौहान व जानकी चौहान पिता मुन्नीलाल चौहान नि० दयालपुर
				67, 71 / 61	निजी	बनहर	121	मथुरा सिंह, शिवकुमार सिंह पिता धनेश्वर सिंह व जनेश्वर सिंह पिता नगेश्वर सिंह व असोक सिंह, सुनिल सिंह पिता रामजनम सिंह नि० मधुपुर
				74/62	निजी	बनहर	15	महेन्द्र सिंह, रामप्रवेश सिंह पिता सुखदेव सिंह नि० दयालपुर
				88/77	निजी	बनहर	10	श्रीराम सिंह, सुरेश सिंह, अनुरोध सिंह, मिथलेश सिंह, अक्केश सिंह पिता रामचन्द्र सिंह नि० दयालपुर
				89, 90, 91, 92, 93/78	निजी	व्यवसायिक	131	रिलायन्स होटल एवं प्लाजा व रामबिलास सिंह, रामदास सिंह, अलखदेव सिंह पिता हरिकिशुन सिंह व प्रमोद सिंह, विनोद सिंह, विमल सिंह, निर्मल सिंह पिता कमदेव सिंह नि० दयालपुर
				127, 128, 131/89	सरकारी	रास्ता	1213	गैर भजरुआ आम
				130, 136/91	निजी	बनहर	152	रामदास सिंह, अलखदेव सिंह, कमदेव सिंह, रामबिलास सिंह पिता हरिकिशुन सिंह नि० दयालपुर
				132, 134/91	निजी	बनहर	1487	अज्ञात
				280/17 5	निजी	बनहर	142	पशुराम पासवान पिता लंगेश्वर राम नि० दयालपुर
				258, 218/16 8	निजी	बनहर	101	प्रवेश सिंह पिता इन्द्रदेव सिंह नि० मधुपुर
				204/14 3	निजी	बनहर	671	चन्दन कुमार सिंह पिता लक्ष्मण सिंह व कमला सिंह, सत्येन्द्र सिंह पिता गणेश सिंह नि० मधुपुर
				202/14 1	निजी	बनहर	324	रामदास सिंह, जगदीश सिंह, कमला सिंह पिता महेश सिंह नि० दयालपुर
				203/14 2	सरकारी	नदी	324	पुनपुन नदी
				258, 259/17 6	निजी	बनहर	331	गुप्ता सिंह, राजकिशोर सिंह, नागेश्वर सिंह पिता स्व० मिश्रण सिंह व शु० श्याम कुँवर पति स्व० मिश्रण सिंह व जगत देवी, राजो देवी पिता स्व० मिश्रण सिंह नि० दयालपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				63/49	निजी	धनहर	29	सत्येन्द्र नोनिया, राजेन्द्र नोनिया, भोला नोनिया पिता स्व० रामचन्द्र नोनिया व बिरजू नोनिया पिता स्व० महेन्द्र नोनिया नि० श्रीपालचक
योग							10681	
			(6) भूपतपुर चादर-1 थाना नं० 137	827	सरकारी	धनहर	445	गैर मजरुआ आम
				815	सरकारी	पिम्ड	283	केशरे हिन्द
				822	निजी	धनहर	3318	कमता प्रसाद सिंह, युगेन्द्र सिंह पिता स्व० रघुपत सिंह नि० हवसपुर
				837	निजी	धनहर	627	धर्मेन्द्र सिंह पिता गणेश सिंह व उमेश सिंह पिता स्व० रामदेव सिंह नि० हवसपुर
				845	निजी	धनहर	617	श्रीमती कुन्ती देवी पति गोपाल नरायण सिंह व संजय कुमार सिंह पिता गोपाल नरायण सिंह नि० डिहरी आन सोन व धर्मेन्द्र सिंह पिता गणेश सिंह नि० हवसपुर
				840	सरकारी	धनहर	4451	गैर मजरुआ मालिक
				868	सरकारी	धनहर	192	गैर मजरुआ मालिक
				878	सरकारी	व्यावसायिक	586	गैर मजरुआ मालिक
				839	निजी	धनहर	2144	श्रीमती लालमुनी देवी पति मनोज कुमार सोनी नि० आरा, जवाहिर टोला, नवादा व विजय कुमार सोनी पिता जय गोविन्द सेठ नि० न्यू एरिया, डिहरी आन सोन व लखन सिंह पिता इन्द्रदेव सिंह व प्रमोद कुमार पिता कृता साव नि० हवसपुर व रामचन्द्र मल्लाह पिता कामेश्वर मल्लाह नि० सिरिस व मिथिलेश सिंह पिता रघुपत सिंह व मंजू देवी पति व पाचू साव पिता स्व० फौदार साव नि० हवसपुर
				802	निजी	धनहर	97	श्रीमती लाची देवी पति रामकृष्ण महतो नि० न्यू डिलिया, डिहरी आन सोन व मुरली प्रसाद पिता शिवन साव व हरी साव पिता गोधन साव व मनीया देवी पति रघू साव नि० सिरिस
				803	सरकारी	धनहर	293	केशरे हिन्द
				801	निजी	धनहर	293	मुरली प्रसाद पिता शिवन साव नि० सिरिस
				800	सरकारी	धनहर	314	केशरे हिन्द
				148	निजी	धनहर	486	अम्बा सिंह पिता राम किशुन सिंह नि० हवसपुर व बद्री नारायण सिंह पिता अकधेश्वर नि० भुपतपुर
				149	निजी	आवासीय	143	अख्तर हुसैन पिता अली इमाम नि० सिरिस, भुपतपुर
				795	सरकारी	सरता	2266	गैर मजरुआ आम
				521	निजी	धनहर	263	मदन प्रसाद पिता गणेश प्रसाद व अकधेश कुमार गुप्ता, राजेश प्रसाद गुप्ता, दिनेश प्रसाद गुप्ता, रामप्रवेश गुप्ता पिता रामदास नि० सिरिस
				798	निजी	धनहर	283	हरिहर प्रसाद पिता गोर्धन प्रसाद व महेन्द्र प्रसाद, सुलेन्द्र प्रसाद पिता रामरेखा साव नि० सिरिस
				799	सरकारी	धनहर	303	केशरे हिन्द

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				796	निजी	धनहर	243	सत्येन्द्र गुप्ता पिता रामरतन गुप्ता व लीलावती देवी पति सुदामा साव नि० सिरिस
				797	सरकार	धनहर	324	केशरे हिन्द
				887	निजी	आवासीय	194	दुली सिंह, सहदेव सिंह पिता स्व० गोपाल सिंह व रामरतन सिंह पिता विश्वनाथ सिंह नि० हवसपुर
योग							18155	
			चादर- 2	976	सरकारी	आवासीय	182	गैर मजदूरा मालिक
				977	सरकारी	व्यवसायिक	971	गैर मजदूरा मालिक
				978	निजी	आवासीय	20	नधुनी राम पिता नन्दक राम नि० सिरिस
				979	निजी	व्यवसायिक	556	चन्दी देवी पति मल्लू साव व भोला साव पिता मल्लू साव नि० सिरिस
				981	निजी	व्यवसायिक	283	नागेन्द्र सिंह पिता रामजनम सिंह व रामकिशोर सिंह, विजय सिंह, संजय सिंह पिता जमीन्दार सिंह नि० हवसपुर
				986	निजी	व्यवसायिक	394	गोपाल प्रसाद हलवाई पिता मथुरा प्रसाद साव नि० सुपतपुर व धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता पिता गणेश प्रसाद गुप्ता व रामनरेश सिंह पिता शिवशरण सिंह व रामबचन शर्मा, बजरंगी शर्मा, बलिराम शर्मा, राजकिशोर शर्मा, पप्पू शर्मा पिता सुदामा मिस्त्री नि० सिरिस व विपिन कुमार पिता राम स्वरूप सिंह नि० फतेहपुर व राम स्वरूप सिंह पिता शिव शरण सिंह व राजेन्द्र महतो पिता राम बिलाश महतो नि० सिरिस व सीताराम यादव पिता देवराज यादव व सुदामा साव पिता जानकी साव नि० खम्मा, नबीनगर
				985	सरकार	धनहर	101	केशरे हिन्द
				982	निजी	व्यवसायिक	212	राम किशोर सिंह, अजय सिंह, संजय सिंह पिता जमींदार सिंह नि० हवस पुर
				984	निजी	व्यवसायिक	20	राम किशोर सिंह, अजय सिंह, संजय सिंह पिता जमींदार सिंह नि० हवस पुर
				983	सरकारी	व्यवसायिक	809	गैर मजदूरा मालिक
				943	निजी	धनहर	80	पंकज कुमार पिता लक्ष्मी साव व हेमन्ती देवी पति विनोद प्रसाद व मुरली प्रसाद पिता शिव साव व कारु साव उर्फ राम नन्दन साव, कृत साव पिता जवाहिर साव नि० सिरिस व योगेन्द्र सिंह, लखन सिंह पिता इन्द्रदेव सिंह नि० बसपुरा
				942	सरकार	नीट	506	केशरे हिन्द
				941	सरकार	नीट	142	केशरे हिन्द
				940	निजी	धनहर	324	मखी कुँवर पति स्व० जवाहिर साह नि० सिरिस
				938	निजी	धनहर	688	रविन्द्र सिंह पिता अजय सिंह नि० हवसपुर
				936	सरकार	नीट	1194	केशरे हिन्द
				935	सरकारी	धनहर	1214	बकास्त मालिक
				934	निजी	धनहर	223	कमता सिंह पिता जानकी सिंह नि० हवसपुर
				933	सरकारी	धनहर	121	बकास्त मालिक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				987	निजी	व्यावसायिक	405	मो० सदीक मियां पिता इकबाल अहमद नि० सिरिस
				794	निजी	व्यावसायिक	890	गणेश महतो पिता शिव बालक महतो नि० भुपतपुर
				988	सरकारी	व्यावसायिक व परती	121	गैर मजरूआ मालिक
				792	निजी	व्यावसायिक	10	कमता सिंह पिता जानकी सिंह नि० हवसपुर
				990	निजी	व्यावसायिक	81	रविन्द्र सिंह पिता अजय सिंह नि० हवसपुर
				991	निजी	व्यावसायिक	850	बृज नन्दन सिंह पिता कमता सिंह नि० हवसपुर व राजकुमारी कुँवर पति स्क्व बैकुण्ठ मिस्त्री व लंकेश्वरी कुँवर पति स्क्व अयोध्या मिस्त्री नि० सिरिस
				992	निजी	घनहर	1052	मो० इकराम पिता स्क्व मो० इसहाक नि० भुपतपुर
				993	सरकारी	घनहर	2832	बकास्त मालिक
				996	निजी	घनहर	405	कमता सिंह पिता जानकी सिंह नि० हवसपुर
				997	सरकारी	नीट	40	गैर मजरूआ आम
				998	निजी	घनहर	81	कमता सिंह पिता जानकी सिंह नि० हवसपुर
				999	निजी	घनहर	81	कमता सिंह पिता जानकी सिंह नि० हवसपुर
				1000	निजी	घनहर	283	सच्चिदा नन्दन राम पिता छटठन राम नि० सिरिस व श्यामलायक सिंह पिता स्क्व सूर्यदेव सिंह नि० हवसपुर
				787	सरकारी	रास्ता	81	बिहार सरकार
				1001	निजी	व्यावसायिक	566	श्रीपत साव, शिवशंकर प्रसाद, महेन्द्र प्रसाद पिता महगू साव व रामचन्द्र पासवान, रामधनू राम पिता रामसेवक राम व भीष्मण महतो पिता शिवलाल महतो नि० भुपतपुर व सुरेश राम पिता स्क्व खदेरन राम नि० सिरिस
				1004	निजी	व्यावसायिक व परती	668	इन्द्री देवी पति दयानन्दन साव व नईम अख्तर खॉ पिता जहूरुल हसन नि० सिरिस व उपेन्द्र कुमार सिंह पिता मुखदेव सिंह नि० चिलर बिगहा व मुजीब अहमद खॉ पिता शमसुद्दीन खॉ नि० फतेहपुर व वीणा देवी पति विनोद प्रसाद व अनिल कुमार, विनोद कुमार पिता रामेश्वर साव नि० सिरिस व अक्वेश सिंह पिता तपेश्वर सिंह नि० गोपालपुर व सत्येन्द्र सिंह पिता मिखारी सिंह व मुरारी शर्मा पिता बैकुण्ठ मिस्त्री व रामदास सिंह पिता देवधारी सिंह नि० हवसपुर व महेन्द्र साह पिता स्क्व रामदेव साह नि० काजीचक व कमलध्या सिंह, दिनेश सिंह पिता स्क्व महादेव सिंह व जगदीश सिंह, भगवती सिंह पिता स्क्व नथुनी सिंह नि० बरवाडीह टोला व बैजनाथ प्रसाद पिता परीखा साव नि० भुपतपुर
				1019	निजी	व्यावसायिक	425	रघुनाथ सहाय पिता करमू सहाय नि० सिरिस व डोमन चौहान पिता स्क्व गनपत नोनिया नि० भुपतपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1020	निजी	व्यावसायिक	303	रघुनाथ सहाय पिता करमू सहाय नि० सिरिस व डोमन चौहान पिता स्व० गनपत नोनिया नि० भुपतपुर
				1202	सरकारी	फैट	81	गैर मजरूआ मालिक
				1200	निजी	पत्नी	324	भगवती सिंह पिता जगदीश सिंह व नथुनी सिंह, कामाख्या सिंह, दिनेश सिंह पिता स्व० महादेव सिंह व रामदास सिंह पिता स्व० देवधारी सिंह नि० भुपतपुर
				1201	निजी	घनहर	769	रामदास सिंह पिता स्व० देवधारी सिंह नि० भोपतपुर, टोला— बरवाडीह, व रघुवंश सहाय पिता आदित्य सहाय नि० सिरिस व कामाख्या सिंह, दिनेश सिंह पिता स्व० महादेव सिंह नि० भुपतपुर
				1199	सरकारी	घनहर + जवासीय	1052	गैर मजरूआ मालिक
				1198	निजी	जवासीय	1012	मोसाफिर, डोमन सिंह, रामबृक्ष सिंह पिता स्व० बन्धू सिंह व राम प्रवेश सिंह पिता किशुन सिंह नि० भोपतपुर
				1186	सरकारी	घनहर	3237	गैर मजरूआ मालिक
				1174	सरकारी	घनहर	81	गैर मजरूआ मालिक
				1173	निजी	घनहर	809	लक्ष्मी देवी पति निर्मल कुमार सिंह नि० महादेवा व शिवपूजन सिंह पिता रामदास सिंह नि० बरवाडीह व रामरेखा सिंह पिता स्व० हलखोरी सिंह नि० भोपतपुर
				1055	निजी	घनहर	81	नागेश्वर सहाय पिता विशेश्वर सहाय नि० सिरिस
				937	निजी	घनहर	324	रविन्द्र सिंह पिता अजय सिंह नि० हवसपुर
योग							24984	
			(7) टेंगरा चादर-1 थाना नं० 129	449	सरकारी	बोंध	144	गैर मजरूआ आम
				451	निजी	घनहर	840	रामदास सिंह पिता देवधारी सिंह नि० भुपतपुर व केशवर गोप पिता जगदीश गोप व दिनेश सिंह पिता स्व० महादेव सिंह नि० बरवाडीह
				448	सरकारी	बोंध	24	गैर मजरूआ आम
				446	सरकारी	पत्नी कदीम	96	गैर मजरूआ मालिक
				445	निजी	पत्नी जदीम	60	बासदेव सिंह पिता कुलदीप सिंह नि० बरवाडीह
				443	सरकारी	पत्नी कदीम	51	गैर मजरूआ मालिक
				442	निजी	पत्नी जदीम	10	लल्लू सिंह पिता रामस्वरूप सिंह नि० टेंगरा
				441	सरकारी	बोंध	10	गैर मजरूआ आम
				439	सरकारी	रास्ता	2427	गैर मजरूआ आम
				440	सरकारी	पत्नी कदीम	111	गैर मजरूआ मालिक
				438	सरकारी	पत्नी कदीम	60	गैर मजरूआ मालिक
				1012	सरकारी	रास्ता	627	गैर मजरूआ मालिक
				432	सरकारी	बोंध	40	गैर मजरूआ आम
				431	सरकारी	पत्नी कदीम	30	गैर मजरूआ मालिक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				426	निजी	व्यवसायिक	60	श्रीमती सुखली देवी पति भुटाली प्रजापति नि० टेंगरा
				422	सरकारी	बौध	81	गैर मजरुआ आम
				430	निजी	परती जदीद	20	शिव प्रसाद सिंह पिता बैजू सिंह व जनेश्वर सिंह पिता चन्द्रदेव सिंह नि० बिशुन बिगहा
योग							4691	
			चादर-2	523	सरकारी	परती कदीम	20	गैर मजरुआ मालिक
				532	सरकारी	आवासीय	708	बकास्त मालिक
				533	सरकारी	परती कदीम	3965	गैर मजरुआ मालिक
				539	निजी	मीट	20	विशुनदेव सिंह पिता केशो सिंह नि० टेंगरा
				558	निजी	घनहर	192	प्रेम कुमार सिंह पिता स्व० सोहराई सिंह व विजय कुमार सिंह पिता स्व० कृष्णा सिंह व बैजनाथ सिंह पिता हीरा प्रसाद सिंह नि० टेंगरा
				559	निजी	घनहर	223	राम गोविन्द सिंह, आनन्द सिंह पिता स्व० मूरत सिंह व शिव प्रसाद सिंह पिता हरगोविन्द सिंह नि० टेंगरा
				560	सरकारी	आवासीय	486	गैर मजरुआ मालिक
				561	निजी	घनहर	121	अंजनी कुमार पाण्डेय, अनुज कुमार पाण्डेय पिता राघवल पाण्डेय व बीगन सिंह पिता रामदास सिंह नि० टेंगरा
				728	सरकारी	स्थान स्थल	850	गैर मजरुआ आम
				723	निजी	घनहर	40	कृष्णा सिंह पिता रघुवंश सिंह व उमेश कुमार सिंह पिता स्व० देव नारायण सिंह व श्रीमती मीना देवी पति उमेश कुमार सिंह नि० शिवनाथ पुर
				730	निजी	घनहर	20	प्रेम कुमार सिंह पिता स्व० सोहराई सिंह नि० टेंगरा
				729	सरकारी	घनहर	870	गैर मजरुआ मालिक
				757	सरकारी	घनहर	61	गैर मजरुआ मालिक
				759	निजी	घनहर	587	लालदेव साव पिता रामजतन साव व बिश्वनाथ साव पिता बासदेव साव व भरत साव पिता स्व० नारायण साव नि० टेंगरा
				760	निजी	घनहर	314	गुप्तेश्वर शर्मा पिता भीमचन्द्र शर्मा नि० बनुआ, द्वियरा
				761	निजी	आवासीय	223	जगनाथ शर्मा पिता स्व० चन्द्रदीप शर्मा नि० बनुआ
				762	निजी	आवासीय	397	श्रीमती रामकलिया देवी पति राजेन्द्र लोहार नि० खैरा मझौली व श्रीमती तेतरी देवी पति नागेश्वर शर्मा नि० बनवा खैरा व विजय सिंह, संजय सिंह पिता स्व० चन्द्रदेव सिंह नि० टेंगरा
				764	निजी	घनहर	172	प्रेमनी देवी पति रविन्द्र सिंह नि० टेंगरा
				758	सरकारी	घनहर	56	गैर मजरुआ आम
योग							9325	
			(8) प्रीतमपुर थाना नं० 123	11	सरकारी	परती कदीम	566	गैर मजरुआ मालिक
				12	निजी	सहन	1214	शिव कुमार सिंह पिता स्व० बासदेव सिंह व बैजनाथ सिंह पिता धन्नी सिंह नि० प्रीतमपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				14	गजपती	पत्नी	1194	श्रीर मजराडा मालिक
				15	गजपती	पुत्र	1578	श्रीर मजराडा मालिक
				17	गजपती	पत्नी	2023	श्रीर मजराडा मालिक
				83	मिर्ची	पत्नी	10	राम जानकी ठाकुर बाड़ी / अय्यप्प-रामबन्ध सिंह यादव निओ बालण
				84	मिर्ची	मजदूर	20	प्रवीण पाण्डेय, राजेश पाण्डेय, रामनरेश पाण्डेय, संदीप पाण्डेय, अरविन्द पाण्डेय पिता नेम नारायण पाण्डेय निओ प्रीतमपुर
				101	मिर्ची	मजदूर	20	जितेन्द्र पाण्डेय पिता सरजू पाण्डेय निओ प्रीतमपुर
				102	मिर्ची	मजदूर	20	राम जानकी ठाकुर बाड़ी / अय्यप्प-रामबन्ध सिंह यादव निओ बालण
				103	मिर्ची	मजदूर	10	राम गोविन्द पाण्डेय पिता रमो जानकी पाण्डेय निओ प्रीतमपुर
				104	मिर्ची	मजदूर	10	उमेश पाण्डेय पिता रमो विष्णुदेव पाण्डेय निओ प्रीतमपुर
				122	मिर्ची	मजदूर	243	राम जानकी ठाकुर बाड़ी / अय्यप्प-रामबन्ध सिंह यादव निओ बालण
				123	मिर्ची	मजदूर	243	उमेश पाण्डेय पिता रमो विष्णुदेव पाण्डेय व रविन्द्र पाण्डेय पिता रमो मुनी पाण्डेय व पंकज पाण्डेय पिता रमो देवुल पाण्डेय निओ प्रीतमपुर
				125	मिर्ची	मजदूर	101	राम जानकी ठाकुर बाड़ी / अय्यप्प-रामबन्ध सिंह यादव निओ बालण
				126	मिर्ची	मजदूर	162	राम प्रसाद राम पिता धुंदर राम निओ प्रीतमपुर
				127	मिर्ची	मजदूर + असादीय	546	श्रीमती मुनारिका देवी पति रमो नेम नारायण पाण्डेय व राज नन्दन पाण्डेय, सुरेश पाण्डेय पिता रामबन्ध पाण्डेय निओ प्रीतमपुर
				128	मिर्ची	असादीय	263	सरजू सिंह, कृष्णर सिंह पिता मिर्ची सिंह निओ प्रीतमपुर
				121	मिर्ची	असादीय	81	राज नन्दन पाण्डेय, सुरेश पाण्डेय पिता रमो राम बन्ध पाण्डेय निओ प्रीतमपुर
				129	मिर्ची	असादीय	405	राज नन्दन पाण्डेय, सुरेश पाण्डेय पिता रमो राम बन्ध पाण्डेय निओ प्रीतमपुर
				130	गजपती	पत्नी	384	श्रीर मजराडा आम (इनबाद विहार सरकार)
				131	मिर्ची	असादीय	182	लातदेव पाण्डेय पिता रमो बरन पाण्डेय निओ प्रीतमपुर
				132	मिर्ची	असादीय	384	राज कुमार सिंह, रामगुकार सिंह पिता रमो सुखदेव सिंह निओ प्रीतमपुर
				133	मिर्ची	असादीय	243	नेम नारायण पाण्डेय, रामकेशर पाण्डेय, रामबाबू पाण्डेय, राम शिलाश पाण्डेय पिता रमो विष्णुदेव पाण्डेय व कृपाल किशोर, कुशीर किशोर पिता रमो राम नारायण पाण्डेय निओ प्रीतमपुर
				134	मिर्ची	असादीय	485	शिवप्रसाद राम पिता रमो धुंदर राम व अरविन्द पाण्डेय, प्रवीण पाण्डेय, राजेश पाण्डेय, राम नरेश पाण्डेय, संदीप पाण्डेय पिता रमो नेम नारायण पाण्डेय व राम गोविन्द पाण्डेय पिता रमो जानकी पाण्डेय निओ प्रीतम पुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				135	निजी	आवासीय	243	राज नन्दन पाण्डेय, सुरेश पाण्डेय पिता स्क० राम चन्द्र पाण्डेय व रामदूत पाण्डेय, जितेन्द्र पाण्डेय अनन्तू पाण्डेय, वीरेन्द्र पाण्डेय, उमेश पाण्डेय, रविन्द्र पाण्डेय, पंकज पाण्डेय पिता स्क० धनुक पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				137	निजी	आवासीय	243	शिव कुमार सिंह, राम कुमार सिंह पिता स्क० बासदेव सिंह नि० प्रीतमपुर
				138	निजी	आवासीय	303	शिव कुमार सिंह, राम कुमार सिंह पिता स्क० बासदेव सिंह व शिव केशवर राम पिता डोमन राम व स्वरूप राम, बबन राम, राजा राम पिता स्क० कन्हैया राम व राम प्रसाद राम पिता स्क० घुटुर राम नि० प्रीतमपुर
				139	निजी	आवासीय	233	देव नन्दन राम, नरेश राम, रामजनम राम, गया राम, पिता स्क० राजकुमार राम व राजेश राम पिता लालदेव राम नि० प्रीतमपुर
				140	निजी	आवासीय	71	रविन्द्र पाण्डेय पिता स्क० मुन्नी पाण्डेय व अनिता कुँवर पति स्क० योगेन्द्र पाण्डेय व सत्येन्द्र राम पिता योगेश्वर राम व राजेश राम पिता लालदेव राम नि० प्रीतमपुर
				141	निजी	घनहर	172	राज नन्दन पाण्डेय, सुरेश पाण्डेय पिता स्क० राम चन्द्र पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				142	निजी	आवासीय	769	राम केशवर पाण्डेय पिता स्क० किशुनदेव पाण्डेय व गुलाव केशर कुँवर पति स्क० रामप्रवेश व फूलवासो कुँवर पति स्क० अनन्तराम राम व देवबली राम पिता स्क० मुरली राम व मनिन्द्र कुमार पिता स्क० राम प्रवेश व मनोज कुमार पाण्डेय, सुधीर कुमार पाण्डेय पिता स्क० राम नारायण पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				148	निजी	आवासीय	81	भदई पासवान पिता नथुनी पासवान व दुखनी देवी पति भदई पासवान नि० प्रीतमपुर
				146	निजी	आवासीय	81	गुलाव केशर कुँवर पति स्क० राम प्रवेश राम नि० प्रीतमपुर
				145	निजी	आवासीय	233	श्रीमती पार्वती देवी पति वियादर राम नि० प्रीतमपुर
				143	निजी	आवासीय	344	कपिलदेव राम पिता स्क० भुनेश्वर राम नि० प्रीतमपुर
				144	निजी	आवासीय	394	राज बल्लभ राम पिता स्क० बलभद्र राम व जनेश्वर राम, रामेश्वर राम पिता वियादर राम नि० प्रीतमपुर
				288	सरकारी	घनहर	1133	गैर मजरूआ मालिक
				289	सरकारी	घनहर	324	गैर मजरूआ मालिक
				290	सरकारी	घनहर	1012	गैर मजरूआ मालिक
				291	सरकारी	घनहर	1113	गैर मजरूआ मालिक
				421	सरकारी	घनहर	1406	गैर मजरूआ मालिक
				420	सरकारी	घनहर	1051	गैर मजरूआ मालिक
				419	सरकारी	घनहर	1032	गैर मजरूआ मालिक
				416	सरकारी	घनहर	1942	गैर मजरूआ मालिक
				414	सरकारी	घनहर	2427	गैर मजरूआ मालिक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				413	निजी	आवासीय	1537	रामदेवी महतो पिता स्व० धूपन महतो व पार्वती देवी पति स्व० रामेश्वर प्रसाद नि० स्तनपुरा, बारुण व दशरथ सिंह, लगन सिंह पिता स्व० विमिषण सिंह व निजाम मियां पिता स्व० मो० याकूब अंसारी नि० कांस
				410	सरकारी	घनहर	2104	गैर मजरुआ मालिक
				409	निजी	नरती बदीय	324	रैतन पाण्डेय, काशी पाण्डेय, उधो पाण्डेय, भुवन पाण्डेय पिता नान्दू पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				577	सरकारी	घनहर	971	गैर मजरुआ मालिक
				576	निजी	व्यावसायिक	162	प्रसिद्ध नारायण सिंह पिता स्व० हरिहर सिंह नि० चर्दिना
				575	निजी	व्यावसायिक	243	प्रसिद्ध नारायण सिंह पिता स्व० हरिहर सिंह नि० चर्दिना
				574	सरकारी	घनहर	405	गैर मजरुआ मालिक
				573	निजी	घनहर	142	राम जानकी ठाकुर वाडी/ अध्यक्ष राम चन्द्र सिंह यादव नि० बारुण
				572	निजी	घनहर	202	अन्तू पाण्डेय पिता स्व० धनुक पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				571	निजी	घनहर	526	अन्तू पाण्डेय पिता स्व० धनुक पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				570	निजी	घनहर	293	रूप नारायण सिंह पिता स्व० जगदम्बा सिंह नि० इटहर
				567	निजी	आवासीय	405	उमेश पाण्डेय पिता स्व० विशुनदेव पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				564	निजी	घनहर	324	राम जानकी ठाकुर वाडी/ अध्यक्ष राम चन्द्र सिंह यादव नि० बारुण
				566	पारस सरकार	घनहर	324	केशरे हिन्द
				565	पारस सरकार	घनहर	647	केशरे हिन्द
				563	निजी	आवासीय	81	राज नन्दन पाण्डेय, सुरेश पाण्डेय पिता स्व० राम चन्द्र पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				560	पारस सरकार	घनहर	647	केशरे हिन्द
				559	पारस सरकार	घनहर	809	केशरे हिन्द
				556	सरकारी	व्यावसायिक	40	गैर मजरुआ मालिक
				557	निजी	घनहर	486	राम गोविन्द पाण्डेय पिता स्व० जानकी पाण्डेय व अरविन्द पाण्डेय पिता नेम नारायण पाण्डेय नि० प्रीतम पुर
				555	सरकारी	बौध	243	गैर मजरुआ आम
				554	सरकारी	आहर	202	गैर मजरुआ आम
				558	पारस सरकार	घनहर	971	केशरे हिन्द
				550	निजी	घनहर	61	रविन्द्र पाण्डेय पिता स्व० मुन्नी पाण्डेय व अनिता कुँवर पति स्व० योगेन्द्र पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				553	निजी	घनहर	405	राम जानकी ठाकुर वाडी/ अध्यक्ष राम चन्द्र सिंह यादव नि० बारुण
				552	निजी	घनहर	445	राज नन्दन पाण्डेय, सुरेश पाण्डेय पिता स्व० राम चन्द्र पाण्डेय व राम दीप पाण्डेय, वीरेन्द्र पाण्डेय पिता स्व० पारस पाण्डेय नि० प्रीतमपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				551	निजी	धनहर	40	धूरा राम, गूदर राम पिता बौद्ध पासवान व लल्लन पासवान, रामजी पासवान, राजेन्द्र पासवान, बासदेव पासवान, मुनारिक पासवान, सहदेव पासवान पिता स्व० बीमान पासवान नि० प्रीतमपुर
				542	सरकारी	सस्ता	263	गैर मजरुआ मालिक
				540	सरकारी	आवासीय	951	गैर मजरुआ मालिक
				537	निजी	धनहर	20	अरविन्द पाण्डेय, प्रवीण पाण्डेय, राजेश पाण्डेय, रामनरेश पाण्डेय, संजीव पाण्डेय पिता स्व० नेम नारायण पाण्डेय व मथुरा पाण्डेय पिता स्व० चन्द्र देव पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				536	निजी	धनहर	40	मथुरा पाण्डेय, कपिलदेव पाण्डेय, रामप्रवेश पाण्डेय पिता स्व० चन्द्र देव पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				535	निजी	धनहर	61	अरविन्द पाण्डेय, प्रवीण पाण्डेय, राजेश पाण्डेय, रामनरेश पाण्डेय, संजीव पाण्डेय पिता स्व० नेम नारायण पाण्डेय व राम गोविन्द पाण्डेय पिता स्व० जानकी पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				534	सरकारी	धनहर	40	गैर मजरुआ मालिक
				533	निजी	धनहर	293	अक्केश पाण्डेय पिता स्व० सूर्य देव पाण्डेय व मन्दू पाण्डेय, रंजीत पाण्डेय पिता स्व० बालस्वरूप पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				532	निजी	धनहर	253	मथुरा राम, नरेश राम पिता स्व० अलियार रविदास व चन्द्रमणी कुँवर पति स्व० सुरेश राम नि० प्रीतमपुर
				470	निजी	धनहर	263	अन्तू पाण्डेय पिता स्व० धनुक पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				468	निजी	धनहर	607	पंकज पाण्डेय, राकेश पाण्डेय पिता स्व० बैकुण्ठ पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				466	निजी	धनहर	425	अक्केश पाण्डेय पिता स्व० सूर्य देव पाण्डेय व मन्दू पाण्डेय, रंजीत पाण्डेय पिता स्व० बालस्वरूप पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				465	निजी	धनहर	192	अरविन्द पाण्डेय, प्रवीण पाण्डेय, राजेश पाण्डेय, रामनरेश पाण्डेय, संजीव पाण्डेय पिता स्व० नेम नारायण पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				464	निजी	धनहर	364	रविन्द पाण्डेय पिता स्व० मुन्नी पाण्डेय व अनिता कुँवर पति स्व० योगेन्द्र पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				463	सरकारी	धनहर	81	गैर मजरुआ मालिक
				460	निजी	धनहर	91	अक्केश पाण्डेय पिता स्व० सूर्य देव पाण्डेय व मन्दू पाण्डेय, रंजीत पाण्डेय पिता स्व० बालस्वरूप पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				459	निजी	धनहर	10	उमेश पाण्डेय पिता स्व० विशुनदेव पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				433	सरकारी	धनहर	1294	गैर मजरुआ मालिक
				432	सरकारी	धनहर	142	गैर मजरुआ मालिक
				431	सरकारी	धनहर	121	बकास्त मालिक
				430	सरकारी	आवासीय	1578	गैर मजरुआ मालिक
				429	सरकारी	धनहर	384	गैर मजरुआ मालिक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				428	निजी	घनहर	243	राम चरित्तर सिंह रामकृत सिंह, रामजग सिंह पिता स्व० शरण सिंह व राम लगन सिंह, दशरथ सिंह पिता स्व० विमिषण सिंह नि० कांस
				427	सरकारी	घनहर	283	गैर मजरूआ मालिक
				426	सरकारी	पिण्ड	142	गैर मजरूआ आम
				425	सरकारी	घनहर	1214	गैर मजरूआ मालिक
				82	निजी	घनहर	10	उमेश पाण्डेय पिता स्व० विशुनदेव पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				65	सरकारी	बौध	10	गैर मजरूआ आम
				549	निजी	घनहर	20	रविन्द्र पाण्डेय पिता स्व० मुन्नी पाण्डेय व अनिता कुँवर पति स्व० योगेन्द्र पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				467	शास्त्र सरकार	घनहर	890	केशरे हिन्द
				458	सरकारी	घनहर	324	गैर मजरूआ मालिक
				361	निजी	परती जदीद	40	मुखू पाण्डेय, ब्रह्म पाण्डेय पिता स्व० कुलदीप पाण्डेय नि० प्रीतमपुर
				436	सरकारी	आवासीय	484	गैर मजरूआ मालिक
योग							49146	
			(9) कांस थाना नं० 116	114	निजी	घनहर	1376	मुनारिक सिंह उर्फ द्वारिका सिंह पिता स्व० मौजी सिंह नि० कांस
				108	निजी	व्यावसायिक	587	राम प्रवेश यादव पिता स्व० रामधारी यादव व नरेश यादव, सुरेश यादव, जगदीश यादव, विन्देश्वरी यादव पिता स्व० रामदास यादव नि० कांस
				107	निजी	परती व आवासीय	405	मुनारिक सिंह उर्फ द्वारिका सिंह पिता स्व० मौजी सिंह व श्रीमती रीता देवी पति विजय कुमार सिंह व राजाराम सिंह पिता स्व० तुलसी सिंह नि० कांस
				106	निजी	घनहर	1983	तपेश्वर यादव पिता स्व० शंकर यादव व राजाराम यादव पिता स्व० तुलसी यादव नि० कांस
				105	सरकारी	बौध	223	गैर मजरूआ आम, बिहार सरकार
				104	निजी	घनहर	415	तपेश्वर यादव पिता स्व० शंकर यादव व राजाराम यादव पिता स्व० तुलसी यादव नि० कांस
				101	सरकारी	घनहर	809	गैर मजरूआ मालिक
				83	सरकारी	बौध	1861	गैर मजरूआ आम, बिहार सरकार
				120	निजी	घनहर	566	राजा राम सिंह पिता स्व० तुलसी सिंह व तपेश्वर यादव पिता स्व० शंकर यादव व दसरथ यादव व रामलगन यादव पिता स्व० विमिषण यादव नि० कांस
				121	निजी	व्यावसायिक	486	राजा राम सिंह पिता स्व० तुलसी सिंह व तपेश्वर यादव पिता स्व० शंकर यादव व दसरथ यादव व रामलगन यादव पिता स्व० विमिषण यादव नि० कांस व अम्बुज सिंह पिता स्व० साहब दयाल सिंह नि० नासरीगंज, रोहतास हाल यो० कांस
				122	सरकारी	व्यावसायिक	202	गैर मजरूआ मालिक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				123	निजी	व्यावसायिक	324	असगर अंसारी पिता इसहाक अंसारी नि० जोगिया
				119/115	सरकारी	धनहर	2747	गैर मजरूआ मालिक
				126	सरकारी	पत्ती	610	गैर मजरूआ मालिक
				128	सरकारी	बोंध	81	गैर मजरूआ आम बिहार सरकार
				125	निजी	आवासीय	809	जवाहिर महतो पिता स्‍व० फगुनी महतो व राजेश्वर महतो पिता स्‍व० सुखाड़ी महतो नि० कांस
				129	निजी	आवासीय	566	श्रीमती इन्द्र कुँवर पति स्‍व० अशोक प्रसाद सिंह व दामोदर प्रसाद पिता नि० कांस व ईशा अंसारी पिता मो० हुसैन अंसारी नि० जोगिया व सुमन प्रसाद पिता मुनेश्वर प्रसाद व जितेन्द्र यादव पिता पंचम यादव व राम अदित सिंह पिता स्‍व० पूरन सिंह नि० कांस
				130	निजी	आवासीय	530	सुमन प्रसाद गुप्ता पिता मुन्नु बाबू नि० जोगिया व राम कृत सिंह, राम चरित्र सिंह पिता स्‍व० पूरन सिंह नि० कांस
				131	सरकारी	बोंध	405	गैर मजरूआ आम, बिहार सरकार
				132	निजी	व्यावसायिक	810	अकध सिंह पिता स्‍व० देनी सिंह व राम प्रवेश सिंह पिता स्‍व० रामधारी सिंह व राम चरित्र सिंह व रामकृत सिंह पिता स्‍व० पूरन सिंह नि० कांस
				133	निजी	व्यावसायिक	810	राम चरित्र सिंह व राम कृत सिंह पिता स्‍व० पूरन यादव व राम प्रवेश सिंह पिता स्‍व० रामधारी सिंह नि० कांस व अकध सिंह पिता स्‍व० देनी सिंह नि० जनकोप
योग							16605	
			(10) जनकोप थाना नं० 118	1201	निजी	धनहर	182	मंगर महतो पिता स्‍व० बाल गोविन्द महतो व रामेश्वर महतो पिता रामदेव महतो व लक्ष्मण मेहता, रत्नीया मेहता, परमेश्वर मेहता पिता स्‍व० सुखदेव मेहता व लखन मेहता पिता स्‍व० शिवचरण मेहता व गणेश मेहता पिता स्‍व० देवचरण मेहता नि० कांस
				1198	सरकारी	रास्ता	243	गैर मजरूआ आम
				1209	निजी	धनहर	243	लक्ष्मण यादव, धनेश्वर यादव, महेसर यादव पिता स्‍व० कुंज बिहारी यादव व राम प्रवेश यादव पिता स्‍व० रामधारी यादव व रामचन्द्र यादव, राजनाथ यादव पिता स्‍व० तेतर यादव व कौशल कुमार यादव पिता पदार्थ यादव नि० कांस
				1211	निजी	धनहर	162	राम चरित्र यादव पिता स्‍व० पूरन यादव नि० कांस
				1224	निजी	धनहर	243	मोला महतो, लखीचन्द महतो, शिवपूजन महतो, लक्ष्मी महतो पिता स्‍व० सुखदेव महतो नि० कांस
				1147	निजी	धनहर	202	रामेश्वर महतो पिता स्‍व० रामदेव महतो व लखन महतो पिता स्‍व० शिवचरण महतो नि० कांस व सोहन महतो पिता स्‍व० रुपनाराणण महतो नि० रतन पुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1145	निजी	परती	243	दसरथ यादव, राम लखन यादव पिता स्व० विभीषण यादव नि० कांस
				1144	निजी	परती	101	बिलाश महतो, मोला महतो, लक्ष्मन महतो पिता स्व० सूकन महतो नि०कांस
				1143	निजी	परती	142	महमूद आलम पिता इस्सार्दल नि० जोगिया
				1140	निजी	परती	113	मोती लाल यादव पिता केशवर यादव व रुपनारायण महतो पिता स्व० महाराज महतो नि० निजग्राम
				1141	निजी	नीट	121	रामधनी महतो पिता स्व० मंजर महतो, मोती लाल यादव, बंदी यादव पिता स्व० केशवर यादव व महावीर यादव, कृष्णा यादव पिता स्व० रघू यादव व रामचन्द्र यादव, नरेश यादव पिता स्व० किशुन यादव नि० निजग्राम
				1139	निजी	धनहर	384	रामनरेश यादव पिता स्व० रामगती यादव व मुनारिक यादव पिता स्व० मौजी यादव नि० कांस
				1132	निजी	धनहर	324	राम प्रसाद मिस्त्री पिता स्व० सेगन मिस्त्री नि० जनकोप
				1265	निजी	धनहर	809	ओम प्रकाश खेमका पिता स्व० ओमकार मल नि० औरंगाबाद
				1124	निजी	धनहर	132	ओम प्रकाश खेमका पिता स्व० ओमकार मल नि० औरंगाबाद
				1123	निजी	धनहर	142	ओम प्रकाश खेमका पिता स्व० ओमकार मल नि० औरंगाबाद
				1121	निजी	धनहर	91	अर्जुन मेहता पिता स्व० बनारिक मेहता नि० जनकोप
				1269	निजी	धनहर	61	शिवनाथ सिंह, पिता स्व० रामेश्वर सिंह व सत्येन्द्र नारायण सिंह पिता स्व० बिशुन सिंह नि० सनथुआ
				1120	निजी	धनहर	162	सत्येन्द्र नारायण सिंह पिता स्व० विशुन सिंह व शिवनाथ सिंह पिता स्व० रामेश्वर सिंह नि० सनथुआ, सिरिस
				1299	निजी	व्यावसायिक व परती	121	नवल सिंह व कृष्ण देव सिंह पिता स्व० केशो सिंह व प्रसिद्ध सिंह पिता स्व० जगेश्वर सिंह नि० जनकोप
				1300	निजी	व्यावसायिक	202	श्रीमती मनाका देवी पति सुरीठ कुमार सिंह व श्रीमती उर्मिला देवी पति सिद्धेश्वर कुमार सिंह व प्रसिद्ध सिंह पिता स्व० जगेश्वर सिंह नि० जनकोप
				1298	निजी	धनहर	344	सुनील कुमार, सुबोध कुमार, शैलेन्द्र कुमार पिता स्व० लल्लू प्रसाद नि० जोगिया
				1426	सरकारी	व्यावसायिक	485	बकास्त मालिक
				1424	सरकारी	परती	101	बकास्त मालिक
				1427	सरकारी	व्यावसायिक	445	बकास्त मालिक
				1428	सरकारी	धनहर	142	बकास्त मालिक
				1420	निजी	परती	728	क्षितिज रंजन, अनिल कुमार पिता मुखलाल सिंह नि० हाल क्लब रोड औरंगाबाद व दिनेश्वर राम पिता स्व० देव धरण पासवान नि० जनकोप

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1419	निजी	धनहर	283	नीलमणी कुँवर पति स्व० रत्ना सिंह नि० जनकोप व किशुन चंद साव पिता स्व० छेदी लाल साव नि० देह
				1440	सरकारी	आवासीय	405	बकास्त मालिक
				1441	सरकारी	मीट	162	बकास्त मालिक
				1443	सरकारी	व्यावसायिक	291	बकास्त मालिक
				1457	सरकारी	व्यावसायिक	10	बकास्त मालिक
				1458	सरकारी	व्यावसायिक	534	बकास्त मालिक
				1459	सरकारी	व्यावसायिक	340	बकास्त मालिक
				1465	निजी	व्यावसायिक	243	यमुना मेहता, सरजू मेहता, त्रिवेनी मेहता पिता स्व० नरेश मेहता नि० सोहर बिगहा चन्दौली
				1464	निजी	व्यावसायिक	40	यमुना मेहता, सरजू मेहता, त्रिवेनी मेहता पिता स्व० नरेश मेहता नि० सोहर बिगहा चन्दौली
				1470	निजी	धनहर	307	सुरीठ कुमार सिंह पिता स्व० रामदेनी सिंह नि० जनकोप व उदय कुमार पिता रामकृष्ण चौहान नि० मुशी बिगहा व जितेन्द्र पिता सूर्यदेव चौहान नि० जनकोप
				1471	निजी	धनहर	81	सूर्यदेव नोनिया पिता स्व० दूखी नोनिया व भरत गुप्ता, रामचन्द्र गुप्ता, ओमप्रकाश गुप्ता, सत्तन गुप्ता पिता स्व० फिरंगी गुप्ता नि० जनकोप
				1543	निजी	व्यावसायिक	242	सुरीठ कुमार सिंह पिता स्व० रामदेनी सिंह नि० जनकोप
				1545	निजी	धनहर	121	जोधी बैठा पिता गोपी बैठा व अशोक बैठा पिता मथुरा बैठा नि० जनकोप
				1546	निजी	धनहर	142	रामप्रवेश रजक, नरेश रजक पिता स्व० गणपत रजक नि० जनकोप
				1548	निजी	मीट	172	गणेश मेहता, सुन्दर मेहता, मुन्दर मेहता, कमता मेहता, जनार्दन मेहता पिता स्व० मेख मेहता नि० जनकोप
				1547	निजी	मीट	10	यमुना मेहता, सरजू मेहता, त्रिवेनी मेहता पिता स्व० नरेश मेहता नि० सोहर बिगहा चन्दौली
				1551	निजी	आवासीय	194	श्रीमती उतीमा देवी पति रणजीत शर्मा व सोनमती देवी पति रमेश्वर चौहान नि० जनकोप
				1555	सरकारी	घरती	101	गैर मजरूआ मालिक
				1554	निजी	धनहर	192	राजेन्द्र नोनिया पिता सूर्यदेव नोनिया नि० जनकोप
				782	सरकारी	बोंघ	182	गैर मजरूआ आम
				781	सरकारी	आहर	303	गैर मजरूआ आम
				1416	निजी	सहन	131	उपेन्द्र कुमार सिंह, प्रसिद्ध सिंह, उदय सिंह, विन्दा सिंह पिता चन्द्रिका सिंह व रिया कुमारी पिता स्व० विजय सिंह नि० जनकोप
				1401	निजी	धनहर	227	उदय साव, अमूल साव, कमलेश साव, अखिलेश साव पिता स्व० सुखदेव साव व रामदास मेहता, रामचन्द्र मेहता, भरत मेहता पिता स्व० तुलसी मेहता नि० जनकोप
				1402	निजी	धनहर	194	इन्द्रजीत प्रसाद पिता स्व० तपेश्वर साव व शान्ति कुँवर पति स्व० राजेश्वर साव व कामेश्वर प्रसाद पिता स्व० फगुनी साव व सरस्वती कुँवर पति स्व० तपेश्वर साव नि० जनकोप

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1403	निजी	धनहर	182	श्रीमती गजामोती देवी पति रामसुन्दर सिंह व रामसुन्दर सिंह पिता स्व० रामजनम सिंह नि० जनकोप
				1404	निजी	आवासीय	227	राम नन्दन मेहता, शिव नन्दन मेहता, राम बिलास मेहता पिता स्व० महावीर मेहता नि० जोगिया
				1412	निजी	आवासीय	550	अनरखा देवी पति स्व० नबुनी चौहान नि० अजनिया
				1467	निजी	धनहर	194	राजाराम पासवान पिता स्व० देवधरन पासवान नि० जनकोप
				1468	निजी	धनहर	364	अनरखा देवी पति स्व० नबुनी चौहान नि० अजनिया
				1549	निजी	धनहर	194	रंजय सिंह पिता भागवत सिंह नि० कोसडीहरा, बारुन
				1551	निजी	नीट	162	श्रीमती उर्मिला देवी पति रणजीत शर्मा व सोनामती देवी पति रामेश्वर चौहान नि० जनकोप
				1552	निजी	नीट	172	दिनेश्वर पासवान पिता स्व० देवहरण पासवान नि० जनकोप
				1199	निजी	नीट	40	रामचन्द्र यादव, नरेश यादव पिता स्व० किशुन यादव नि० जनकोप
				1146	निजी	धनहर	51	रामचन्द्र यादव, नरेश यादव पिता स्व० किशुन यादव नि० जनकोप
				1312	निजी	नीट	101	सुनील कुमार, सुबोध कुमार, शैलेश कुमार पिता स्व० लल्लू प्रसाद नि० जोगिया व विजय कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, सुनिल कुमार सिंह, हरिभजन सिंह पिता स्व० यमुना सिंह नि० जनकोप
				1296	निजी	नीट	182	सुनील कुमार, सुबोध कुमार, शैलेश कुमार पिता स्व० लल्लू प्रसाद नि० जोगिया
				1414	निजी	धनहर	81	श्रीमती दुखनी देवी पति मुंशी साव नि० जनकोप
				1469	निजी	धनहर	101	चन्द्रदीप मिस्त्री पिता स्व० जगेश मिस्त्री नि० जनकोप
				1133	निजी	धनहर	1132	राम चरित्र सिंह, राम कृत सिंह, रामजग सिंह पिता स्व० पूरन यादव नि० कांस
				781	सरकारी	नदी	263	बिहार सरकार, सर्वसाधारण
				782	सरकारी	बोंब	162	गैर मजरूआ आम
योग							15713	
			(11) चन्दीली थाना नं० 236	625	निजी	आवासीय	260	सरयू सिंह पिता रामनरेश सिंह नि० सोहर बिगहा
				626	निजी	नीट	192	सरयू सिंह पिता रामनरेश सिंह नि० सोहर बिगहा
				638	निजी	नीट	243	राजेन्द्र महतो, नन्दू महतो, बृजमोहन महतो पिता अय्य बिहारी महतो नि० सोहर बिगहा
				637	निजी	नीट+परती	162	जमुना प्रसाद पिता रामनरेश प्रसाद नि० सोहरबिगहा
				640	निजी	नीट+परती	384	कामता महतो पिता स्व० डोमन महतो नि० सोहर बिगहा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				644	निजी	नीट+पस्ती	171	रामेश्वर प्रसाद वर्मा पिता स्व० श्याम बिहारी मेहता नि० सोहर बिगहा
				643	निजी	नीट+पस्ती	142	सुखलाल मेहता व सरयू मेहता पिता स्व० गणेशी मेहता व हरवंश मेहता पिता स्व० जगदीश मेहता, सुमन कुमार पिता स्व० विजय मेहता नि० सोहर बिगहा
				646	निजी	नीट+पस्ती	192	कामता महतो पिता स्व० डोमन महतो नि० सोहर बिगहा
				655	निजी	नीट+पस्ती	293	रामेश्वर प्रसाद वर्मा पिता स्व० श्याम बिहारी मेहता व बाली मेहता पिता स्व० सुखदेव मेहता नि० सोहर बिगहा
				654	निजी	नीट+पस्ती	344	सीता राम मेहता, सुरेन्द्र मेहता पिता स्व० रघुबीर मेहता नि० सोहर बिगहा व गुप्तेश्वर मेहता, मुन्ना मेहता, सुशील मेहता पिता जुदागिर मेहता नि० चन्दीली
				650	निजी	नीट+पस्ती	243	राम बरण मेहता, काशीनाथ मेहता, बैजू मेहता पिता स्व० रामदेव मेहता नि० सोहर बिगहा
				651	निजी	नीट+पस्ती	223	सरयू सिंह पिता रामनरेश सिंह व राम प्रवेश मेहता पिता राम रतन मेहता नि० सोहर बिगहा
				704	निजी	नीट+पस्ती	97	सुखलाल मेहता, जगदीश मेहता पिता स्व० गणेशी मेहता नि० सोहर बिगहा
				705	निजी	नीट+पस्ती	142	सुखलाल मेहता, सरयू मेहता, जगदीश मेहता पिता स्व० गणेशी मेहता नि० सोहर बिगहा
				708	निजी	नीट+पस्ती	51	कामता महतो पिता स्व० डोमन महतो नि० सोहर बिगहा
				575	निजी	नीट+पस्ती	81	कामता महतो पिता स्व० डोमन महतो नि० सोहर बिगहा
				574	निजी	नीट+पस्ती	202	कैलाश महतो पिता स्व० रुप महतो नि० सोहर बिगहा
				573	निजी	नीट	283	धनेसर मेहता, राजेन्द्र मेहता पिता स्व० ठाकुर मेहता नि० सोहर बिगहा
				713	निजी	नीट	40	राम बदन महतो पिता स्व० भोला महतो नि० सोहर बिगहा
				714	निजी	नीट	75	अर्जुन मेहता, भीम मेहता पिता स्व० धारी मेहता नि० सोहर बिगहा
				716	निजी	नीट	283	सरयू सिंह पिता स्व० रामनरेश सिंह नि० सोहर बिगहा
				718	निजी	नीट+पस्ती	162	राम वरण महतो, काशी महतो, बैजनाथ महतो पिता स्व० रामदेव महतो व बासुदेव महतो, सत्येन्द्र महतो, वीरेन्द्र महतो पिता स्व० कृत महतो नि० सोहर बिगहा
				785	निजी	नीट+पस्ती	202	अर्जुन मेहता, भीम मेहता पिता स्व० धारी मेहता नि० सोहर बिगहा
				786	निजी	नीट+पस्ती	445	कृष्णा महतो, मगवान महतो, सत्येन्द्र महतो पिता स्व० फगुनी महतो नि० सोहर बिगहा
				788	सरकारी	रास्ता	75	गैर मजरुआ आम
				789	सरकारी	करहा	45	गैर मजरुआ आम
				790	सरकारी	रास्ता	405	गैर मजरुआ आम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				866	मिर्ची	नीट+गल्ली	243	सुखलाल मेहता, सरयू मेहता, जगदीश मेहता पिता स्वः गणेशी मेहता निः सोहर बिगहा
				867	मिर्ची	नीट+गल्ली	131	सुमन मेहता पिता विजय मेहता व अक्वेश मेहता पिता राजदेव मेहता निः सोहर बिगहा
				868	मिर्ची	नीट	162	मोहन मेहता, विष्णुपुत मेहता, प्रयाग मेहता, विश्वनाथ मेहता पिता स्वः राम जतनी मेहता व छेदी महतो पिता स्वः लगन महतो निः सोहर बिगहा
				862	मिर्ची	नीट	60	अक्वेश मेहता पिता राजदेव मेहता व रामबदन मेहता पिता भोला मेहता निः सोहर बिगहा
				863	मिर्ची	नीट	223	यमुना प्रसाद पिता राम नरेश प्रसाद व रामप्रवेश महतो, अक्वेश महतो, रामबदन महतो पिता स्वः राम रतन महतो निः सोहर बिगहा
				870	मिर्ची	नीट+गल्ली	81	पौचू महतो पिता स्वः मंगर महतो निः सोहर बिगहा
				878	मिर्ची	नीट	769	जगदीश सिंह पिता स्वः अखज सिंह निः चन्दौली व यमुना प्रसाद पिता रामनरेश प्रसाद निः सोहर बिगहा
				879	मिर्ची	नीट	324	जगदीश सिंह पिता स्वः अखज सिंह व लपेश्वर सिंह पिता स्वः जगदीश सिंह निः चन्दौली
				618	सल्कारी	आहर	404	श्री भजराजा आम
				617	मिर्ची	नीट	71	राम जनम प्रसाद, शकुन प्रसाद पिता स्वः मधुरा महतो निः सोहर बिगहा
				619	मिर्ची	नीट	61	जगदीश सिंह पिता स्वः अखज सिंह निः चन्दौली
				615	मिर्ची	नीट	384	सरयू मेहता पिता नरेश मेहता व अक्वेश मेहता पिता राजदेव मेहता व कामदेव मेहता पिता स्वः राजाराम मेहता निः सोहर बिगहा
				603	मिर्ची	नीट	60	छेदी महतो पिता स्वः लगन महतो व मोहन मेहता पिता स्वः राम जतनी मेहता निः सोहर बिगहा
				604	मिर्ची	नीट	212	सीता राम मेहता, सुरेन्द्र मेहता पिता स्वः रघुबीर मेहता व गुप्तेश्वर मेहता, मुन्ना मेहता, सुशील मेहता पिता स्वः जुदागीर मेहता व पाचू मेहता पिता स्वः मंगर मेहता निः सोहर बिगहा
				605	मिर्ची	नीट	61	सरयू मेहता, जगदीश मेहता, जयमंगल मेहता पिता स्वः गणेशी मेहता निः सोहर बिगहा
				606	मिर्ची	नीट	243	नारायण मेहता पिता स्वः तिलेश्वर मेहता निः सोहर बिगहा व श्रीमती कृष्णा देवी पति राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निः शाहपुर, औरंगाबाद
				598	मिर्ची	बगहर	486	कामदेव महतो, परमानन्द महतो, अजय महतो पिता स्वः राजाराम महतो निः सोहर बिगहा
				646	मिर्ची	नीट	81	राजदेव मेहता, रामबदन मेहता पिता स्वः भोला मेहता व राम प्रवेश मेहता, सुरेश मेहता पिता स्वः राम रतन मेहता निः सोहर बिगहा
				647	मिर्ची	नीट	60	राजदेव मेहता, रामबदन मेहता पिता स्वः भोला मेहता व राम प्रवेश मेहता, सुरेश मेहता पिता स्वः राम रतन मेहता निः सोहर बिगहा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				648	निजी	परती	101	धनेसर मेहता, राजेन्द्र मेहता पिता स्व० ठाकुर मेहता नि० सोहर बिगहा
				591	निजी	परती	40	धनेसर मेहता, राजेन्द्र मेहता पिता स्व० ठाकुर मेहता नि० सोहर बिगहा
				650	निजी	परती	61	शिवधारी महतो पिता स्व० महीपत महतो व कृष्णा महतो, सत्येन्द्र महतो, मगवान महतो पिता स्व० फंगुनी महतो नि० सोहर बिगहा
				587	निजी	मीट	194	मोहन मेहता, विष्णुपत मेहता, प्रयाग मेहता, विश्वनाथ मेहता पिता स्व० राम जतनी मेहता व अक्क बिहारी महतो पिता स्व० सूर्य महतो व मोसाफिर महतो, प्यारे महतो पिता स्व० नान्हक महतो व प्रदीप महतो पिता स्व० रमापत महतो नि० सोहर बिगहा
				580	निजी	परती	130	राम प्रवेश मेहता, अक्केश मेहता, रामबदन मेहता पिता राम रतन मेहता नि० सोहर बिगहा
				581	निजी	परती	20	बासुदेव महतो पिता स्व० रामकृत महतो नि० सोहर बिगहा
				586	निजी	परती	81	जीत वाहन महतो, राम नन्दन महतो पिता स्व० शंकर महतो नि० सोहर बिगहा
				582	सरकारी	परती	293	बकास्त मालिक
				570	सरकारी	मीट	101	बकास्त मालिक
				571	सरकारी	मीट	194	बकास्त मालिक
				565	सरकारी	मीट	81	बकास्त मालिक
				562	सरकारी	मीट	121	बकास्त मालिक
				561	सरकारी	मीट	61	बकास्त मालिक
				560	सरकारी	मीट	101	बकास्त मालिक
				559	सरकारी	मीट	162	बकास्त मालिक
				557	सरकारी	मीट	486	बकास्त मालिक
				833	सरकारी	मीट	405	बकास्त मालिक
				834	सरकारी	मीट	162	बकास्त मालिक
				862	निजी	मीट	162	अक्केश मेहता पिता राजदेव मेहता व रामबदन मेहता पिता भोला मेहता नि० सोहर बिगहा
				859	निजी	मीट	172	राम वरण महतो, काशी नाथ महतो, बैजू महतो पिता स्व० रामदेव महतो नि० सोहर बिगहा
				857	निजी	मीट	394	यदुवश सिंह, सत्येन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह पिता स्व० कौलेश्वर सिंह नि० जनकोप व कामता महतो पिता स्व० डोमन महतो नि० सोहर बिगहा
				854	निजी	मीट	324	कामता महतो पिता स्व० डोमन महतो नि० सोहर बिगहा
				880	निजी	मीट	121	नरेश सिंह, अर्जुन सिंह, सुरेश सिंह पिता स्व० महादेव सिंह व विजय सिंह पिता स्व० सरयू सिंह नि० चन्दौली
				881	निजी	परती	142	सुमन सिंह पिता स्व० राजदेव सिंह नि० सोहर बिगहा व नागदेव सिंह, विष्णुपत सिंह पिता स्व० दीपन सिंह नि० चन्दौली
				900	निजी	घनहर	162	नागदेव सिंह, विष्णुपत सिंह पिता स्व० दीपन सिंह व सुमन सिंह पिता स्व० राजदेव सिंह नि० चन्दौली

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				899	निजी	धनहर	526	यदुवंश सिंह, सत्येन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह पिता स्व० कौलेश्वर सिंह नि० जनकोप व अरुण कुमार सिंह पिता स्व० रघुवंश सिंह नि० चन्दौली
				624	निजी	धनहर	175	राम प्रवेश वर्मा पिता रामरतन महतो व अक्केश महतो पिता राजदेव महतो व रामबदन महतो पिता मोला महतो नि० सोहर बिगहा
				639	निजी	धनहर	192	यदुवंश सिंह, सत्येन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह पिता स्व० कौलेश्वर सिंह व अरुण कुमार सिंह पिता स्व० रघुवंश सिंह नि० चन्दौली
				564	सरकारी	पट्टी	91	बकास्त मालिक
				717	निजी	धनहर	101	कैलाश महतो पिता स्व० रुप महतो नि० सोहर बिगहा
				869	निजी	धनहर	162	सिधारी महतो पिता स्व० महीपत महतो नि० सोहर बिगहा
				558	सरकारी	धनहर	81	बकास्त मालिक
				579	निजी	धनहर	81	अज्ञात
योग							15233	
	2. औरंगाबाद	(1) बमनडीह थाना नं० 266		808	निजी	धनहर	1699	सतीष कुमार पिता बैजनाथ सिंह नि० बमनडीह
				816	निजी	धनहर	350	राम बिलास सिंह, राम जनम सिंह पिता स्व० लालधारी सिंह नि० बमनडीह
				817	निजी	धनहर	566	राजेश सिंह पिता स्व० जय गोविन्द सिंह नि० बमनडीह
				820	निजी	धनहर	101	सुधीर सिंह पिता रामदेव सिंह व राम बचन सिंह पिता स्व० मुशी सिंह नि० बमनडीह व मनोज प्रसाद गुप्ता व मदन प्रसाद गुप्ता पिता रामदास नि० तेलहारा, अम्बा
				818	निजी	धनहर	510	कमला सिंह पिता स्व० लल्लू सिंह नि० बमनडीह
				819	निजी	धनहर	405	उर्मिला देवी पति राजेश्वर साव नि० मंजुराही व सुनीता सिंह पति अरुण कुमार सिंह नि० भरथौली, औरंगाबाद
				821	निजी	धनहर	20	कर्मदेव सिंह पिता स्व० लाल बिहारी सिंह नि० निजग्राम
				429	निजी	धनहर	101	धर्मदेव प्रसाद व ब्रह्मदेव प्रसाद पिता रामराज सिंह नि० निजग्राम
				428	निजी	धनहर	172	राम आधार सिंह पिता चलित्तर सिंह नि० बमनडीह
				427	निजी	धनहर	1537	रमेश सिंह पिता स्व० मथुरा सिंह व घूरा नारायण सिंह पिता स्व० फेकन सिंह व श्रीमती कुती देवी पति राघव मल सिंह नि० बमनडीह
				425	निजी	धनहर	1254	अनिल कुमार खेमका पिता बैजनाथ खेमका नि० कसवा न्यू एरिया, औरंगाबाद व रामदेव सिंह, जगनारायण सिंह पिता रामधनी सिंह नि० बमनडीह
				426	निजी	धनहर	293	सुनील कुमार खेमका पिता बैजनाथ प्रसाद खेमका नि० कसवा, न्यू एरिया औरंगाबाद
				412	निजी	धनहर	486	सुनील कुमार खेमका पिता बैजनाथ प्रसाद खेमका नि० कसवा, न्यू एरिया औरंगाबाद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				403	निजी	घनहर	1264	भीमराज प्रसाद, दुखन प्रसाद, दिलीप प्रसाद पिता स्क्व मुखदेव साव नि० बमनडीह
				402	निजी	घनहर	90	रामकेश मिस्त्री पिता खेलावन मिस्त्री नि० बमनडीह
				404	निजी	घनहर	1295	चन्द्रदेव प्रसाद सिंह, जगनारायण सिंह पिता रामधनी सिंह नि० बमनडीह
				400	निजी	घनहर	225	धुरा नारायण सिंह पिता स्क्व फेकन सिंह व रमेश सिंह पिता मथुरा सिंह नि० बमनडीह
				393	निजी	घनहर	324	प्रमोद कुमार सिंह पिता स्क्व राजेश्वर प्रसाद सिंह नि० ज्ञानपुरी, नागा बिगहा, औरंगाबाद व उपेन्द्र सिंह, राम बचन सिंह, सुरेश सिंह पिता बासदेव सिंह नि० बमनडीह
				394	निजी	घनहर	243	साकेत कुमार सिंह, सौरभ कुमार सिंह पिता प्रमोद कुमार सिंह नि० बमनडीह
				395	निजी	घनहर	1456	प्रमोद कुमार सिंह पिता स्क्व राजेश्वर प्रसाद सिंह व श्रीमती ऊषा सिंह पति प्रमोद कुमार सिंह व साकेत कुमार सिंह, सौरभ कुमार सिंह पिता प्रमोद कुमार सिंह नि० ज्ञानपुरी, नागा बिगहा, औरंगाबाद व राम बचन सिंह पिता मुंशी सिंह नि० बमनडीह
				312	सरकारी	घनहर	2589	गैर मजरूआ मालिक
				877	सरकारी	घनहर	566	गैर मजरूआ मालिक
योग							15546	
			(2) मंजुराही थाना नं० 265	993	निजी	घनहर	566	चन्द्रिका सिंह पिता जगन सिंह व लल्लन सिंह पिता बृक्ष सिंह नि० मंजुराही
				931	सरकारी	रास्ता	620	गैर मजरूआ आम
				699	निजी	आवासीय	607	बैकुण्ठ सिंह पिता स्क्व राममरन सिंह नि० मंजुराही
				698	सरकारी	आवासीय	566	गैर मजरूआ मालिक
				1241	निजी	आवासीय	795	सुरेश सिंह, उमेश सिंह, दिनेश सिंह, दिलीप सिंह पिता प्रदीमा सिंह नि० देह व मकसूदन सिंह पिता स्क्व इन्द्रदेव सिंह नि० निजग्राम
				1240	निजी	व्यावसायिक	250	सुरेश सिंह, उमेश सिंह, दिनेश सिंह, दिलीप सिंह पिता प्रदीमा सिंह व उर्मिला देवी पति केशनाथ सिंह नि० निजग्राम
				1255	सरकारी	व्यावसायिक	1163	गैर मजरूआ मालिक
				1256	सरकारी	व्यावसायिक	749	ग्रोथ सेन्टर
				1305	सरकारी	व्यावसायिक	1020	गैर मजरूआ मालिक
योग							6336	
			(3) जसोइया चादर-1 थाना नं० 264	407	निजी	व्यावसायिक	1254	बिनोद शर्मा पिता सत्यदेव शर्मा नि० शर्मा पेट्रोल पम्प औरंगाबाद व अर्जुन कहार, सरजू कहार पिता भिखर कहार नि० मंजुराही
				408	सरकारी	घनहर	2185	गैर मजरूआ मालिक
				405	सरकारी	पिण्ड	910	गैर मजरूआ आम
				391	निजी	घनहर	516	श्रीमती सावित्री देवी पति अम्बिका प्रसाद सिंह नि० लक्ष्मन बिगहा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				360	मिर्जा	कन्नड	1689	श्रीमती कान्ति सिंह प्रति विनोद कुमार सिंह व राजेन्द्र सिंह पिता स्वो शिव नन्दन सिंह व प्रमोद कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, अरविन्द कुमार सिंह पिता राजेन्द्र प्रसाद सिंह निो नेगा बिराडा, औरंगाबाद व विजय ठाकुर, अजय ठाकुर, अदिनास ठाकुर पिता स्वो नचुनी ठाकुर निो जसोईया, औरंगाबाद
				369	मिर्जा	कन्नड	627	श्रीमती संख्या सिंह प्रति प्रमोद कुमार सिंह व श्रीमती नीमा सिंह प्रति अरविन्द कुमार सिंह व श्रीमती सीता देवी प्रति राजेन्द्र प्रसाद सिंह निो नेगा बिराडा, औरंगाबाद व नारायण ठाकुर पिता फौजदार ठाकुर निो जसोईया
				368	मिर्जा	पर्वी	960	नारायण ठाकुर पिता फौजदार ठाकुर निो जसोईया
				367	मिर्जा	पर्वी	1305	धनन्तय सिंह, रामाश्रीष सिंह पिता सरनारायण सिंह निो जसोईया व लीलावती कुंवर प्रति स्वो राजेवर सिंह निो कथरुआ, औरंगाबाद
				366	मिर्जा	कन्नड	486	गुरोवर नारायण सिंह पिता चन्द्रिका सिंह निो जसोईया
				365	माम्बरी	कन्नड	971	रकास शालिक
				364	मिर्जा	अमरावती	1479	नरसिंहवर सिंह, शशि शंकर सिंह पिता राम प्रेमन सिंह निो राजपुर, औरंगाबाद व श्रीमती उमा सिंह प्रति राजन कुमार सिंह निो आदर्श कालोनी, औरंगाबाद व राम परीखा सिंह, रामरेखा सिंह पिता राजदेव सिंह व धनमार्गिक कुंवर प्रति स्वो राम बिलास सिंह निो जसोईया व राजीव कुमार सिंह पिता स्वो महेस सिंह निो सनगुआ, मराठ गैस, औरंगाबाद व गोपाल नारायण सिंह पिता नगोवर सिंह निो परबोली
				413	माम्बरी	मिन्ड	162	गैर मजदूरा आग
				414	माम्बरी	पन्नर मिर्जा	980	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पूर्वी गोंधी मैदान उद्योग भवन पटना, (बिहाडा)
				412	माम्बरी	मिन्ड	1821	गैर मजदूरा आग
				428	माम्बरी	पन्नर मिर्जा	227	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पूर्वी गोंधी मैदान उद्योग भवन पटना, (बिहाडा)
				429	माम्बरी	पन्नर मिर्जा	200	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पूर्वी गोंधी मैदान उद्योग भवन पटना, (बिहाडा)
				431	माम्बरी	पन्नर मिर्जा	260	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पूर्वी गोंधी मैदान उद्योग भवन पटना, (बिहाडा)
				432	माम्बरी	मिन्ड	20	गैर मजदूरा आग
				434	माम्बरी	पन्नर मिर्जा	617	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पूर्वी गोंधी मैदान उद्योग भवन पटना, (बिहाडा)
				435	माम्बरी	पन्नर मिर्जा	111	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पूर्वी गोंधी मैदान उद्योग भवन पटना, (बिहाडा)
				436	माम्बरी	पन्नर मिर्जा	101	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पूर्वी गोंधी मैदान उद्योग भवन पटना, (बिहाडा)
				441	माम्बरी	पन्नर मिर्जा	130	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पूर्वी गोंधी मैदान उद्योग भवन पटना, (बिहाडा)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				442	सरकारी	बहार दिवारी	162	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पूर्वी गोंधी मैदान उद्योग भवन पटना, (बिआडा)
				443	सरकारी	बहार दिवारी	364	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पूर्वी गोंधी मैदान उद्योग भवन पटना, (बिआडा)
				437	सरकारी	पिन्ड	81	गैर मजरूआ आम
				396	सरकारी	धनहर	40	(भू हदबन्दी) गोपाल नारायण सिंह पिता नागेश्वर सिंह नि० जसोईया
				382	सरकारी	धनहर	2845	(भू हदबन्दी) गोपाल नारायण सिंह पिता नागेश्वर सिंह नि० जसोईया
				383	सरकारी	रस्ता	1700	गैर मजरूआ आम
योग							22213	
			चादर-2	480	सरकारी	बोंघ	1497	गैर मजरूआ आम
				481	निजी	धनहर	2030	गुप्तेश्वर नारायण सिंह पिता चन्द्रिका सिंह नि० जसोईया
				479	सरकारी	व्यावसायिक	815	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पूर्वी गोंधी मैदान उद्योग भवन पटना, (बिआडा)
				559	गारत सरकार	धनहर	405	केशरे हिंद
				626	गारत सरकार	धनहर	283	केशरे हिंद
				627	गारत सरकार	धनहर	221	केशरे हिंद
				628	गारत सरकार	धनहर	250	केशरे हिंद
				367	सरकारी	व्यावसायिक	1012	गैर मजरूआ मालिक
				863	सरकारी	धनहर	1720	(भू हदबन्दी) कृष्णा नारायण सिंह पिता नागेश्वर सिंह नि० भरथौली
				865	निजी	व्यावसायिक	980	श्रीमती उत्तम देवी पति शंकर सिंह नि० जसोईया व अनिल कुमार खेमका, सुनील कुमार खेमका पिता बैजनाथ प्रसाद खेमका नि० न्यू एरिया महाराजगंज, औरंगाबाद व राम सुरेश सिंह पिता रामरतन सिंह नि० जसोईया व कृष्णा नारायण सिंह पिता नागेश्वर सिंह नि० भरथौली
				900	निजी	व्यावसायिक	263	श्रीमती उत्तम देवी पति शंकर सिंह व शंकर सिंह पिता नन्दलाल सिंह नि० जसोईया व गोपाल नारायण सिंह पिता राम प्रसाद सिंह नि० जसोईया
				902	निजी	जायातीव	185	रामदास ठाकुर, भगवान दास ठाकुर, सीताराम ठाकुर पिता राम टहल ठाकुर नि० जसोईया
				903	निजी	जायातीव	194	राम सुरेश सिंह पिता स्व० राम रतन सिंह नि० जसोईया
				905	निजी	धनहर	109	सुनील कुमार खेमका पिता स्व० बैजनाथ प्रसाद खेमका नि० न्यू एरिया महाराजगंज व राम अशीष सिंह पिता नि० रैयपुरा
				906	निजी	धनहर	283	राम सुरेश सिंह पिता स्व० राम रतन सिंह नि० जसोईया
				907	सरकारी	रस्ता	202	गैर मजरूआ आम
				908	निजी	जायातीव	445	कृष्णा नारायण सिंह पिता नागेश्वर सिंह नि० भरथौली

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				909	निजी	आवासीय	250	कृष्णा सिंह व सुदर्शन सिंह, राम विनय सिंह, रंजीत सिंह, सुमन्त सिंह पिता स्व० शिव जनम सिंह नि० जसोईया
				910	निजी	आवासीय	162	द्वारिका सिंह पिता स्व० प्रभास सिंह व मुरली सिंह पिता राम प्रसाद सिंह नि० जसोईया
				912	निजी	आवासीय	162	राम सुरेश सिंह पिता स्व० राम रतन सिंह नि० जसोईया
				913	निजी	आवासीय	81	राम सुरेश सिंह पिता स्व० राम रतन सिंह नि० जसोईया
				914	निजी	आवासीय	205	राम सुरेश सिंह पिता स्व० राम रतन सिंह नि० जसोईया
				623	सरकारी	आवासीय	162	गैर मजरूआ मालिक
				624	निजी	आवासीय	20	ब्रज नन्दन कुमार सिंह, जैनेन्द्र कुमार सिंह, रणधीर कुमार सिंह पिता कृष्णा कुमार सिंह, नि० जसोईया
				625	निजी	आवासीय	20	गणेश साव पिता स्व० शिवदास साव नि० जसोईया
				572	नगर सरकार	धनहर	40	केशरे हिंद
				573	निजी	धनहर	20	कर्मदेव सिंह पिता स्व० जगदेव सिंह व सुनील कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह पिता कर्मदेव सिंह, नि० जसोईया
				574	नगर सरकार	धनहर	182	केशरे हिंद
				575	नगर सरकार	धनहर	10	केशरे हिंद
				596	सरकारी	तस्मा	20	गैर मजरूआ आम, सर्वसाधारण
				611	नगर सरकार	धनहर	51	केशरे हिंद
				612	निजी	आवासीय	61	सुनील कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह पिता कर्मदेव सिंह, नि० जसोईया
				613	सरकारी	आवासीय	10	गैर मजरूआ मालिक
				995	निजी	धनहर	81	गुप्तेश्वर नारायण सिंह पिता स्व० चन्द्रिका सिंह नि० जसोईया
				994	सरकारी	धनहर	20	(मू हदबंदी) गोपाल नारायण सिंह पिता स्व० नागेश्वर सिंह नि० जसोईया
				1005	निजी	धनहर	486	लाल बिहारी सिंह पिता स्व० बाल गोविन्द सिंह नि० जसोईया
				1006	सरकारी	धनहर	587	गैर मजरूआ आम
				1017	निजी	धनहर	243	श्रीमती ललिता देवी पति शिव मुरत तिवारी नि० जसोईया
				1015	निजी	धनहर	1457	मुरली सिंह पिता राम प्रसाद सिंह नि० जसोईया व मालती देवी पति सुरेन्द्र सिंह व कामता सिंह पिता स्व० लालजी सिंह नि० कथरूआ व राम दुलारी सिंह पति राधा प्रसाद सिंह नि० न्यू एरिया डेहरी व वीणा देवी पति अनिल सिंह नि० जसोईया
				987	सरकारी	धनहर	2430	बकास्त मालिक
				988	सरकारी	धनहर	162	(मू हदबंदी) गोपाल नारायण सिंह पिता स्व० नागेश्वर सिंह नि० जसोईया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				998	निजी	बनहर	1254	धनुष सिंह यादव पिता स्व० रामदेव सिंह व गोविन्द प्रसाद अकेला, अरविन्द कुमार पिता धनुष सिंह यादव नि० जगदीश पुर व सत्यम शिवम सुन्दरम पिता स्व० देव दत्त प्रसाद सिंह व श्रीमती विजयाराज लक्ष्मी पति सत्यम शिवम सुन्दरम नि० नरौली, बख्तियार पुर, पटना
				999	सरकारी	बनहर	789	(मू हदबंदी) गोपाल नारायण सिंह पिता स्व० नागेश्वर सिंह नि० जसोईया
				1002	निजी	बनहर	384	हरि चरण सिंह पिता सुल्हन सिंह नि० जसोईया
				1003	निजी	बनहर	971	पेनु सिंह पिता कलपू सिंह व कमोदा कुँवर पति स्व० सहदेव सिंह नि० जसोईया
				1014	सरकारी	पत्नी	162	गैर मजकूआ मालिक
				911	निजी	बनहर	81	द्वारिका सिंह पिता स्व० प्रगास सिंह नि० जसोईया व श्रीमती मालती सिन्हा पति राम स्वरूप सिंह नि० गोर्खनपुर, कनात टोला, दासद नगर
				1000	निजी	बनहर	10	पेनु सिंह पिता कलपू सिंह व कमोदा कुँवर पति स्व० सहदेव सिंह नि० जसोईया
योग							21427	
			(4) कथरूआ थाना नं० 561	761	निजी	आवासीय	486	प्रमोद साव, सुधीर कुमार गुप्ता पिता स्व० उदय साव नि० कथरूआ व जगन्नाथ शर्मा पिता चन्द्रदीप शर्मा नि० बनुआ
				762	निजी	आवासीय	259	राजेन्द्र यादव पिता जितेन्द्र यादव नि० कथरूआ
				766	निजी	आवासीय	162	श्रीमती अनिता देबी पति जितेन्द्र कुमार सिंह व जितेन्द्र कुमार सिंह पिता शम्भु शरण सिंह व बाबूराम यादव पिता नि० कथरूआ
				764	निजी	आवासीय	568	श्रीमती हसमुख देबी पति सियाराम राय नि० कलेर टोला, अरवल व दुधेश्वर राम पिता नि०
				720	निजी	आवासीय	81	राजेन्द्र यादव पिता जितेन्द्र यादव नि० कथरूआ
				715	निजी	आवासीय	283	सीताराम यादव, रामबिलाश यादव, रामदेव यादव पिता नि० कथरूआ
				714	निजी	आवासीय	243	इन्द्रदेव सिंह पिता नि० वरना, देव
				950	निजी	आवासीय	162	नरेन्द्र कुमार सिंह पिता लालदेव सिंह नि० औरंगाबाद
				948	निजी	आवासीय	81	नरेन्द्र कुमार सिंह पिता लालदेव सिंह नि० औरंगाबाद
				951	निजी	आवासीय	728	श्रीमती कमला देबी पति यमुना सिंह नि० रामपुरा
				736	निजी	आवासीय	40	धर्मराज यादव पिता रघू यादव नि० कथरूआ
				750	निजी	सहन	263	श्रीमती प्रेमशिला देबी पति अर्जुन सिंह नि० सुरजुखाप
				753	निजी	आवासीय	293	निरंजन कुमार सिंह पिता अनिल कुमार सिंह नि० बेदनी, चरकांबा, देव, औरंगाबाद व श्रीचन्द्र शमसेर, जंगबहादुर सिंह पिता सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह नि० गोलघर जी० टी० रोड, औरंगाबाद व शंकर सिंह पिता मिश्रण सिंह नि० कथरूआ
				756	निजी	आवासीय	340	नीरज कुमार सिंह पिता अनिल कुमार सिंह नि० बेदनी, चरकांबा, देव औरंगाबाद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				757	मिर्जी	अमरावती	324	राजेन्द्र यादव पिता जितेन्द्र यादव नि० कथरुआ
				829	मिर्जी	कन्नड	324	अज्ञात
				830	मिर्जी	कन्नड	20	अज्ञात
				831	कन्नडगी	कन्नड	243	गैर मजदूरा आम
				838	मिर्जी	कन्नड	162	अज्ञात
				837	मिर्जी	कन्नड	81	श्रीमती रीता देवी पति गगन यास गुप्ता नि० रामपुर, कर्पी, अरघल व महेन्द्र प्रसाद पिता गायू साव नि० कथरुआ
				700	मिर्जी	कन्नड रिक्की	121	राम लखन सिंह पिता जगन्नाथ सिंह नि० कथरुआ व पत्नीता देवी पति लल्लन सिंह नि० बारा तेरिया
				699	मिर्जी	कन्नड रिक्की	405	राम लखन सिंह पिता जगन्नाथ सिंह नि० कथरुआ व यमुना सिंह पिता नि० रैपुरा
				697	मिर्जी	अमरावती	405	यमुना सिंह पिता नि० रैपुरा
				713	मिर्जी	कन्नड	223	कामता सिंह, अर्जुन सिंह पिता लालजी सिंह नि० कथरुआ
				712	मिर्जी	कन्नड	81	राजेन्द्र यादव पिता जितेन्द्र यादव नि० कथरुआ
				711	मिर्जी	कन्नड	101	सगुनी यादव पिता कृष्ण यादव नि० कथरुआ
				777	मिर्जी	कन्नड	40	धर्मराज यादव पिता रघु रघू यादव नि० कथरुआ
				774	मिर्जी	कन्नड	162	असोक सिंह पिता रामाधार सिंह नि० कथरुआ
				767	मिर्जी	कन्नड रिक्की	223	महंगु पासवान पिता सहदेव पासवान नि० कथरुआ
				1053	मिर्जी	अमरावती	182	महंगु पासवान पिता सहदेव पासवान नि० कथरुआ
				765	मिर्जी	कन्नड	65	अज्ञात
				941	कन्नडगी	मिर्जी	486	गैर मजदूरा आम
				716	मिर्जी	कन्नड रिक्की	162	अज्ञात
				978	मिर्जी	कन्नड	101	कामता सिंह पिता रघु लालजी सिंह नि० कथरुआ
				976	मिर्जी	कन्नड	283	अनिल कुमार खेमका पिता बैजनाथ खेमका नि० कसबा न्यू एरिया, औरंगाबाद
				1006	मिर्जी	कन्नड	5	असोक सिंह पिता रघु रामाधार सिंह व राम अक्षर सिंह पिता रघु राम विलास सिंह नि० कथरुआ
				1007	मिर्जी	कन्नड	360	असोक सिंह पिता रघु रामाधार सिंह व राम अक्षर सिंह पिता रघु राम विलास सिंह व अर्जुन सिंह पिता लालजी सिंह, नि० कथरुआ
				1009	मिर्जी	कन्नड	445	राम लखन सिंह पिता रघु जगन्नाथ सिंह व विष्णुपत सिंह पिता बैजनाथ सिंह व मोहन सिंह पिता किशोरी सिंह नि० कथरुआ
				1010	मिर्जी	कन्नड	161	अज्ञात
				1012	मिर्जी	कन्नड	61	अज्ञात
				1013	मिर्जी	कन्नड	182	शारदा सिंह पिता कुरुका सिंह नि० सया, बाना माली, औरंगाबाद व प्रह्लाद महतो पिता कुमार महतो नि० सुन्दर गंज
				1023	मिर्जी	अमरावती	162	श्रीमती मानवती देवी पति विजयनन्दन सिंह नि० कथरुआ व जितेन्द्र कुमार सिंह पिता मंगलदेव सिंह नि० कुरुवा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1022	निजी	आवासीय	101	विन्ध्याचल सिंह पिता राम जनम सिंह नि० नवी नगर, औरंगाबाद
				1020	निजी	सहन	425	धर्मराज यादव पिता स्व० रघू यादव नि० कथरुआ
				1043	सरकारी	पिण्ड	50	गैर मजरुआ आम
				1042	निजी	आवासीय	365	मुन्ना सिंह पिता अवधेश सिंह व श्रीमती मानमती देवी पति श्री मुन्ना सिंह नि० बाईपास जी०टी. रोड औरंगाबाद व बालकेश्वर सिंह, रामकेश्वर सिंह, जनेश्वर सिंह, महेन्द्र सिंह पिता स्व० रामरत्न सिंह नि० सहेया, मजुराही व देवेन्ती देवी पति सुरेन्द्र सिंह नि० कथरुआ व केदारनाथ सिंह पिता
				1005	सरकारी	पिण्ड	56	गैर मजरुआ आम
				966	निजी	सहन	81	जितेन्द्र कुमार सिंह पिता शम्भूशरण सिंह व श्रीमती अनिता देवी पति जितेन्द्र कुमार सिंह नि० रियुर औरंगाबाद
				968	निजी	सहन	161	श्रीमती पुष्पा देवी पति ईश्वर चन्द्र सिंह नि० बूमरु
				969	निजी	सहन	61	ईश्वर चन्द्र सिंह पिता स्व० राजेन्द्र प्रसाद सिंह नि० बूमरु
				970	निजी	धनहर	170	ईश्वर चन्द्र सिंह पिता स्व० राजेन्द्र प्रसाद सिंह नि० बूमरु व जितेन्द्र पाण्डेय, सत्येन्द्र पाण्डेय पिता प्रसिद्ध पाण्डेय नि० धनिवार
				977	निजी	सहन	81	कौलेश्वर साव, रामनरेश साव पिता स्व० वीरन साव नि० कथरुआ
				758	निजी	धनहर	61	अज्ञात
				719	निजी	सहन	240	अज्ञात
				1048	निजी	आवासीय	546	गणेश प्रसाद गुप्ता, रामप्रसाद साव, विनिषण प्रसाद साव, राम चलित्तर साव पिता स्व० तपसी साव नि० जलवन, मदनपुर व शान्ति देवी पति स्व० रामदर्शन सिंह व विजय कुमार सिंह पिता मुन्शी सिंह सिंह नि० कथरुआ
				1049	निजी	सहन	411	प्रमोद साव, सुधीर कुमार गुप्ता पिता स्व० उदय साव नि० कथरुआ व मुन्ना साव पिता स्व० तपसी साव व मीना देवी पति राम नरेश द्विवेदी नि० कथरुआ
				1050	निजी	आवासीय	411	श्रीमती मानमती देवी पति श्री मुन्ना सिंह नि० बाईपास जी०टी. रोड औरंगाबाद
				1051	निजी	सहन	323	कौलेश्वर साव, रामनरेश साव पिता स्व० वीरन साव नि० कथरुआ
				828	सरकारी	रास्ता	40	गैर मजरुआ आम
				827	निजी	सहन	40	बनवारी मिस्त्री पिता मोती मिस्त्री नि० कथरुआ
				778	निजी	सहन	20	कामता सिंह पिता स्व० लालजी सिंह नि० कथरुआ
				779	निजी	धनहर	20	अज्ञात
योग							13220	
				254	निजी	आवासीय	1052	प्रजापति सिंह पिता स्व० शिवनारायण सिंह नि० रामाबाध
				256	निजी	आवासीय	101	अनिल सिंह पिता रामदीन सिंह नि० रामाबाध

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(5) औरंगाबा द थाना नं० 560	257	निजी	जमातीय	200	सरजू सिंह पिता स्क० हित नरायण सिंह नि० रामाबाघ
				255	निजी	व्यावसायिक	324	रामदीप सिंह पिता स्क० मुखदेव सिंह नि० रामाबाघ व मनोज कुमार सिंह पिता राम कृष्ण सिंह व श्रीमती कविता देवी पति आमोद कुमार सिंह नि० सरैया व मुन्ना सिंह पिता स्क० अक्केश सिंह नि० औरंगाबाद व रघुवंश सिंह पिता स्क० रामजी सिंह नि० औरंगाबाद
				258	निजी	व्यावसायिक	81	प्रजापति पिता स्क० शिवनारायण सिंह नि० रामाबाघ
योग							1758	
			(6) शाहपुर चादर-1 थाना नं० 566	1677	निजी	व्यावसायिक	850	अजीत सिंह पिता हरिशंकर सिंह नि० शाहपुर
				3342	निजी	व्यावसायिक	364	नुरल हसन खॉ पिता अब्दुल रऊफ खॉ नि० औरंगाबाद
				3344	निजी	व्यावसायिक	546	बेचन साव पिता नुरल हसन खॉ पिता अब्दुल रऊफ खॉ नि० औरंगाबाद व अजीत सिंह पिता हरिशंकर सिंह नि० शाहपुर
				3339	निजी	व्यावसायिक	263	सबाउल हसन पिता नुरल हसन खॉ नि० औरंगाबाद व बेचन साव पिता नि०
				1673	निजी	घनहर	283	सत्येन्द्र सिंह पिता न० पोखराही
				1672	निजी	घनहर	486	राम प्रवेश सिंह पिता कर्मदेव सिंह नि० गुरगईयां करमा, औरंगाबाद व अभय चन्द्र शर्मा पिता स्क० रामदेव शर्मा लोदीपुर
				1679	निजी	घनहर	546	अज्ञात
				1686	निजी	घनहर	445	उपेन्द्र सिंह पिता स्क० राम दहिन सिंह व लल्लन सिंह पिता स्क० मेघा सिंह नि० रतनुओं
				1685	निजी	घनहर	146	उपेन्द्र सिंह पिता स्क० राम दहिन सिंह नि० रतनुओं
				1688	निजी	घनहर	728	कौशल किशोर सिंह पिता स्क० अम्बिका प्रसाद सिंह व श्रीमती झलकराज देवी पति कौशल किशोर सिंह नि० सीवन बिगहा, सिरिस
				1706	निजी	जमातीय	65	शिव नन्दन सिंह, राम नन्दन सिंह पिता कुलबश सिंह नि० रतनुओं
				1689	निजी	घनहर	40	आदित्य सिंह पिता नि० शाहपुर
				1707	निजी	व्यावसायिक	356	डबलू बाबू पिता आल्मा बाबू नि० औरंगाबाद
				1708	निजी	जमातीय	356	रोशन मिस्त्री पिता व हरिहर महतो पिता दसई महतो नि० शाहपुर अखड़ा
				1712	निजी	घनहर	146	सुन्दर साव पिता नि० शाहपुर
				1713	निजी	घनहर	874	राजेन्द्र सिंह पिता स्क० बासदेव सिंह व हरिहर सिंह, विन्देश्वरी सिंह पिता राम किशुन सिंह नि० शाहपुर अखड़ा
				1715	निजी	घनहर	324	गया सिंह पिता नि० देवरिया व सूर्यदेव यादव पिता देव चन्द यादव नि० छैरी टोला गोपी बिगहा व श्रीमती राम प्यारी देवी पति अनुभूति नाथ सिंह विभूति नाथ सिंह पिता केदारनाथ सिंह नि० देवरिया कला व श्रीमती राजमनी देवी पति लल्लन प्रसाद नि० शिवपुर डेहरी, जम्होर
				1717	निजी	घनहर	316	अनूप दास पिता बूधन दास नि० शाहपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1718	निजी	धनहर	1294	लखन महतो, रामेश्वर महतो, मिथिलेश महतो पिता जानकी मेहता व श्रीमती सरोज देवी पति अमय कुमार नि० शाहपुर व विजय प्रसाद सिंह पिता कैलाश सिंह नि० इसरीर
				1719	निजी	धनहर	101	प्रवेश महतो पिता बिलाश महतो नि० शाहपुर
				1611	निजी	धनहर	81	प्रवेश महतो पिता बिलाश महतो नि० शाहपुर
				1543	निजी	धनहर	243	सीताराम महतो पिता नि० शाहपुर
				1555	निजी	धनहर	81	सरयू महतो पिता रामजनम महतो व जगदीश महतो पिता दुर्गा महतो नि० शाहपुर
				1585	निजी	धनहर	101	अनुपदास पिता कुधनदास नि० शाहपुर व नरायन यादव पिता नि० करमा बिगहा
				3706	निजी	धनहर	101	अनुपदास पिता कुधनदास नि० शाहपुर
				1554	निजी	धनहर	324	नरायन यादव पिता नि० करमा बिगहा
				1552	निजी	धनहर	253	कामता महतो पिता नन्हक महतो नि० शाहपुर व श्रीमती सतनी देवी पति लक्ष्मन शर्मा नि० चिलियाँव
				3308	निजी	धनहर	566	गोपाल महतो पिता दशई महतो व मोला महतो पिता जितू महतो नि० शाहपुर
				1223	सरकारी	रास्ता	101	गैर मजरुआ आम
				1222	सरकारी	मिण्ड	61	गैर मजरुआ आम
				852	निजी	धनहर	384	रामरेखा सिंह पिता स्व० कामेश्वर सिंह नि० शाहपुर अखड़ा
				3027	निजी	धनहर	194	रामरेखा सिंह पिता स्व० कामेश्वर सिंह नि० शाहपुर अखड़ा
				855	निजी	धनहर	194	प्रवेश महतो पिता बिलाश महतो व ब्रजकिशोर प्रसाद वर्मा पिता स्व० जीतवाहन मेहता नि० शाहपुर
				856	निजी	धनहर	445	मथुरा महतो पिता शिवरतन महतो नि० शाहपुर
				857	निजी	सहन	61	श्रीमती शान्ति देवी पति मेघनाथ सिंह नि० सेंदहों, थाना तरारी, भोजपुर व कुमार लल्लन सिंह पिता स्व० जगदीश सिंह नि० दरार व रेनू देवी पति अक्षय कुमार सिंह नि० ओंती, गया, हाल मो० शाहपुर
				859	निजी	आवासीय	303	विजय पाठक पिता स्व० राज नन्दन पाठक व श्रीमती सुमीता देवी पति अक्वेश सिंह नि. शाहपुर
				971	निजी	धनहर	243	ब्रज किशोर प्रसाद वर्मा पिता स्व० जीत वाहन मेहता नि. शाहपुर
				978	निजी	आवासीय	61	प्रवेश साव, अक्वेश साव, संतोष साव पिता स्व० लखन साव नि० शाहपुर व ईश्वरी ठाकुर पिता राम सेवक ठाकुर नि. खडीहा व नरेश यादव पिता नि० चेतना
				972	निजी	आवासीय	250	फूल कुमारी देवी पति राम सेवक ठाकुर व ईश्वरी ठाकुर पिता राम सेवक ठाकुर नि० खडीहा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				973	निजी	आवासीय	293	सोना देवी पति राम प्रसाद शर्मा व विजय बैठा पिता बनारसी बैठा व राजो देवी पति नकुनी यादव नि० शाहपुर व लल्लन यादव पिता सीताराम यादव नि० कृष्णापुरी वार्ड नं० 27, शाहपुर
				3074	निजी	आवासीय	154	सूर्यपति देवी पति सीताराम यादव नि० कामा बिगहा व लल्लन यादव पिता सीताराम यादव नि० कृष्णापुरी वार्ड नं० 27, शाहपुर
				968	निजी	आवासीय	65	पार्वती देवी पति राम सिंहासन सिंह नि० कामा बिगहा व सुरेश, मिथिलेश पिता नि० शाहपुर
				980	निजी	व्यावसायिक	121	श्रीमती कमला देवी पति बलराम तिवारी नि० सड़कर, सिरिस व श्रीमती राजकली देवी पति भगवती प्रसाद मेहता नि. शाहपुर
				3083	निजी	आवासीय	61	गुप्ता सिंह पिता नि० कामा बिगहा
				3200	निजी	आवासीय	293	चन्द्रावती देवी पति राम चन्द्र पाल नि० कृष्णापुरी वार्ड नं० 27, शाहपुर व गनौरी प्रसाद पिता हेमलाल भगत नि० कटेमा बारुण
				1263/ 1262	निजी	आवासीय	455	महेन्द्र देवी पति राम स्वरूप चौहान व प्रेमा देवी पति अक्वेश चौहान व अनिल प्रसाद, लल्लन प्रसाद, गोपाल प्रसाद, कन्हैया प्रसाद पिता स्व० प्रह्लाद साव व शारदा साव पिता नि० शाहपुर
				1267	निजी	धनहर	170	विन्देश्वरी साव पिता नि० कुण्डा
				1259	निजी	आवासीय	486	श्रीमती राम दुलारी देवी पति सीता राम यादव नि. शाहपुर व सुखवासी देवी पति बाल किशुन विश्वकर्मा नि. यमुना नगर, शाहपुर व सूर्यदेव सिंह पिता स्व० हरी यादव नि. शाहपुर व कन्हैया प्रसाद मेहता पिता स्व० प्रह्लाद साव व राजेन्द्र पाठक, मंगलदेव पाठक पिता व देगा मिस्त्री पिता नि० बिलर
				1258	सरकारी	धनहर	121	गैर मजदूरा मालिक
				1268	सरकारी	रास्ता	81	गैर मजदूरा आम
				1270	निजी	धनहर	243	श्रीमती अंजू देवी पति नरसिंह सिंह नि० खैरा घमनी व मंजर यादव पिता हसन यादव नि० शाहपुर व राम खेलावन सिंह पिता महीप सिंह नि० कामा बिगहा
				1271	निजी	आवासीय	162	रामाशीष मिस्त्री पिता शिव दत्त मिस्त्री नि० यमुना नगर वार्ड नं० 28, शाहपुर
				1558	निजी	धनहर	20	अज्ञात
				3335	निजी	आवासीय	245	श्रीमती मंजू देवी पति सूर्यनाथ सिंह नि० शाहपुर हाल मो० हुरमा व श्रीमती बीना देवी पति स्व० हरेन्द्र सिंह नि० आमी, छपरा व नैन कुमारी देवी पति अरुण कुमार सिंह नि० शाहपुर
				1670	निजी	आवासीय	110	अज्ञात
				1668	निजी	आवासीय	45	श्रीमती अंजू देवी पति नरसिंह सिंह नि० खैरा घमनी
				1669	निजी	धनहर	404	राम सेवक सिंह पिता प्रगन सिंह नि० शाहपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1693	निजी	आवासीय	40	लल्लन सिंह पिता स्व० मेधा सिंह व उपेन्द्र सिंह पिता स्व० राम दहिन सिंह नि० रतनुओं
				1694	निजी	आवासीय	205	लल्लन सिंह पिता स्व० मेधा सिंह व उपेन्द्र सिंह पिता स्व० राम दहिन सिंह व कमला प्रसाद सिंह पिता स्व० मुनेश्वर सिंह नि० रतनुओं
				1695	निजी	आवासीय	65	श्रीमती अंजू देवी पति नरसिंह सिंह नि० खैरा धमनी
				1696	निजी	आवासीय	110	केशो साहू पिता फेकू साहू नि० शाहपुर
				1698	निजी	व्यावसायिक	295	श्रीमती पद्मिनी अग्रवाल पति संजीव कुमार अग्रवाल नि० न्यू एरिया, औरंगाबाद व सुन्दर, मुन्नर पिता व लालपरी देवी पति कमला प्रसाद सिंह व श्रीमती मनी देवी पति रंजीत सिंह नि० रतनुओं
				1700	सरकारी	विन्द	40	गैर मजदूरा आम
				1706	निजी	आवासीय	185	राम नन्दन सिंह पिता स्व० कुलवंश सिंह नि० रतनुओं
			योग				17045	
		चाहर-2		2425	निजी	घनहर	165	कुलदीप सिंह पिता झौड़ी सिंह नि० शाहपुर
				3475	निजी	घनहर	97	अज्ञात
				3426	निजी	घनहर	20	अज्ञात
				2298	निजी	घनहर	70	नेहा कुमारी पिता तपेश्वर यादव नि० परसा टोला, मुर्गी बिगहा मदनपुर
				3456	निजी	घनहर	259	मिखारी महतो पिता दुखी महतो नि० शाहपुर
				2292	निजी	पत्ती	405	घनजी सिंह पिता कामता सिंह नि० क्लब रोड औरंगाबाद
				2293	निजी	पत्ती	223	राम रेखा सिंह पिता स्व० कामेश्वर सिंह नि० शाहपुर
				2294	निजी	घनहर	227	अनिल सिंह, लल्लन सिंह पिता नि० मनिको व विक्रम विशाल, विमूली नारायण सिंह पिता दूधेश्वर सिंह नि० देवी बिगहा
				2485	सरकारी	तस्ता	101	गैर मजदूरा आम
				2481	निजी	बहारदियारी	293	घनश्याम सिंह पिता दूखन सिंह व राजेन्द्र सिंह, जयमंगल सिंह, प्रमोद सिंह पिता कामता सिंह नि० शाहपुर
				2483	निजी	बहारदियारी	182	श्रीमती सुशीला देवी पति ओमकार सिंह नि० विजोई व बंगाली यादव पिता बाल गोविन्द यादव नि० शाहपुर, टोला पिपरडीह
				2486	निजी	आवासीय	182	जय मंगल सिंह पिता कामता सिंह नि० एकौना व श्रीमती सुशीला देवी पति ओमकार सिंह नि० विजोई
				3481	निजी	घनहर	146	कृष्णा सोनार पिता स्व० दुखन सोनार नि० औरंगाबाद
				2488	निजी	घनहर	146	कृष्णा सोनार पिता स्व० दुखन सोनार नि० औरंगाबाद
				2496	निजी	व्यावसायिक	61	श्रीमती ममता देवी पति प्रमोद कुमार नि० शाहपुर
				2495	निजी	आवासीय	131	सुरेश प्रसाद राम पिता जगनारायण शर्मा नि० शाहपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2501	निजी	धनहर	324	सत्येन्द्र सिंह पिता नि० खड़पुर, हरिहर गंज
				2484	निजी	धनहर	194	जानकी महतो पिता अकल महतो नि० शाहपुर
				2513	निजी	धनहर	97	सत्य नारायण सिंह पिता स्व० नधुनी सिंह नि० पकड़ी पिपरा
				2522	निजी	आवासीय	310	अंजनी देवी पति बैजनाथ प्रसाद व लाल बहादुर सिंह पिता गिरीन्द्र प्रसाद सिंह नि० शाहपुर
				2521	निजी	धनहर	200	राम लखन सिंह, अशोक सिंह पिता बासुदेव सिंह नि० शाहपुर
				2525	निजी	आवासीय	65	राम रतन यादव पिता डोमन यादव नि० शाहपुर
				3586	निजी	आवासीय	65	अज्ञात
				2574	निजी	आवासीय	230	श्रीमती अंजु सिंह पति कुमार मानवेन्द्र नि० बंचर, रफीगंज
				2571	निजी	आवासीय	61	श्रीमती बिगनी देवी पति महावीर यादव नि० शाहपुर
				3492	निजी	धनहर	230	अज्ञात
				2570	निजी	आवासीय	232	मथुरा महतो, नधुनी महतो पिता गोविन्द महतो नि० शाहपुर
				2566	निजी	व्यावसायिक	283	जानकी साव पिता फकीरा साव नि० औरंगाबाद व विदुलिया देवी पति बनवारी साव नि० सोनियाद व रविन्द्र प्रसाद गुप्ता, नारायण प्रसाद, जयप्रकाश कुमार पिता जानकी साव व राम नारायण यादव पिता जगू यादव नि० औरंगाबाद
				2564/3494	निजी	आवासीय	404	प्रभा देवी पति शम्भू प्रसाद मेहता व राम नारायण यादव पिता जगू यादव नि० शाहपुर
				2562	निजी	धनहर	40	दिलवसिया कृष्ण पति स्व० नि० शाहपुर
				2556	निजी	व्यावसायिक	121	अज्ञात
				2747	निजी	व्यावसायिक	545	अमय कुमार गुप्ता पिता बनारसी प्रसाद व कौशलेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, राघवेन्द्र प्रताप सिंह पिता स्व० ठाकुर युगल किशोर नारायण सिंह व रामपति यादव पिता व राजमंगल यादव, शिवमंगल यादव पिता व जवाहर लाल गुप्ता पिता व सरजू गुप्ता पिता नि० शाहपुर
				3566	सरकारी	आवासीय	1072	गैर मजरूआ मालिक
				3589	निजी	आवासीय	2595	विजय यादव पिता कैलाश यादव नि० पाण्डेय पुर व कृष्णा यादव पिता हलधर यादव नि० केताकी, टोला खड़क बिगहा
				3591	सरकारी	व्यावसायिक	4289	उद्योग विभाग
				2683	निजी	आवासीय	809	अकधेश यादव उर्फ, रामप्रवेश यादव पिता फकीरा यादव व धर्मदेव यादव, बरनी यादव, राजेन्द्र यादव, लालदेव यादव पिता रामेश्वर यादव नि० शाहपुर
				2731	सरकारी	आवासीय	227	गैर मजरूआ मालिक
				2730	सरकारी	परती	142	गैर मजरूआ आम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2732	निजी	व्यावसायिक	890	रघुबीर प्रसाद गुप्ता पिता स्व० जानकी साव नि० औरंगाबाद व श्रीमती बिन्दुलिया देवी पति बनवारी साव नि० घरनी रोड औरंगाबाद व सीताराम प्रसाद पिता पचकौड़ी साव व श्रीमती बिन्दा देवी पति स्व० किशोरी साव नि० शाहगंज व सुदामा यादव, कृष्णा यादव पिता डोमन यादव नि० शाहपुर व रामचन्द्र यादव पिता स्व० राम किशुन यादव व श्रीमती रजवतिया देवी पति राम चन्द्र यादव नि० एकौना
				2733	सरकारी	व्यावसायिक	1700	गैर मजरूआ मालिक
				2735	सरकारी	आवासीय	890	गैर मजरूआ मालिक
				2736		कारागार	566	मण्डल कारागार, औरंगाबाद
				2738	सरकारी	बहारदियारी	162	
				2739			316	
				2299	निजी	घनहर	20	पम्मी कुमारी पिता तपेश्वर यादव नि० मुर्गी बिगहा, मदनपुर
				2297	निजी	घनहर	40	मथुरा महतो, नथुनी महतो पिता गोविन्द महतो नि० शाहपुर
				3484	निजी	आवासीय	120	श्रीमती अर्चना देवी पति सुबोध सिंह व सुबोध सिंह पिता विजय सिंह नि० उपरदहों टोला उधम बिगहा, देव
				2524	निजी	घनहर	101	राम स्वरूप यादव, रामगति यादव पिता स्व० दुखी यादव नि० पीपरडीह व हलखोरी महतो पिता लाली महतो व कामता महतो पिता नन्हकू महतो नि० शाहपुर
				2722	निजी	घनहर	121	अज्ञात
				2737	सरकारी	कारागार बहारदियारी	445	मण्डल कारागार औरंगाबाद
				2741	निजी	आवासीय	1032	सत्येन्द्र यादव पिता स्व० नथुनी यादव व राम चन्द्र यादव पिता बाल किशुन यादव व दशरथ यादव पिता घूरन यादव नि० पाण्डेपुर व राधेश्याम गुप्ता पिता सेतु राम गुप्ता व श्रीमती मीरा रानी पति राधेश्याम गुप्ता व प्रेमप्रकाश राम पिता राधेश्याम गुप्ता नि० शाहपुर व अयोध्या सिंह पिता कुलदीप यादव नि० अमर बिगहा
				2740	सरकारी	पिण्ड	61	गैर मजरूआ आम
				2524/2520	निजी	घनहर	101	अज्ञात
				3590	निजी	घनहर	20	अज्ञात
योग							21808	
			(7) हसोला	111	सरकारी	घनहर	992	गैर मजरूआ मालिक
				116	सरकारी	पिण्ड	250	गैर मजरूआ आम
योग							1242	
			(8) ओरा थाना नं० 580	1201	सरकारी	आवासीय	769	गैर मजरूआ मालिक
				1202	निजी	घनहर	526	अर्जुन गोसाई पिता व सुधीर सिंह पिता व गिरजा मिस्त्री, कामेश्वर मिस्त्री पिता चमारिक मिस्त्री नि० ओरा
				1205	सरकारी	व्यावसायिक	635	गैर मजरूआ मालिक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1207	निजी	धनहर	1902	मेघन नोनिया पिता स्व० बबन नोनिया व सिरि नोनिया पिता स्व० रामकिशुन नोनिया व अर्जुन नोनिया पिता स्व० फगुनी नोनिया व वीरेन्द्र नोनिया पिता स्व० रामदेव नोनिया व बुद्धन नोनिया पिता स्व० जानकी नोनिया नि० ओरा
				1209	सरकारी	आवासीय गुर्वाफटी	2589	गैर मजरूआ मालिक रमसान स्थल व रास्ता
				1210	निजी	धनहर	829	मुन्ना सिंह पिता स्व० सूर्यदेव सिंह व प्रदीप सिंह पिता स्व० मथुरा सिंह नि० ओरा व पंकज सिंह, राकेश सिंह, राजेश सिंह पिता अजय कुमार सिंह नि० पोईयां व बजरंगी सिंह पिता व नीलम देवी पति बजरंगी नि० औरंगाबाद व राजीव रंजन अग्रवाल, संजीव कुमार अग्रवाल पिता कृष्ण देव लाल नि० नवी नगर
				1212	सरकारी	बहारविहारी	1315	गैर मजरूआ मालिक
				1214	सरकारी	धनहर	121	बकास्त मालिक
				1215	सरकारी	धनहर	566	बकास्त मालिक
				1110	सरकारी	सड़क	1113	गैर मजरूआ आम
				1103	निजी	धनहर	81	चन्द्रिका यादव पिता हरी यादव नि० ओरा
				1537	सरकारी	नाला	1376	गैर मजरूआ आम
				1536	निजी	धनहर	162	बिशेश्वर सिंह पिता सीकन सिंह नि० ओरा
				935	निजी	धनहर	283	प्रह्लाद सिंह पिता स्व० चन्द्रिका सिंह व जयराम सिंह पिता स्व० धर्मदेव सिंह नि० ओरा व अमर मिस्त्री पिता व सुनील सिंह पिता नि० व प्रमा देवी पति लक्ष्मण यादव नि० ओरा
				934	निजी	परती	1376	अज्ञात
				930	सरकारी	नदी	194	गैर मजरूआ आम
				915	निजी	आवासीय	920	बाबूलाल मिस्त्री पिता स्व० दीपचन्द्र मिस्त्री व अमर मिस्त्री पिता सूरज मिस्त्री व अजय मिस्त्री पिता स्व० माहेश्वर मिस्त्री व दसरथ मिस्त्री पिता स्व० शिवरतन मिस्त्री व पिटू मिस्त्री पिता स्व० धनेश्वर मिस्त्री व लालचन्द यादव, दसरथ यादव, दीपचन्द यादव पिता नैपाली यादव व श्रीमती सतोला देवी पति दीपचन्द यादव व प्रवेश मिस्त्री पिता अम्बिका मिस्त्री व मदन मिस्त्री पिता स्व० नथुनी मिस्त्री व छेदी प्रजापति, तेतर प्रजापति, गोदानी प्रजापति पिता भजनी प्रजापति व झगरु प्रजापति पिता स्व० धन्नी प्रजापति व मकरजानी प्रजापति पिता स्वारथ प्रजापति व फूलचन्द प्रजापति, रघुवंश प्रजापति पिता स्व० पदारथ प्रजापति नि० ओरा
				911/ 914	निजी	आवासीय	324	सत्येन्द्र यादव महेन्द्र यादव धर्मेन्द्र यादव पिता स्व० बिराची यादव व बुद्ध यादव पिता स्व० जगेसर यादव व अक्केश प्रजापति, राकेश प्रजापति पिता बीगन प्रजापति नि० ओरा
				909	निजी	धनहर	20	रामचन्द्र प्रजापति पिता स्व० पदारथ प्रजापति नि० ओरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				908	निजी	घनहर	40	जनेश्वर प्रजापति पिता स्व० रामप्रसाद प्रजापति नि० ओरा
				907	निजी	घनहर	81	जनेश्वर प्रजापति पिता स्व० रामप्रसाद प्रजापति नि० ओरा
				903	निजी	आवासीय	1012	झगडू प्रजापति पिता स्व० धन्नी प्रजापति नि० ओरा
				902	निजी	आवासीय	607	झगडू प्रजापति पिता स्व० धन्नी प्रजापति नि० ओरा
				904	निजी	आवासीय	162	केशो प्रजापति पिता स्व० नथुनी प्रजापति व फूलमति यादव पति स्व० जीतवाहन यादव नि० ओरा
				901	निजी	आवासीय	40	रघुवंशी प्रजापति पिता स्व० पदारथ प्रजापति नि० ओरा
				900	निजी	आवासीय	61	रघुवंशी प्रजापति पिता स्व० पदारथ प्रजापति नि० ओरा
				896	निजी	आवासीय	20	छेदी सिंह पिता स्व० चुलहन सिंह नि० ओरा
				895	निजी	आवासीय	73	राम चन्द्र प्रजापति पिता स्व० पदारथ प्रजापति नि० ओरा
				894	निजी	आवासीय	121	फूल चन्द्र प्रजापति पिता स्व० पदारथ प्रजापति नि० ओरा
				892	निजी	आवासीय	142	श्रीमती मुन्नी देवी पति राजकुमार प्रसाद सिंह नि० ओरा
				891	निजी	आवासीय	81	जगरनाथ सिंह, विजय सिंह पिता स्व० रामचन्द्र सिंह नि० ओरा रेनू बिगहा
				883	निजी	आवासीय	223	सूर्यदेव यादव पिता स्व० हुलाश यादव व श्रीमती मुन्नी देवी पति सूर्यदेव यादव व रामप्रसाद यादव पिता स्व० नौजादिक यादव व नन्द किशोर यादव पिता स्व० सहदेव यादव व देव नन्दन यादव पिता स्व० छेदी यादव व जगती कुँवर पति स्व० रामकेश्वर यादव व संतोष कुमार पिता राम प्रवेश यादव नि० ओरा
				882	निजी	आवासीय	132	नरायण पासवान, राम अशीष पासवान पिता स्व० ब्रह्मा पासवान व शंकर प्रसाद गुप्ता पिता स्व० यमुना प्रसाद गुप्ता नि० ओरा
				881	सरकारी	रास्ता	101	गैर मजरूआ आम
				830	निजी	आवासीय	40	शंकर प्रसाद गुप्ता व महेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता स्व० यमुना प्रसाद गुप्ता व रघुनाथ प्रसाद पिता शिवनारायण साव व दिलीप प्रसाद पिता सुखदेव प्रसाद व कलावती कुँवर पति स्व० अशोक प्रसाद गुप्ता नि० ओरा
				829	सरकारी	आवासीय	40	गैर मजरूआ मालिक
				827	सरकारी	आवासीय	51	गैर मजरूआ मालिक
				826	सरकारी	आवासीय	40	गैर मजरूआ मालिक
				825	सरकारी	आवासीय	10	गैर मजरूआ मालिक
				824	सरकारी	रास्ता	121	गैर मजरूआ आम (लक्ष्मीकला परिषद, शिव मन्दिर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				823	निजी	आवासीय	324	कपिल पासवान, रामस्वरूप पासवान, जगदम्बा पासवान, श्रीबोध पासवान पिता स्व० दुरहा पासवान व लखन पासवान पिता स्व० बिछी पासवान नि० ओरा
				820	निजी	आवासीय	10	बुद्ध यादव पिता स्व० जगेश्वर यादव व नरसिंह यादव पिता स्व० मुसाहिब यादव नि० ओरा
				819	सरकारी	घनहर	162	गैर मजरूआ आम
				795	निजी	आवासीय	223	जगलाल चौधरी पिता स्व० गोपीचन्द चौधरी व बासदेव चौधरी, सोहन चौधरी पिता स्व० फगुनी चौधरी व बृजमोहन चौधरी पिता स्व० किसन चौधरी व मंजू कुँवर पति स्व० सुरेन्द्र चौधरी व भोला चौधरी पिता स्व० छेदी चौधरी व गोपाल चौधरी, रामप्रसाद चौधरी, रामप्रवेश चौधरी पिता स्व० श्यामलाल चौधरी नि० ओरा
				752	निजी	आवासीय	20	रामप्रवेश चौधरी पिता स्व० श्याम लाल चौधरी नि० ओरा
				751	निजी	आवासीय	10	जनेश्वर यादव पिता स्व० जगेश्वर यादव व अनिल यादव पिता दरोगा यादव नि० ओरा
				750	निजी	आवासीय	20	जनेश्वर यादव पिता स्व० जगेश्वर यादव व अनिल यादव पिता दरोगा यादव नि० ओरा
				746	सरकारी	आवासीय	405	गैर मजरूआ मालिक
				1471	निजी	आवासीय	121	श्रीमती लालमुनी देवी पति सीरी महतो नि० ओरा
				1470	निजी	आवासीय	1012	जगदीश प्रजापति पिता व रामपूजन बैठा पिता स्व० सीता राम बैठा व रामेश्वर यादव पिता स्व० जयपाल यादव व जुदागिर यादव पिता स्व० कवलेश्वर यादव व देवनन्दन यादव पिता रघुनी यादव व नरायन यादव पिता केशो यादव व दुर्गावती देवी पति किशोरी साव व पवन कुमार पिता रामपूजन रजक नि० ओरा
				1469	सरकारी	नदी	202	गैर मजरूआ आम
				347	सरकारी	पईन	570	गैर मजरूआ आम
				741	सरकारी	पत्ती कदीम	81	गैर मजरूआ आम
				740	निजी	आवासीय	162	चन्द्र देव महतो, बैजनाथ महतो पिता स्व० शिबरन महतो व जयराम महतो पिता सूरज महतो व प्रभू महतो पिता स्व० भरत महतो व फुलनिया देवी पति कामता महतो व मालती कुँवर पति स्व० कमलेश महतो नि० ओरा
				731	सरकारी	घनहर	607	गैर मजरूआ मालिक
				730	निजी	घनहर	324	राजेन्द्र यादव, विशेश्वर यादव, दूधेश्वर यादव पिता स्व० बेचन यादव नि० ओरा
				729	निजी	घनहर	202	जनेश्वर यादव पिता स्व० जगेश्वर यादव व अनिल यादव पिता स्व० दरोगा यादव व उदेश्वर यादव पिता गणेशी यादव नि० ओरा
				726	निजी	घनहर	410	रामलखन यादव राम सकल यादव पिता स्व० महादेव यादव नि० ओरा
				721	सरकारी	नदी	130	गैर मजरूआ आम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1456	निजी	घनहर	1295	अर्जुन चौहान पिता फगुनी चौहान व वीरेन्द्र नोनिया पिता रामदेव नि० ओरा
				1457	निजी	घनहर	445	मेघनाथ नोनिया पिता स्व० बबन नोनिया व सीरी नोनिया पिता स्व० रामकिशुन नोनिया व अर्जुन चौहान पिता फगुनी चौहान व वीरेन्द्र नोनिया पिता रामदेव नि० ओरा
				1458	सरकारी	घनहर	324	अनाबाद बिहार सरकार
				1459	निजी	घनहर	1300	बौद्ध पासवान, सुदामा पासवान, रामस्वरूप पासवान, जगदम्बा पासवान, ललित पासवान, कपिल पासवान पिता हुरहा पासवान व श्रीपाल पासवान, लखन पासवान, बैजनाथ पासवान, करमू पासवान, पिता बिछी पासवान नि० ओरा
				1460	निजी	घनहर	324	जगलाल चौधरी पिता गोपीचन्द्र चौधरी व नगीना देवी पति स्व० सत्येन्द्र चौधरी व वासुदेव चौधरी पिता स्व० फगुनी चौधरी व छेदी चौधरी, बृजमोहन चौधरी पिता किशुन चौधरी नि० ओरा
				1461	निजी	घनहर	361	रामेश्वर यादव पिता स्व० जैपाल यादव व नारायण यादव पिता केशो यादव व जुदागिर यादव पिता कौलेश्वर यादव नि० ओरा
				1462	निजी	घनहर	486	रामकृष्ण यादव पिता स्व० छेदी यादव नि० ओरा
				1509	सरकारी	नदी	101	गैर मजरूआ आम
				1485	निजी	घनहर	101	नरेश लाल पिता स्व० देव कुमार लाल नि० ओरा
				1483	निजी	घनहर	101	श्रीमती विशुनी देवी पति जगलाल चौधरी नि० ओरा
				1482	निजी	घनहर	101	सूर्य देव महतो पिता स्व० भरत महतो नि० ओरा
				1481	निजी	घनहर	101	शिवपूजन ठाकुर पिता स्व० गोवर्धन ठाकुर व सहदेव महतो पिता स्व० लेखा महतां व पशुपति महतो पिता स्व० फगुनी महतो नि० ओरा
				1480	निजी	घनहर	81	रामगति महतो पिता स्व० बालकेशर महतो नि० ओरा
				1476	निजी	घनहर	110	जगदीश महतो पिता जगपत महतो नि० ओरा
				1475	निजी	घनहर	270	विश्वजीत सिंह पिता महेश सिंह व रामप्रसाद यादव पिता स्व० नौजादिक यादव व रामकृष्ण यादव, देवनन्दन यादव पिता स्व० छेदी यादव व शिवनन्दन यादव पिता घनेश्वर यादव व भीखनी कुँवर पति स्व० मोसाहेब यादव नि० ओरा
				1474	निजी	घनहर	125	श्रीमती मोतीराज देवी पति सूर्यदेव सिंह नि० ओरा
				1473	निजी	घनहर	124	श्रीमती मोतीराज देवी पति सूर्यदेव सिंह नि० ओरा
योग							29044	
			(9) कनवेहरी थाना नं० 865	185	निजी	घनहर	566	राम सरूप शर्मा व शत्रुघन शर्मा व भरत शर्मा पिता स्व० जे. पी. मिस्त्री व सुमेश्वर शर्मा, लालजी शर्मा, बलिनंदर शर्मा दुधेश्वर शर्मा पिता स्व० भरत मिस्त्री व छद्म मिस्त्री पिता जगत मिस्त्री व कृष्णा शर्मा, अर्जुन शर्मा पिता स्व० मोती मिस्त्री, नि० कनवेहरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				186	मिर्जा	कानहार	162	राम सख्य शर्मा व शत्रुघ्न शर्मा व भरत शर्मा पिता स्ख जे. पी. मिस्त्री व सुमेश्वर शर्मा, लालजी शर्मा, बलिनन्द शर्मा दूधेश्वर शर्मा पिता स्ख बरत मिस्त्री व छत्रू मिस्त्री पिता जगत मिस्त्री व कृष्णा शर्मा, अर्जुन शर्मा पिता स्ख मोती मिस्त्री, निओ कानवेहरी
				187	मिर्जा	कानहार	324	राम सख्य शर्मा व शत्रुघ्न शर्मा व भरत शर्मा पिता स्ख जे. पी. मिस्त्री व सुमेश्वर शर्मा, लालजी शर्मा, बलिनन्द शर्मा दूधेश्वर शर्मा पिता स्ख बरत मिस्त्री व छत्रू मिस्त्री पिता जगत मिस्त्री व कृष्णा शर्मा, अर्जुन शर्मा पिता स्ख मोती मिस्त्री, निओ कानवेहरी
				188	मिर्जा	कानहार	334	केदार मिस्त्री पिता स्ख भगवान मिस्त्री व राम सख्य शर्मा पिता स्ख जे. पी. मिस्त्री व सुमेश्वर शर्मा पिता गनीसी मिस्त्री व राम प्रदेश शर्मा पिता स्ख विद्युनन्द शर्मा निओ कानवेहरी
				189	मिर्जा	श्रीर	647	नारायण शर्मा, भगवान शर्मा पिता स्ख कापेश्वर शर्मा व राम सख्य शर्मा पिता स्ख जे. पी. शर्मा व लिलेन्द्र शर्मा पिता बनारसी शर्मा व राम प्रदेश शर्मा, रामनाथ शर्मा पिता स्ख विद्युनन्द शर्मा निओ कानवेहरी
				195	मिर्जा	कानहार	324	केदार सिंह पिता स्ख रामदेव सिंह निओ कानवेहरी
				194	मिर्जा	कानहार	223	केदार सिंह पिता स्ख रामदेव सिंह निओ कानवेहरी
				193	मिर्जा	कानहार	490	नारादेव सिंह पिता स्ख कृत् सिंह निओ कानवेहरी
				199	मिर्जा	कानहार	607	सुखित सिंह पिता स्ख विन्देश्वरी सिंह निओ कानवेहरी
				200	मिर्जा	कानहार	597	अरुण सिंह पिता राम लखन सिंह व प्रमोद सिंह पिता अमर सिंह निओ कानवेहरी
				201	मिर्जा	कानहार	3944	अरुण सिंह पिता राम लखन सिंह व प्रमोद सिंह पिता अमर सिंह निओ कानवेहरी
				202	मिर्जा	कानहार	344	अनुग्रह नारायण सिंह पिता हरिहर सिंह व कर्पिलदेव सिंह पिता रामगति सिंह निओ कानवेहरी
				203	मिर्जा	कानहार	283	श्रीकृष्ण अहिराज देवी पति रमेश सिंह निओ कानवेहरी
				204	मिर्जा	कानहार	344	रमेश सिंह पिता कुलदीप सिंह निओ कानवेहरी
				209	मिर्जा	कानहार	405	पद्म सिंह, रविन्द्र सिंह पिता राजेश्वर सिंह व सुब्रित सिंह, विन्देश्वरी सिंह पिता स्ख ब्रह्मराज सिंह निओ कानवेहरी
				210	मिर्जा	कानहार	566	अरुण सिंह पिता स्ख राम लखन सिंह निओ कानवेहरी
				208	मिर्जा	कानहार	324	अक्येश सिंह पिता स्ख अमर सिंह निओ कानवेहरी
				300	मिर्जा	कानहार	202	योगेन्द्र सिंह पिता स्ख गिरजा सिंह निओ कानवेहरी
				207	मिर्जा	कानहार	243	कृष्ण सिंह पिता निओ कानवेहरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				301	निजी	धनहर	81	राम सरूप शर्मा व शत्रुघ्न शर्मा व भरत शर्मा पिता स्‍व० जे. पी. मिस्‍त्री व सुमेश्‍वर शर्मा, लालजी शर्मा, बलिन्‍दर शर्मा दूधेश्‍वर शर्मा पिता स्‍व० बरत मिस्‍त्री व छटू मिस्‍त्री पिता जगत मिस्‍त्री व कृष्‍ण शर्मा, अर्जुन शर्मा पिता स्‍व० मोती मिस्‍त्री, नि० कनवेहरी
				302	निजी	धनहर	91	राम सरूप शर्मा व शत्रुघ्न शर्मा व भरत शर्मा पिता स्‍व० जे. पी. मिस्‍त्री व सुमेश्‍वर शर्मा, लालजी शर्मा, बलिन्‍दर शर्मा दूधेश्‍वर शर्मा पिता स्‍व० बरत मिस्‍त्री व छटू मिस्‍त्री पिता जगत मिस्‍त्री व कृष्‍ण शर्मा, अर्जुन शर्मा पिता स्‍व० मोती मिस्‍त्री, नि० कनवेहरी
				303	निजी	धनहर	142	तेतर सिंह पिता स्‍व० देव प्रकाश सिंह व चन्‍द्रशेखर सिंह, विजय सिंह पिता मुन्‍द्रिका सिंह नि० कनवेहरी
				304	निजी	धनहर	364	अरुण सिंह व प्रभात सिंह, गीरु सिंह पिता स्‍व० रामलखन सिंह नि० कनवेहरी
				306	निजी	धनहर	162	ब्रह्मराज सिंह पिता स्‍व० कुलदीप सिंह नि० कनवेहरी
				307	निजी	धनहर	121	दीपक नारायण सिंह पिता रमेश सिंह नि० कनवेहरी
				308	निजी	धनहर	97	अरुण सिंह पिता स्‍व० रामलखन सिंह नि० कनवेहरी
				311	निजी	धनहर	75	तेतर सिंह पिता स्‍व० देव प्रकाश सिंह नि० कनवेहरी
				312	निजी	धनहर	202	अशोक सिंह, अनिल सिंह, सुनील सिंह पिता स्‍व० रामचन्‍द्र सिंह नि० कनवेहरी
				313	निजी	धनहर	162	मुकेश कुमार सिंह पिता स्‍व० मुगेश्‍वर सिंह नि० कनवेहरी
				318	भारत सरकार	धनहर	61	केशरे हिंद
				319	भारत सरकार	धनहर	334	केशरे हिंद
				320	भारत सरकार	धनहर	486	केशरे हिंद
				317	सरकारी	बॉय	971	गीर मजरुआ आम
				322	सरकारी	तालाब	1294	गीर मजरुआ आम
				321	भारत सरकार	धनहर	728	केशरे हिंद
				625	भारत सरकार	धनहर	566	केशरे हिंद
				628	निजी	धनहर	405	अशोक सिंह, अनिल सिंह, सुनील सिंह पिता स्‍व० रामचन्‍द्र सिंह नि० कनवेहरी
				623	निजी	धनहर	526	अशोक सिंह, अनिल सिंह, सुनील सिंह पिता स्‍व० रामचन्‍द्र सिंह नि० कनवेहरी
				626	निजी	धनहर	162	अशोक सिंह, अनिल सिंह, सुनील सिंह पिता स्‍व० रामचन्‍द्र सिंह नि० कनवेहरी
				629	भारत सरकार	धनहर	40	केशरे हिंद
				630	निजी	धनहर	175	उदय सिंह व राजकुमार सिंह पिता स्‍व० नरसिंह सिंह व धिरेन्‍द्र सिंह पिता स्‍व० हरिद्वार सिंह नि० कनवेहरी
				631	भारत सरकार	धनहर	81	केशरे हिंद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				632	भारत सरकार	धनहर	81	केशरे हिंद
				633	निजी	धनहर	314	राजकुमार सिंह व उदय सिंह पिता स्व० नरसिंह सिंह नि० कनवेहरी
				635	भारत सरकार	धनहर	162	केशरे हिंद
				640	निजी	धनहर	101	अशोक सिंह, अनिल सिंह, सुनील सिंह पिता स्व० रामचन्द्र सिंह नि० कनवेहरी
				639	निजी	धनहर	344	अशोक सिंह, अनिल सिंह, सुनील सिंह पिता स्व० रामचन्द्र सिंह नि० कनवेहरी
				642	सरकारी	रामछा	70	गैर मजदूरा आम
				651	निजी	धनहर	243	रविन्द्र सिंह, सरोज सिंह पिता स्व० राजेश्वर सिंह नि० कनवेहरी
				652	निजी	धनहर	81	विजय सिंह, अजय सिंह पिता स्व० रामनारायण सिंह नि० भड़िया
				654	निजी	धनहर	243	कपिल देव सिंह पिता स्व० रामगति सिंह नि० कनवेहरी
				800	सरकारी	परती	486	गैर मजदूरा मालिक
				801	सरकारी	धनहर	283	गैर मजदूरा आम
				802	भारत सरकार	धनहर	40	केशरे हिंद
				803	भारत सरकार	परती	81	केशरे हिंद
				1258	निजी	परती	1942	शिशिर सिंह पिता नि० कामाख्या बिगहा
				1257	निजी	परती	293	कन्हैया लाल जैन पिता बालचन्द्र लाल जैन नि० औरंगाबाद
				1256	निजी	धनहर	283	प्रमोद सिंह पिता स्व० अमर सिंह नि० कनवेहरी
				1255	निजी	परती	101	नरेश सिंह पिता स्व० रामधनी सिंह नि० कनवेहरी
				1254	निजी	धनहर	405	प्रमोद सिंह पिता स्व० अमर सिंह नि० कनवेहरी
				1253	निजी	परती	162	प्रभात सिंह, वीरेन्द्र सिंह अरुण सिंह पिता स्व० रामलखन सिंह नि० कनवेहरी
				1251	सरकारी	परती	1537	गैर मजदूरा मालिक
				1146	भारत सरकार	धनहर	283	केशरे हिंद
				1144	निजी	धनहर	81	अमरेश सिंह पिता स्व० अमर सिंह नि० कनवेहरी
				1147	भारत सरकार	धनहर	162	केशरे हिंद
				1138	भारत सरकार	धनहर	223	केशरे हिंद
				1189	निजी	धनहर	243	योगेन्द्र सिंह पिता स्व० गिरजा सिंह नि० कनवेहरी
				1127	निजी	धनहर	162	श्रीमती शिवरानी देवी पति कुलदीप सिंह नि० कनवेहरी
				1128	भारत सरकार	धनहर	1052	केशरे हिंद
				1126	निजी	धनहर	97	रामजी सिंह पिता स्व० कुलदीप सिंह नि० कनवेहरी
				1086	भारत सरकार	धनहर	314	केशरे हिंद
				1085	भारत सरकार	धनहर	1012	केशरे हिंद
				1077	भारत सरकार	धनहर	243	केशरे हिंद
				1076	भारत सरकार	धनहर	526	केशरे हिंद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1064	निजी	धनहर	243	चन्द्रशेखर सिंह, विजय सिंह पिता स्व० मुन्द्रिका सिंह व तेतर सिंह पिता स्व० देव प्रकाश सिंह नि० कनवेहरी
				1075	निजी	सहन	121	सीता राम शर्मा व विजय शर्मा पिता स्व० लखन मिस्त्री नि० कनवेहरी
				1079	निजी	अवासीय	61	घनंजय शर्मा, रणजीत शर्मा, रणधीर शर्मा पिता बिरजा मिस्त्री व तेतर सिंह पिता स्व० परगास सिंह नि० कनवेहरी
				1080	निजी	अवासीय	10	जयराम शर्मा, महेन्द्र शर्मा, नन्द किशोर शर्मा, जनेश्वर शर्मा पिता स्व० त्रिभुवन शर्मा नि० कनवेहरी
				1061	कर्म जनकर	धनहर	162	केशरे हिंद
				184	सरकारी	बोंध	364	गैर मजरूआ आम
				196	निजी	धनहर	81	योगेन्द्र सिंह पिता स्व० गिरजा सिंह नि० कनवेहरी
				653	सरकारी	पत्ती	81	गैर मजरूआ मालिक
				887	निजी	धनहर	61	विजय सिंह, अजय सिंह पिता रामनारायण.सिंह नि० भेड़िया
				1083	निजी	धनहर	81	राम सरूप शर्मा पिता स्व० जे. पी. मिस्त्री व छटू मिस्त्री पिता स्व० जगत मिस्त्री व महेन्द्र सिंह व राजेन्द्र सिंह व अनुग्रह सिंह पिता स्व० हरिहर सिंह व बैजनाथ सिंह, शम्भू सिंह पिता स्व० चरित्तर सिंह व इन्दू देवी पति स्व० अजीत सिंह नि० कनवेहरी
				1093	निजी	धनहर	40	पोदीना पासवान पिता महिपत पासवान व धूमधनी पासवान पिता स्व० कयलेश्वर पासवान व राजकिशोर पासवान पिता कारू पासवान व अकध पासवान व जयप्रकाश पासवान पिता स्व० बाबूराम पासवान नि० कनवेहरी
योग							31220	
			(10) भेड़िया धाना नं० 864	29	सरकारी	छवर	73	गैर मजरूआ आम
				288	सरकारी	छवर	283	गैर मजरूआ आम
				287	निजी	धनहर	283	तपस्या नारायण सिंह पिता ब्रह्मराज सिंह व हरिद्वार सिंह पिता विशुनपत सिंह नि० भेड़िया
				286	निजी	धनहर	263	केदार सिंह व रामजनम सिंह पिता मथुरा सिंह नि० भेड़िया
				30	सरकारी	बोंध	223	गैर मजरूआ आम
				285	निजी	धनहर	121	सतीष कुमार सिंह पिता घनंजय सिंह नि० भेड़िया
				284	निजी	धनहर	146	अम्बिका प्रसाद सिंह पिता स्व० रामकृष्ण सिंह नि० भेड़िया
				282	निजी	धनहर	121	शान्ति देवी पति शम्भू चौहान व गौरी देवी पति अर्जुन चौहान नि० भेड़िया
				281	निजी	धनहर	45	बिनोद सिंह, अशोक कुमार सिंह पिता मोहन सिंह नि० भेड़िया
				280	निजी	धनहर	131	रघुबश सिंह पिता रामकृष्ण सिंह नि० भेड़िया
				283	निजी	धनहर	607	बिनोद सिंह पिता मोहन सिंह व राम जनम सिंह पिता मथुरा सिंह व मानवती कुंवर पति स्व० छेदी सिंह नि० भेड़िया

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				279	मिर्जा	कानपुर	61	विनोद सिंह पिता मोहन सिंह व राम जन्म सिंह पिता मधुरा सिंह व मानवती कुँवर प्रति रसो छेदी सिंह निो भेड़िया
				278	मिर्जा	कानपुर	405	नारोन्ड कुमार पिता हर्ष नारायण सिंह निो मजुरखा व भीमसेन सिंह, अर्जुन सिंह पिता मिथिलेश सिंह व देजनाथ सिंह पिता इन्द्र देव सिंह निो भेड़िया
				277	मिर्जा	कानपुर	20	रामकुन्दर सिंह पिता सरजू सिंह निो भेड़िया
				276	मिर्जा	कानपुर	61	भीमसेन सिंह, अर्जुन सिंह पिता मिथिलेश सिंह निो भेड़िया
				270	मिर्जा	कानपुर	81	भीमसेन सिंह, अर्जुन सिंह पिता मिथिलेश सिंह निो भेड़िया व नारोन्ड कुमार सिंह पिता हर्ष नारायण सिंह निो मजुरखा
				269	मिर्जा	कानपुर	181	नारोन्ड कुमार सिंह पिता हर्ष नारायण सिंह निो मजुरखा
				265	मिर्जा	कानपुर	162	नारोन्ड सिंह पिता बन्धुदेव सिंह निो भेड़िया
				264	मिर्जा	कानपुर	162	गुलेश्वर सिंह पिता रामानन्द सिंह निो भेड़िया
				263	मिर्जा	कानपुर	198	राजेश्वर सिंह पिता सालिक सिंह निो भेड़िया
				262	मिर्जा	कानपुर	61	राजेश्वर सिंह पिता सालिक सिंह निो भेड़िया
				280	मिर्जा	कानपुर	101	महेन्द्र सिंह पिता दारिका सिंह व सतगुरु, अजय सिंह पिता रामराज सिंह निो भेड़िया
				255	साकाशी	पत्नी करीम	81	गैर मजरखा मालिक
				256	मिर्जा	कानपुर	212	इन्द्रदेव सिंह पिता राम अवतार सिंह निो भेड़िया
				258	साकाशी	तल्ला	162	गैर मजरखा आम
				231	मिर्जा	कानपुर	81	सुरेन्द्र सिंह व शैलेन्द्र सिंह पिता अलखदेव सिंह निो भेड़िया
				230	मिर्जा	कानपुर	202	राधुबश सिंह पिता रामकुल सिंह निो भेड़िया
				229	मिर्जा	कानपुर	89	जगदीश सिंह पिता राधुमन्दन सिंह निो भेड़िया
				226	मिर्जा/साकाशी	कानपुर	142	विरेन्द्र सिंह पिता निो पीना डेहरी नया नहर, सिचाई विभाग)
				980	मिर्जा/साकाशी	कानपुर	566	महेन्द्र सिंह, सत्येन्द्र सिंह पिता दारिका सिंह व सतगुरु, अजय सिंह पिता रामराज सिंह निो भेड़िया नया नहर, सिचाई विभाग)
				223	मिर्जा	कानपुर	324	विलेन्द्र सिंह, कीरेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह, रणवीर सिंह पिता कृष्णा सिंह व विनोद सिंह पिता मोहन सिंह निो भेड़िया
				213	साकाशी	कानपुर	1457	गैर मजरखा मालिक
				205	मिर्जा	कानपुर	105	दारिका यादव पिता बरितार यादव व अशोक यादव, अखिलेश यादव, कमलेश यादव, निलेश यादव पिता मुन्द्रिका यादव निो भेड़िया टोला
				204	मिर्जा	कानपुर	172	राम प्रवेश यादव पिता जितू यादव व दारिका यादव पिता बरितार यादव व अशोक यादव, अखिलेश यादव, कमलेश यादव, निलेश यादव पिता मुन्द्रिका यादव निो भेड़िया टोला
				682	साकाशी	तल्ला	81	गैर मजरखा आम
				299	साकाशी	तल्ला	81	गैर मजरखा आम (रमसान खाल)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				300	निजी	धनहर	121	सतीष कुमार सिंह पिता धनन्जय सिंह नि० भेड़िया
				243	निजी	धनहर	475	राम चन्द्र सिंह, बंशराज सिंह पिता राम औतार सिंह नि० भेड़िया
				345	भारत सरकार	धनहर	631	केशरे हिंद
				346	भारत सरकार	धनहर	131	केशरे हिंद
				347	भारत सरकार	धनहर	486	केशरे हिंद
				348	निजी	धनहर	81	गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह पिता रामानन्द सिंह नि० भेड़िया
				366	भारत सरकार	धनहर	223	केशरे हिंद
				365	भारत सरकार	धनहर	101	केशरे हिंद
				360	निजी	धनहर	324	भरत सिंह पिता साधूशरण सिंह नि० भेड़िया
				363	भारत सरकार	धनहर	202	केशरे हिंद
				369	भारत सरकार	मीट	283	केशरे हिंद
				370	भारत सरकार	पल्ली	283	केशरे हिंद
				371	भारत सरकार	धनहर	405	केशरे हिंद
				372	निजी	धनहर	130	राम कुमार सिंह पिता राम कृष्ण सिंह नि० भेड़िया
				373	निजी	धनहर	971	इन्द्रदेव सिंह पिता राम अवतार सिंह नि० भेड़िया
				374	निजी	धनहर	121	भीमसेन सिंह पिता मिथिलेश सिंह नि० भेड़िया
				444	भारत सरकार	पल्ली कदीम	486	केशरे हिंद
				445	भारत सरकार	पल्ली कदीम	162	केशरे हिंद
				438	निजी	धनहर	132	राम बरन सिंह, भीम बरन सिंह पिता दशरथ सिंह नि० भेड़िया
				446	भारत सरकार	धनहर	253	केशरे हिंद
				443	निजी	धनहर	243	राम कुमार सिंह पिता रामकृष्ण सिंह नि० भेड़िया
				439	निजी	धनहर	202	तारकेश्वर सिंह, बिन्देश सिंह पिता देवनन्दन सिंह नि० भेड़िया
				447	भारत सरकार	धनहर	647	केशरे हिंद
				448	भारत सरकार	धनहर	263	केशरे हिंद
				449	निजी	धनहर	140	महेन्द्र सिंह पिता द्वारिका सिंह व जनार्दन सिंह पिता नान्हक सिंह नि० भेड़िया
				453	निजी	धनहर	364	अशोक कुमार सिंह पिता बशिष्ठ नारायण सिंह व हरिहर यादव, इन्द्रदेव यादव, सतीष यादव पिता रमेश यादव नि० मजूरखा
				454	भारत सरकार	पल्ली	344	केशरे हिंद
				455	भारत सरकार	धनहर	324	केशरे हिंद
				458	निजी	धनहर	283	सुनील सिंह, संतोष सिंह पिता देवनारायण सिंह व संजय सिंह, विजय सिंह पिता अनुग्रह नारायण सिंह नि० भेड़िया
				456	भारत सरकार	धनहर	526	केशरे हिंद

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				457	निजी	धनहर	405	शान्ति सिंह पति लोचन्द सिंह व लालपरी देवी पति रविन्द्र सिंह व नगोचन्द कुमार सिंह पिता हर्ष नारायण सिंह नि० मजूरखा
				489	नारायण नारायण	धनहर	485	केशरें हिंद
				488	निजी	धनहर	374	जगरानी देवी पिता स्व० रामदेवी पति मुखदेव यादव नि० भेड़िया
				490	नारायण नारायण	धनहर	194	केशरें हिंद
				491	नारायण नारायण	धनहर	394	केशरें हिंद
				492	नारायण नारायण	धनहर	384	केशरें हिंद
				493	नारायण नारायण	धनहर	293	केशरें हिंद
				494	नारायण नारायण	धनहर	223	केशरें हिंद
				498	नारायण नारायण	धनहर	566	केशरें हिंद
				499	नारायण नारायण	धनहर	340	केशरें हिंद
				962	निजी	धनहर	61	जगरानी देवी पति मुखदेव यादव नि० भेड़िया
				495	निजी	धनहर	101	मुंगेश्वरी देवी पति इन्देव यादव नि० भेड़िया
				484	निजी	धनहर	101	रामस्वरूप यादव, सरीखन यादव पिता कन्ददेव यादव नि० भेड़िया टोला
				487	निजी	धनहर	101	राम प्रवेश यादव पिता जितू यादव नि० भेड़िया टोला
				497	निजी	धनहर	81	राम प्रवेश यादव पिता जितू यादव नि० भेड़िया टोला व रामपरीखन यादव पिता यदुनन्दन यादव नि० कुरथा, देव
				969	सरकारी	रस्ता	40	गैर मजूरआ आम
				297	नारायण नारायण	धनहर	850	केशरें हिंद
				233	सरकारी	बांध	40	गैर मजूरआ आम
				442	निजी	धनहर	61	रघुवंश सिंह पिता रामकृ० सिंह नि० भेड़िया
				437	निजी/सरकारी	धनहर	121	नगोचन्द कुमार सिंह पिता हर्ष नारायण सिंह नि० मजूरखा
								नया नहर, सिबाई विभाग)
योग							22056	
			(11)	1335	सरकारी	नया	486	गैर मजूरआ आम
			कहरा थाना नं० 886	610	सरकारी	धनहर	1295	गैर मजूरआ मालिक
				609	निजी	धनहर	81	नन्दकू सिंह पिता ईश्वर सिंह नि० कहरा
				608	सरकारी	गढ़वा	142	गैर मजूरआ आम
				607	निजी	धनहर	688	गुप्ता सिंह, राजेन्द्र सिंह, पिता मनेजर सिंह, व कमता सिंह, भरत सिंह, रविन्द्र सिंह पिता विन्देश्वरी सिंह नि० कहरा
				606	निजी	अमरासीय	1788	दिनेश राम पिता शिव शरण राम व रामाशीष राम पिता महगू राम व फूलचन्द राम पिता परमेश्वर राम व सुगा देवी पति जगमोहन राम व दीना राम पिता देवराम नि० कहरा व बलिराम शर्मा पिता धनेश्वर शर्मा नि० पियरा
				602	सरकारी	अमरासीय	324	गैर मजूरआ मालिक
				603	सरकारी	अमरासीय	121	गैर मजूरआ मालिक
				605	सरकारी	धनहर	61	गैर मजूरआ मालिक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				604	निजी	धनहर	2381	नरेश सिंह पिता शिवरक्षा सिंह व राजेन्द्र सिंह पिता मनेजर सिंह नि० करहरा
				632	निजी	धनहर	728	नरेश सिंह पिता शिवरक्षा सिंह व राजेन्द्र सिंह पिता मनेजर सिंह नि० करहरा
				633	निजी	धनहर	1052	सोनामती देवी पति उग्रह सिंह व सतेन्द्र सिंह पिता राम दहिन सिंह व अक्केश सिंह, भगवान सिंह पिता शंकर दयाल सिंह व संजय सिंह, बरसंत सिंह, अखिलेश सिंह पिता कामेश्वर सिंह व भगल सिंह, शिव कुमार सिंह, बीरन सिंह पिता तपेश्वर सिंह व श्रीकांत सिंह पिता कामाख्या सिंह नि० करहरा
				635	सरकारी	धनहर	1861	गैर मजरूआ मालिक
				638	निजी	धनहर	647	सोनामती देवी पति उग्रह सिंह व सरस्वती देवी पति जय नन्दन सिंह व महेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, सत्येन्द्र सिंह पिता राम दहिन सिंह नि० करहरा
				639	सरकारी	धनहर	3641	गैर मजरूआ मालिक
				643	सरकारी	पिण्ड	293	गैर मजरूआ आम
				644	सरकारी	धनहर	4380	गैर मजरूआ मालिक
				642	निजी	धनहर	728	सोनामती देवी पति उग्रह सिंह व सरस्वती देवी पति जय नन्दन सिंह व महेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, सत्येन्द्र सिंह पिता राम दहिन सिंह व भोला सिंह, मथुरा सिंह पिता रामदत्त सिंह नि० करहरा
				649	निजी	धनहर	486	रविन्द्र सिंह, मनीष कुमार, रमेश सिंह, पप्पू सिंह, विन्देश्वरी सिंह, रामराज सिंह पिता कुलदीप सिंह नि० कनबेहरी
				648	सरकारी	परती कदीम	202	गैर मजरूआ आम
				647	सरकारी	नाला	40	गैर मजरूआ आम
				646	सरकारी	धनहर	202	गैर मजरूआ आम
				651	निजी	भीट	81	भोला सिंह, मथुरा सिंह पिता रामदत्त सिंह नि० करहरा
				652	निजी	भीट	526	मदन यादव, कृष्णा यादव, राजाराम यादव, रामजनम यादव पिता जगदेव यादव व जगदेव यादव पिता स्व० रघुबर यादव नि० करहरा
				654	निजी	भीट	566	कृष्णा सिंह पिता देवरक्षा सिंह व मोहन यादव पिता हरी यादव नि० करहरा
				656	निजी	परती कदीम	647	मोहन यादव पिता हरी यादव नि० करहरा
				645	सरकारी	परती कदीम	7283	गैर मजरूआ मालिक
				658	निजी	परती	61	राम लखन यादव पिता मुनारिक यादव व जगदेव यादव पिता स्व० रघुबर यादव व भोला सिंह, मथुरा सिंह पिता रामदत्त सिंह नि० करहरा
				683	निजी	परती	65	सोनामती देवी पति उग्रह सिंह व सरस्वती देवी पति जय नन्दन सिंह व महेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, सत्येन्द्र सिंह पिता राम दहिन सिंह नि० करहरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				685	निजी	धनहर	637	भोला सिंह पिता रामदत्त सिंह व सोनामती देवी पति उग्रह सिंह व सरस्वती देवी पति जय नन्दन सिंह व महेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, सत्येन्द्र सिंह पिता राम दहिन सिंह व मोहन यादव पिता हरी यादव नि० करहरा
				686	निजी	धनहर	405	सुदीप यादव पिता हरी यादव व राम कलेश यादव पिता कुलदीप यादव नि० रघुपुर, करहरा
				687	निजी	परती	113	सुदीप यादव पिता हरी यादव नि० रघुपुर करहरा
				688	निजी	धनहर	129	सुदीप यादव पिता हरी यादव व राम कलेश यादव पिता कुलदीप यादव नि० रघुपुर, करहरा
				689	निजी	परती	212	केशो यादव, रामेश्वर यादव, जुदागीर यादव पिता जयपाल यादव नि० ओरा
				692	सरकारी	परती	971	गैर मजरूआ मालिक
				693	निजी	नीट	1012	जगदेव यादव, लक्ष्मण यादव पिता स्व० रघुबर यादव व सुदीप यादव पिता हरी यादव व राम कलेश यादव पिता कुलदीप यादव व बिशेश्वर यादव, तिलेसर यादव पिता स्व० चन्द्रदेव यादव व रामलखन यादव, राम स्वरूप यादव पिता मुनारिक यादव नि० करहरा
				694	सरकारी	बांध	809	गैर मजरूआ आम
				695	सरकारी	धनहर	2040	गैर मजरूआ मालिक
				696	निजी	धनहर	243	सरस्वती देवी पति जय नन्दन सिंह व महेन्द्र सिंह, सत्येन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पिता राम दहिन सिंह व भोला सिंह, मथुरा सिंह पिता रामदत्त सिंह नि० करहरा
				690	निजी	धनहर	142	जगदेव यादव, लक्ष्मण यादव पिता स्व० रघुबर यादव व सुदीप यादव पिता हरी यादव व राम कलेश यादव पिता कुलदीप यादव व बिशेश्वर यादव, तिलेसर यादव पिता स्व० चन्द्रदेव यादव व रामलखन यादव, राम स्वरूप यादव पिता मुनारिक यादव नि० करहरा
				689	निजी	धनहर	192	महेश सिंह पिता शिवरक्षा सिंह नि० करहरा
				700	निजी	धनहर	344	मथुरा सिंह पिता रामदास सिंह, व धनन्जय सिंह पिता रामेश्वर सिंह नि० करहरा
				701	निजी	धनहर	202	मगवान सिंह व रामाधार सिंह पिता..... नि० रेमू बिगहा
				702	निजी	धनहर	40	बिराची यादव पिता जोगेसर यादव नि० करहरा
				598	सरकारी	मन्दिर	1214	गैर मजरूआ आम, हनुमान मन्दिर व गेट
				597	सरकारी	रास्ता	243	गैर मजरूआ आम
				595	निजी	धनहर	162	बूढ़ यादव पिता जोगेसर यादव नि० ओरा
				563	निजी	धनहर	405	बिन्देश्वरी सिंह, रामराज सिंह, मनीष कुमार सिंह, रविन्द्र सिंह, रमेश सिंह पिता कुलदीप सिंह नि० कनबेहरी
				562	सरकारी	धनहर	405	गैर मजरूआ मालिक
				561	निजी	धनहर	162	सत्येन्द्र सिंह, कृष्णा सिंह पिता देव रक्षा सिंह व पंकज सिंह पिता जुगेश्वर सिंह व बबनू सिंह पिता उदय सिंह नि० करहरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				560	निजी	धनहर	40	नरेश सिंह, उपेन्द्र सिंह पिता शिवरक्षा सिंह नि० करहरा
				559	सरकारी	धनहर	162	गैर मजरूआ मालिक
				537	निजी	धनहर	486	दामोदर सिंह, पिता त्रिवेनी सिंह नि० रघुबर बिगहा, करहरा
				596	निजी	धनहर	40	रूप चन्द राय पिता शिवराम नि० करहरा
				640	सरकारी	नाला	1699	गैर मजरूआ आम
				641	निजी	धनहर	243	राधेश्याम गुप्ता पिता नि० शाहपुर, औरंगाबाद
योग							43588	
			(12) नरसीहा थाना न० 820	1096	सरकारी	धनहर	809	गैर मजरूआ मालिक
				1099	सरकारी	धनहर	2104	गैर मजरूआ मालिक
				1117	निजी	धनहर	728	श्रीमती सुशीला देवी सिंह पति रविन्द्र नाथ सिंह नि० न्यू एरिया औरंगाबाद, हाल मोकाम औरंगाबाद सर्विस स्टेशन, ग्राम, शाहपुर टोला पीपरडीह, औरंगाबाद रूप चन्द साव, दुर्गा साव पिता सहदेव साव नि० नरसीहा हरिचरण साव पिता स्व० महादेव साह व श्याम लाल पिता नान्हक साव नि० नरसीहा गुप्तेश्वर साव पिता रामदास साव नि० चौखड़ा करमी देवी पति स्व० राम गुलाम साव नि० नरसीहा
				1124	सरकारी	धनहर	1537	गैर मजरूआ मालिक
				1125	निजी	परती	101	गुप्तेश्वर यादव पिता बजरंगी यादव नि० माया बिगहा
				1030	सरकारी	धनहर	870	गैर मजरूआ मालिक
				990	सरकारी	धनहर	1748	गैर मजरूआ मालिक
				1224	सरकारी	बांध	1618	गैर मजरूआ आम
				989	निजी	आवासीय	202	गुप्तेश्वर यादव पिता बजरंगी यादव व कमलेश यादव, अजय यादव पिता महेशी यादव व सुरेन्द्र यादव, महेन्द्र यादव पिता सर्वदेव यादव व चन्द्रदीप यादव पिता विशुनदेव यादव नि० माया बिगहा
				1222	सरकारी	पिण्ड	61	गैर मजरूआ आम, (जिला परिषद)
				1211	सरकारी	सड़क	40	गैर मजरूआ आम, (जिला परिषद)
				1213	निजी	धनहर	161	राजेन्द्र सिंह पिता जगदीश सिंह व विनोद सिंह मिथिलेश सिंह, उमेश सिंह पिता गया सिंह, व राम चन्द्र सिंह पिता सरजू सिंह नि० नरसीहा
				1129	सरकारी	धनहर	10520	गैर मजरूआ मालिक
				1133	सरकारी	धनहर	1295	गैर मजरूआ मालिक
				1212	सरकारी	धनहर	303	गैर मजरूआ आम
				1134	सरकारी	पिण्ड	324	गैर मजरूआ आम
योग							22421	
		3 मदनपुर	(1) माया बिगहा थाना न० 821	51	सरकारी	बांध	40	गैर मजरूआ आम
				50	निजी	आवासीय	405	रघुवश सिंह, रघुपत सिंह पिता रूपचन्द्र सिंह नि० चौखड़ा
				49	सरकारी	रास्ता	121	गैर मजरूआ आम
				48	सरकारी	पिण्ड	202	गैर मजरूआ आम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				47	सरकारी	रास्ता	194	गैर मजरूआ आम
				46	सरकारी	मंदिर	1225	गैर मजरूआ मालिक, गोवर्धन पहाड़ व शंकर जी का मन्दिर
				45	निजी	घनहर	1213	रामनाथ सिंह, राम प्रसिद्ध सिंह, शिवपूजन सिंह, रामपुकार सिंह पिता देव नन्दन सिंह नि० माया बिगहा
				71	निजी	घनहर	900	रामनाथ सिंह, राम प्रसिद्ध सिंह, शिवपूजन सिंह, रामपुकार सिंह पिता देव नन्दन सिंह नि० माया बिगहा
				61	सरकारी	बांध	142	गैर मजरूआ आम
				62	सरकारी	घनहर	1670	गैर मजरूआ मालिक
				70	सरकारी	घनहर	303	गैर मजरूआ मालिक
				69	सरकारी	बांध	283	गैर मजरूआ आम
				68	सरकारी	पईन	141	गैर मजरूआ आम
				28	सरकारी	बांध	61	गैर मजरूआ आम
				60	भारत सरकार	घनहर	1943	केशरे हिंद
				59	भारत सरकार	घनहर	384	केशरे हिंद
				64	सरकारी	घनहर	566	गैर मजरूआ मालिक
				63	सरकारी	पईन	202	गैर मजरूआ आम
				65	भारत सरकार	घनहर	809	केशरे हिंद
				67	सरकारी	पईन	263	गैर मजरूआ आम
				योग			11067	
			(2) दरभंगा थाना नं० 856	220	सरकारी	घनहर	2110	गैर मजरूआ मालिक
				223	भारत सरकार	घनहर	364	केशरे हिंद
				222	निजी	घनहर	2435	मिखारी बैठा, दूखन बैठा पिता घूरा बैठा नि० माया बिगहा त्रिभुवन बैठा वगैरह पिता गोपी चन्द बैठा नि० माया बिगहा शिवदेनी बैठा पिता जगेश्वर बैठा नि० माया बिगहा मोहन यादव पिता स्व० रामदेनी यादव नि० बदूरा, बारुन शकुंतला देवी पति मोसाफिर मिस्त्री नि० मायाबिगहा
				225	निजी	घनहर	1537	मिखारी बैठा, दूखन बैठा पिता घूरा बैठा नि० माया बिगहा शिवदेनी बैठा पिता जगेश्वर बैठा नि० माया बिगहा विगन बैठा पिता गोपीचन्द बैठा नि० माया बिगहा रामपुकार सिंह पिता सीयाराम सिंह नि० माया बिगहा
				226	निजी	घनहर	2435	मिखारी बैठा, दूखन बैठा पिता घूरा बैठा नि० माया बिगहा त्रिभुवन बैठा वगैरह पिता गोपी चन्द बैठा नि० माया बिगहा शिवदेनी बैठा पिता जगेश्वर बैठा नि० माया बिगहा विगन बैठा पिता गोपीचन्द बैठा नि० माया बिगहा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								माधो यादव पिता शिव बालक यादव नि० माया बिगहा
								देवकली देवी पति स्व० सतदेव यादव नि० माया बिगहा
				228	निजी	धनहर	243	देवकली देवी पति स्व० सतदेव यादव नि० माया बिगहा
				229	सरकारी	धनहर	486	गैर मजरुआ मालिक
				230	सरकारी	नाला	243	गैर मजरुआ आम
				179	निजी	धनहर	81	मुकेन्द्र यादव पिता स्व० कृत यादव नि० माया बिगहा
				184	सरकारी	धनहर	405	गैर मजरुआ आम
				185	सरकारी	रास्ता	142	गैर मजरुआ आम
				209	सरकारी	नाला	809	गैर मजरुआ आम
				208	सरकारी	नाला	162	गैर मजरुआ आम
				207	सरकारी	पत्ती कदीम	890	गैर मजरुआ मालिक
				211	सरकारी	नाला	121	गैर मजरुआ आम
				212	सरकारी	बिछालख	330	गैर मजरुआ मालिक
				213	नाल करकर	धनहर	324	केशरे हिंद
				214	नाल करकर	धनहर	142	केशरे हिंद
				298	सरकारी	धनहर	607	गैर मजरुआ मालिक
				296	सरकारी	नाला	526	गैर मजरुआ आम
				289	सरकारी	धनहर	2428	गैर मजरुआ मालिक
				286	सरकारी	नाला	405	गैर मजरुआ आम
				287	सरकारी	धनहर	61	गैर मजरुआ मालिक
				283	सरकारी	धनहर	101	गैर मजरुआ मालिक
				282	निजी	धनहर	486	केदार सिंह , हरिहर सिंह, देवेन्द्र सिंह, प्रमोद सिंह व बंदी सिंह पिता सूर्यदेव सिंह नि० दरभंगा
				284	सरकारी	धनहर	61	गैर मजरुआ आम
योग							17934	
			(3) दधपी थाना नं० 854	1683	निजी	धनहर	212	भरोसा सिंह पिता दरबारी सिंह नि० दधपी
				1684	निजी	धनहर	81	अर्जुन मिस्त्री पिता चन्द्र देव मिस्त्री, नि० दधपी
				1685	निजी	धनहर	233	उमेश प्रसाद पिता देव चरण मेहता, नि० दधपी
				1686	सरकारी	धनहर	566	गैर मजरुआ मालिक
				1687	निजी	धनहर	324	चन्द्रदीप महतो व गोपाल महतो पिता जगदेव महतो, नि० दधपी
				1717	निजी	धनहर	324	रामलखन सिंह वगैरह पिता स्व० कृत नारायण सिंह, नि० दधपी
				1719	निजी	धनहर	971	राजीव लाल पिता स्व० सीताराम प्रसाद, नि० दधपी
				1718	निजी	धनहर	1537	बनारसी साव पिता सोमारन साव नि० दधपी
				1720	सरकारी	धनहर	314	गैर मजरुआ मालिक
				1721	निजी	धनहर	1052	नरेश सिंह व यमुना सिंह पिता चन्द्रदेव सिंह नि० दधपी
				1722	निजी	धनहर	364	अकधेश पाठक पिता गुप्तेश्वर पाठक नि० दधपी मिथिलेश पाठक पिता राजेन्द्र पाठक नि० दधपी
				1723	निजी	धनहर	566	राधवेन्द्र सिंह वगैरह पिता शिवरतन सिंह नि० दधपी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1440	निजी	धनहर	283	नरेश सिंह व यमुना सिंह पिता चन्द्रदेव सिंह नि० दधपी
				1450	निजी	धनहर	1133	राधकेन्द्र सिंह वगैरह पिता शिवरतन सिंह नि० दधपी
				1451	निजी	धनहर	73	नरेश सिंह व यमुना सिंह पिता चन्द्रदेव सिंह नि० दधपी
				1452	निजी	धनहर	728	अनिल सिंह व राधकेन्द्र सिंह पिता शिवरतन सिंह नि० दधपी
				1453	निजी	धनहर	647	नरेश सिंह व यमुना सिंह पिता चन्द्रदेव सिंह नि० दधपी
				1454	निजी	धनहर	465	महीप सिंह पिता अजय सिंह नि० दधपी
				1455	निजी	धनहर	486	राधकेन्द्र सिंह वगैरह पिता शिवरतन सिंह नि० दधपी
				1491	निजी	धनहर	971	इन्द्रजीत सिंह पिता स्व० राम जनम सिंह नि० दधपी
				1487	निजी	धनहर	162	इन्द्रजीत सिंह पिता स्व० राम जनम सिंह नि० दधपी
				1493	निजी	धनहर	405	इन्द्रजीत सिंह पिता स्व० राम जनम सिंह नि० दधपी
				1492	निजी	धनहर	566	इन्द्रजीत सिंह पिता स्व० राम जनम सिंह नि० दधपी
				1503	निजी	धनहर	566	मथुरा महतो पिता रामू महतो, नि० दधपी लखन महतो पिता बलित्तर महतो, नि० दधपी
				1504	निजी	धनहर	647	रामलखन सिंह व दिनेश सिंह पिता स्व० कृता नारायण सिंह, नि० दधपी
				1507	निजी	जायसीय	113	मो० आफताब आलम पिता नजीर आलम नि० दधपी
				1508	निजी	धनहर	194	रामेश्वर प्रसाद पिता रामलखन सिंह कामत नि० दधपी
				1512	सरकारी	पक्की	1861	गैर मजरूआ मालिक
				1511	निजी	व्यावसायिक	971	कृष्णा प्रसाद पिता शिवदेवी प्रसाद नि० दधपी मथुरी देवी पुत्री कृष्णा साव नि० दधपी बृजेश कुमार व नन्दन कुमार पिता कृष्णा साव नि० दधपी राजेन्द्र प्रसाद पिता बाबूलाल साव नि० दधपी बच्चू पासवान पिता स्व० दीप पासवान नि० शिवगंज देवकलिया देवी पति स्व० तपेश्वर चौहान नि० दधपी प्रहलाद चौधरी पिता कामेश्वर चौधरी नि० दधपी शान्ति देवी पति रामचन्द्र प्रजापति नि० शिवगंज शिवबालक प्रजापति पिता रामदास प्रजापति नि० एरकी कला रामजी पिता नि० जमुई
				733	सरकारी	रास्ता	81	गैर मजरूआ आम
								कुन्ती देवी पति जगनरायन सिंह नि० तेलडीहा कुलदीप पासवान पिता टसन पासवान नि० शिवगंज

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				734	निजी	व्यावसायिक	526	मो० सरफराज पिता मो० कलीम अंसारी नि० शिवगंज
								रघुनन्दन पासवान पिता टसन पासवान नि० शिवगंज
								मुंशी साव पिता अनछू साव नि० शिवगंज
				1513	सरकारी	व्यावसायिक	1052	गैर मजरुआ मालिक
				1514	सरकारी	बांध	293	गैर मजरुआ आम
				1515	सरकारी	नहर	708	गैर मजरुआ आम, पईन
				1516	सरकारी	बांध	293	गैर मजरुआ आम, बांध
				1518	निजी	घनहर	81	सुरेन्द्र यादव पिता नि० गैवाल बिगहा
				1542	सरकारी	नहर	324	गैर मजरुआ आम
				1577	मरुत सरकार	मीट	202	केशरे हिंद
				1564	सरकारी	जायतीव	243	गैर मजरुआ मालिक
				1563	निजी	व्यावसायिक	223	ठाकुर जी महाराज सेवायत व श्रीधर सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह नि० शिवगंज
								सुरेन्द्र सिंह पिता नि० शिवगंज
								शंकर यादव व सुधीर यादव पिता कामेश्वर सिंह नि० गवाल बिगहा
								हलखोरी प्रसाद वर्मा पिता स्क्व० बीरन महतो नि० दघपी
				1543	निजी	घनहर	728	कारु महतो पिता बीगन महतो नि० शिवगंज
								अलकरिया देवी पति रामबली महतो नि० कसौटी
								राम केवल यादव पिता स्क्व० चन्द्रदेव यादव व विजय यादव दगैरह पिता स्क्व० मोहन यादव नि० घोड़डीह
योग							21569	
सम्पूर्ण योग (वर्गमीटर में)							571155	
हेक्टेयर							57.0365	

[फा. सं. भारराप्रा/11013/2010-एलए/नोटिफ/पीआईयू-वाराणसी]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th December, 2010

S.O. 2906(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 756 (E), dated the 05th April, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No. 2 on the stretch of land from Km. 934+000 to Km. 978+000 (Varanasi-Aurangabad Section) in District Aurangabad in the State of Bihar;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Jagran” and “Times of India”, both dated the 12th May, 2010; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 934.000 to Km. 978.000 (Varanasi-Aurangabad Section) on the National Highway No. 2 in District Aurangabad in the State of Bihar

Serial number	Name of the district	Name of the taluk/anchal	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aurangabad	1. Barun	(1) Khemda Chader-8 Thana No.154	1/910	Govt.	Commercial	1335	Gair Mazarua Aam
				746	Private	Commercial	10	Narayan Singh S/o Lt. Keshav Singh, R/o Khemda
				747	Private	Commercial	687	Narayan Singh S/o Lt. Keshav Singh, R/o Khemda
				748	Private	Commercial	830	Narayan Singh S/o Lt. Keshav Singh, R/o Khemda
				749	Private	Commercial	215	Narayan Singh S/o Lt. Keshav Singh, R/o Khemda
				750	Private	Commercial	62	Narayan Singh S/o Lt. Keshav Singh, R/o Khemda
				433	Govt.	Passage	647	District Board (Road)
				442	Govt.	Passage	566	District Board (Road)
				440	Govt.	Bhit	972	Bihar State Electricity Board
				816	Private	Commercial	2630	Narayan Singh S/o Lt. Keshav Singh, R/o Khemda
				559	Private	Dhanhar	326	Devnandan Prasad S/o Lt. Keshav Singh, R/o Khemda
				823	Private	Commercial	326	Devnandan Prasad S/o Lt. Keshav Singh, R/o Khemda
				824	Private	Ressi.	452	Madan Prasad, Baban Prasad S/o Lt. Motilal Prasad, R/o Khemda
				825	Private	Ressi.	670	Sri Kailash Prasad S/o Lt. Ramdeni Prajapati, R/o Khemda
				551	Govt.	Passage	81	Gair Mazarua Aam
				549	Govt.	Passage	142	Gair Mazarua Aam
				547	Private	Commercial	1276	Sanjeev Kumar Singh S/o Devnandan Prasad, R/o Khemda
				546	Private	Commercial	486	Narayan Singh S/o Lt. Keshav Singh, R/o Khemda
				820	Private	Commercial	810	Sunil Singh S/o Saryu Singh & Ashok Kumar Gupta S/o Lt. Heera Lal Gupta, R/o Khemda
				545	Private	Commercial	3560	Chandrawati Devi W/o Devnandan Prasad & Manish Kumar S/o Devnandan Prasad & Devnandan Prasad S/o Lt. Keshav Singh & Sanjeev Kumar S/o Devnandan Prasad & Narayan Singh S/o Lt. Keshav Singh & Kailash Prasad S/o Lt. Ramdeni Prajapati, R/o Khemda
				818	Private	Commercial	750	Khaderu Prajapati S/o Lt. Nanhak Prajapati, R/o Khemda
				543	Private	Commercial	935	Kailash Prasad S/o Lt. Ramdeni Prajapati & Ram Bachan Prajapati S/o Lt. Rajkumar Prajapati & Shiv Nandan Singh S/o Lt. Nathuni Singh & Khaderu Prajapati S/o Lt. Nanhaku Prajapati R/o Khemda

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				542	Private	Commercial	283	Kailash Prasad S/o Lt. Ramdeni Prajapati, R/o Khemda
				541	Private	Commercial	290	Narayan Singh, Devnandan Prasad S/o Lt. Keshav Singh, R/o Khemda
				539	Govt.	Commercial	550	Bihar State Electricity Board
				536	Govt.	Commercial	364	Bihar State Electricity Board
				535	Govt.	Commercial	202	Bihar State Electricity Board
				537	Private	Commercial	448	Janeshwar Prasad S/o Lt. Ram Bilash Ram, R/o Khemda
				534	Govt.	Bhit	266	Bihar State Electricity Board
				527	Govt.	Bhit	345	Bihar State Electricity Board
				854	Govt.	Commercial	1700	Gair Mazarua Malik & Bihar State Electricity Board
				596	Govt.	Bhit	40	Bihar State Electricity Board
				595	Govt.	Bhit	121	Bihar State Electricity Board
				855	Govt.	Pind	210	Bihar State Electricity Board
				598	Govt.	Parti	750	Bihar State Electricity Board
				853	Govt.	Bhit	602	Bihar State Electricity Board
				602	Govt.	Bhit	81	Bihar State Electricity Board
				751	Private/ Govt.	Commercial	3641	Narayan Singh S/o Lt. Keshav Singh, R/o Khemda & Education Department
				817	Private/ Govt.	Commercial	688	Sunil Kumar, Sanjiv Kumar, Manish Kumar S/o Devnandan Prasad, R/o Khemda & Bihar State Electricity Board
				814	Govt.	Pind	444	Gair Mazarua Aam
				531	Private	Dhanhar	162	Devnandan Prasad S/o Lt. Keshav Singh, R/o Khemda
				532	Private	Commercial	283	Bhim Kumar Singh S/o Narayan Singh, R/o Khemda & Ramjee Singh S/o Lt. Raghu Singh & Ramesh Singh S/o Biran Singh, R/o Khemda Barun
				533	Govt.	Commercial	323	Bihar State Electricity Board
				522	Private	Commercial	283	Bhim Kumar Singh S/o Narayan Singh, R/o Khemda & Smt. Prabhawati Devi W/o Ramjee Singh, R/o Khemda Barun
				524	Private	Commercial	283	Devnandan Prasad S/o Lt. Keshav Singh, R/o Khemda
				520	Private	Commercial	344	Sunil Kumar, Manish Kumar, Sanjiv Kumar S/o Devnandan Prasad, R/o Khemda
				519	Private	Commercial	65	Sunil Kumar, Manish Kumar, Sanjiv Kumar S/o Devnandan Prasad, R/o Khemda
				518	Private	Commercial	690	Sunil Kumar, Manish Kumar, Sanjiv Kumar S/o Devnandan Prasad, R/o Khemda
				515	Private	Commercial	465	Sunil Kumar, Manish Kumar, Sanjiv Kumar S/o Devnandan Prasad & Ram Bilash Singh, Nagina Singh S/o Lt. Nanhak Singh, R/o Khemda
				517	Private	Commercial	40	Kailash Prasad S/o Lt. Ramdeni Prajapati & Mithilesh Kumar Singh, Surendra Kumar Singh S/o Saryu Singh & Raja Kunwar W/o Lt. Briksh Kumar, R/o Khemda

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				538	Private	Commercial	526	Sunil Kumar Singh S/o Devnandan Prasad & Smt. Chandrawati Devi W/o Devnandan Prasad & Narayan Singh S/o Lt. Keshav Singh, R/o Khernda
				815	Govt.	Commercial	243	Bihar Government
				540	Govt.	Commercial	121	Bihar State Electricity Board
				819	Private	Commercial	121	Bihar Government
			Total				32742	
				1746	Private	Commercial	708	Ram Naresh Pandey S/o Lt. Ram Murat Pandey & Pradeep Lal S/o Kishundev Lal, R/o Barun
				1762	Private	Commercial	1132	Arun Kumar, Ashok Kumar S/o Brijnandan Singh, R/o Bhagwan Bigaha & Ram Ashish Singh S/o Lt. Ganesh Singh & Nagendra Singh, Mahendra Singh S/o Lt. Parmeshwar Singh, R/o Barun
				1752	Private	Commercial	870	Uday Singh S/o Indradev Singh, R/o Barun
				1753	Private	Commercial	1376	Uma Devi W/o Lt. Pramod Singh, R/o Tendua, Nabinagar & Baban Singh S/o Jagdev Singh & Mukhdev Singh S/o Bhikhari Singh & Satyadev Singh S/o Mahadev Singh, R/o Barun
				1755	Private	Dhanhar	61	Uday Pratap Singh, Abhimanyu, Mantu, Mukesh, Grish Singh S/o Ram Prasad Singh & Shivpati Devi W/o Lt. Ram Swarup Singh & Jairam Singh, Shaligram Singh, Rameshwar Singh, Hari Narayan Singh S/o Lt. Devki Singh, R/o Barun
				1754	Private	Dhanhar	202	Pramod Kumar Singh S/o Chandradeep Singh, R/o Barun
				1756	Private	Dhanhar	61	Uday Pratap Singh, Abhimanyu, Mantu, Mukesh, Grish Singh S/o Ram Prasad Singh & Shivpati Devi W/o Lt. Ram Swarup Singh & Jairam Singh, Shaligram Singh, Rameshwar Singh, Hari Narayan Singh S/o Lt. Devki Singh, R/o Barun
				1796	Private	Commercial & Parti	1214	Mahendra Singh, Nagendra Singh S/o Parmeshwar Singh & Ram Ashish Singh, Ram Layak Singh S/o Ganesh Singh & Jagdeesh Singh, Jagdeep Singh S/o Lt. Ram Bilash Singh, R/o Barun
				1797	Govt.	Dhanhar	465	Gair Mazarua Malik
				1798	Govt.	Dhanhar	2428	Gair Mazarua Malik
				1820	Private	Dhanhar	243	Ramjee Singh, Mahadev Singh S/o Lt. Bhikhari Singh, R/o Barun
				1813	Govt.	Pind	2509	Gair Mazarua Aam
				1852	Private	Dhanhar	20	Bharat Singh S/o Ram Autar Singh, R/o Barun
				1822	Govt.	Bandh	40	Gair Mazarua Aam
				1853	Private	Commercial	582	Virendra Kumar Singh, Devendra Kumar Singh S/o Ram Swaroop Singh, R/o Mallu Khaira
				1818	Private	Commercial	105	Ramjee Yadav S/o R/o Rediya

(2)
Barun
Chader -
2
Thana
No. 155

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1846	Private	Dhanhar	809	Mukhdev Singh S/o Lt. Bhikhari Singh, R/o Mastul Barun
				1845	Private	Dhanhar	748	Gair Mazarua Malik
				1805	Private	Commercial	81	Gair Mazarua Malik
				1804	Private	Dhanhar	40	Gair Mazarua Malik
				1803	Private	Commercial	1457	Bhola Prasad Gupta S/o Lt. Jatan Prasad & Kalawati Devi W/o Bhola Prasad & Udai Singh S/o Lt. Indradev Singh & Ram Dahin Singh S/o Lt. Musafir Singh, R/o Barun
				1802	Private	Resi. & Commercial	1052	Abhay Singh, Manoj Singh, Arun Singh S/o Ram Surishth Singh & Baliram Singh S/o Lt. Bhekh Narayan Singh, R/o Barun & Mahendra Singh Yadav S/o Lt. Sohan Yadav, R/o Bahuriya Bigaha & Mahendra Yadav, Upendra Yadav, Jitendra Yadav, Satyendra Yadav S/o Lt. Amarik Singh, R/o Melpur & Ram Dahin Singh S/o Lt. Musafir Singh & Ashok Singh S/o Bharat Singh & Surendra Singh, Devendra Singh S/o Lt. Sarju Prasad Singh & Yashoda Devi W/o Lt. Ramdutt Singh & Kedar Singh, Badri Singh, Ramjee Singh, Ramroop Singh, Ram Pramod Singh S/o Lt. Musafir Singh & Ram Sunder Singh S/o Lt. Rajdev Singh, R/o Barun & Virendra Kumar Singh, Devendra Kumar Singh S/o Ram Swaroop Singh, R/o Mallu Khaira
Total							16203	
			(3) Sindhuri ya Thana No.157	213	Private	Commercial	2246	Ramchandra Paswan S/o Chhedi Paswan & Chandip Paswan, Laldip Paswan] Mandip Paswan S/o Lt. Rajendra Paswan & Virendra, Surendra S/o Basdev Paswan & Paras Paswan, Gorakh Paswan S/o Jairam Paswan & Ramdarti Kunwar W/o Lt. Gaya Dusadh & Smt. Anju Devi W/o Mahendra Singh R/o Mastul, Barun & Smt. Indu Devi W/o Rajesh Kumar & Smt. Pushpa Devi W/o Sri Babban Singh R/o Subhash Nagar, Dehri
				214	Private	Dhanhar	223	Ramchandra Paswan S/o Chhedi Paswan & Chandip Paswan, Laldip Paswan] Mandip Paswan S/o Lt. Rajendra Paswan & Virendra, Surendra S/o Basdev Paswan & Paras Paswan, Gorakh Paswan S/o Jairam Paswan & Ramdarti Kunwar W/o Lt. Gaya Dusadh & Smt. Anju Devi W/o Mahendra Singh R/o Mastul, Barun

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				212	Private	Ressi.	1376	Ramkrit Paswan, Lallan Paswan S/o Girdhari Paswan & Pradeep Paswan, Jaidip Paswan S/o Lt. Ramkrit Paswan R/o Sindhuriya & Saroj Yadav, Santos Yadav S/o Ram Naresh Yadav R/o Kusa, Basdiha
				215	Govt.	Bandh	5017	Gair Mazarua Aam
				210	Govt.	Bandh	202	Gair Mazarua Aam, Sarvasadharan
				209	Govt.	Commercial	243	Bakast Malik
				203	Private	Commercial	1942	Gopal Singh S/o Baliram Singh & Satyendra Singh. Arun Singh S/o Lt. Mukhdev Singh, R/o Sindhuriya
				202	Govt.	Bandh	61	Gair Mazarua Aam
				201	Private	Dhanhar	78	Munna Singh S/o Lt. Chandradeep Singh, R/o Bahuria Bigha & Kunti Devi W/o Lt. Rajdev Singh & Raghubansh S/o Lt. Ramswaroop Singh & Smt. Thakur Mani Devi W/o Lt. Triveni Singh, R/o Sindhuriya
				192	Private	Dhanhar	971	Ram Prasad Chaudhry S/o Lt. Raghunandan Chaudhry & Pran Chaudhry S/o Lt. Ram Rekha Chaudhry, R/o Sindhuriya & Ganesh Prasad S/o Lt. Hira Lal Prasad R/o Barun
				191	Private	Dhanhar	40	Ramchandra Paswan S/o Chhedi Paswan & Chandip Paswan, Laldip Paswan] Mandip Paswan S/o Lt. Rajendra Paswan & Virendra, Surendra S/o Basdev Paswan & Paras Paswan, Gorakh Paswan S/o Jairam Paswan & Ramdarti Kunwar W/o Lt. Gaya Dusadh R/o Sindhuriya
				190	Govt.	Aahar	20	Gair Mazarua Aam
				189	Govt.	Pind	10	Gair Mazarua Aam, Sarvasadharan
				188	Govt.	Passage	20	Gair Mazarua Aam
				183	Govt.	Dhanhar	405	Bakast Malik
				182	Private	Dhanhar	142	Munna Singh S/o Deepa Singh R/o Sindhuriya
				180	Private	Ressi.	40	Mahaveer S/o & Ram Nand Singh S/o Lt. Dukh Haran Singh & Laldev S/o Lt. Shiv Shankar Singh & Rameshwar Chaudhary, Ram Briksh, Krishna Prasad S/o Rameshwar Prasad & Tulsu Prasad, Asarfi Ram, Sudama Ram S/o Ram Prasad, R/o Sindhuriya
				181	Govt.	Bandh	2266	Gair Mazarua Aam
				176	Private	Dhanhar	91	Devendra Chaudhary, Virendra Chaudhary, Vinay Chaudhary S/o Triveni Chaudhary & Pan Kumari Devi W/o Lt. Ram Gopal Chaudhary & Sunil Kumar, Anil Kumar S/o Ramdin Chaudhary & Ganesh Prasad S/o Jagat Narayan Ram R/o Sindhuriya
				175	Govt.	Aahar	10	Gair Mazarua Aam
				219	Govt. of India	Bhit	223	Keshre Hind

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				220	Govt.	Bhit	142	Gair Mazarua Malik
				221	Govt.	Road	971	Bihar Government, Anabad Sarvasadharan
				116	Private	Ressi.	647	Lalita Sav S/o Lt. Benga Sav & Shiv Prasad Yadav S/o Aliyar Yadav & Sukan Sav S/o Lt. Nanhak Sav & Janardan Sav S/o Ganauri Sav & Shiv Shankar Sav S/o Kishun Sav, R/o Sindhuriya
				115	Private	Ressi.	121	Narayan Paswan S/o & Shiv Shankar Sav S/o Kishun Sav, R/o Sindhuriya
				114	Private	Dhanhar	121	Ram Autar Singh S/o Lt. Raja Singh, R/o Sindhuriya
				449	Govt.	Pind	1618	Gair Mazarua Aam
				447	Private	Dhanhar	71	Mathura Singh S/o Lt. Mungeshwar Singh & Vijay Singh, Shiv Mangal Singh S/o Lt. Indra Dev Singh & Ashok Singh S/o Lt. Fauji Singh, R/o Sindhuriya
				448	Govt.	Dhanhar	2509	Bakast Malik
				450	Govt.	Parti Kadim	2589	Gair Mazarua Aam
				452	Private	Parti	2832	Mathura Singh S/o Lt. Mungeshwar Singh & Vijay Singh, Shiv Mangal Singh S/o Lt. Indra Dev Singh & Ravindra Singh S/o Lt. Munni Singh & Ashok Singh S/o Lt. Banarsi Singh & Bachchu Singh, Mohan Singh S/o Lt. Nageshwar Singh & Sanoj Singh, Manoj Kumar S/o Lt. Lallu Singh & Prahlad Singh, Sunil Singh, Anil Singh S/o Lt. Barat Singh & Ram Bilash Singh S/o Lt. Dukh Haran Singh & Shanti Devi W/o Lt. Ram Vijay Singh & Ram Autar Singh, Kailash Singh, Ram Nandan Singh S/o Dukh Haran Singh & Parwati Kunwar W/o Lt. Kedar Singh, R/o Sindhuriya
				75	Private	Dhanhar	61	Ramesh Singh, Rajesh Singh S/o Lt. Pratap Singh, R/o Sindhuriya
				74	Private	Dhanhar	61	Brijnandan Singh S/o Lt. Mukhdev Singh, R/o Sindhuriya
				73	Private	Dhanhar	273	Sanjay Singh S/o Kedar Singh & Ashok Singh S/o Fauji Singh & Baijnath Singh S/o Shivratan Singh & Ashok Singh S/o Banarsi Singh, R/o Sindhuriya
				72	Private	Ressi.	10	Brijnandan Singh, Kunwar Singh, Virendra Singh, Satyendra Singh, Arun Singh S/o Lt. Mukhdev Singh, R/o Sindhuriya
				69	Govt.	Aahar	10	Gair Mazarua Aam
				654	Govt.	Bandh	1012	Gair Mazarua Aam
				113	Private	Dhanhar	81	Mustbaha
				112	Private	Commercial	101	Jawahar Prasad S/o Ram Nandan & Uttam Kumar S/o Jawahar Prasad R/o Trigun Dehri

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				111	Private	Commercial	131	Jawahar Prasad S/o Ram Nandan & Uttam Kumar S/o Jawahar Prasad R/o Trigun Dehri
				110	Private	Commercial	81	Jawahar Prasad S/o Ram Nandan & Uttam Kumar S/o Jawahar Prasad R/o Trigun Dehri
				109	Private	Commercial	65	Jawahar Prasad S/o Ram Nandan & Uttam Kumar S/o Jawahar Prasad R/o Trigun Dehri
				108	Private	Commercial	81	Kunwar Singh S/o Lt. Mukhdev Singh, R/o Sindhuriya
				135	Govt.	Ressi.	20	Bakast Malik
				223	Govt.	Road	215	Bihar Government
				224	Govt.	Road	324	Bihar Government
				225	Govt.	Road	40	Bihar Government
				226	Govt.	Road	486	Bihar Government
				227	Govt.	Road	245	Bihar Government
				228	Govt.	Road	890	Bihar Government
				229	Govt.	Dhanhar	243	Anabad Sarvasadharan
				117	Govt.	Pind	20	Gair Mazarua Aam
				70	Private	Dhanhar	81	Ramkrit Paswan, Lallan Paswan S/o Lt. Girdhari Paswan & Pradeep Paswan, Jaydeep Paswan S/o Ramkrit Paswan, R/o Sindhuriya
				71	Private	Dhanhar	20	Nandu Singh, Maheendra Singh S/o Lt. Ram Prasad Singh, R/o Munshi Bigaha
			Total				31798	
			(4) Dayal pur Thana No.146	27	Private	Dhanhar	3530	Shiv Balak Chauhan S/o Lt. Jagdev Chauhan & Pradeep Singh, Bindhyachal Singh S/o Lt. Dasarath Singh R/o Bardi Khurd
				26	Govt.	Pind	20	Gair Mazarua Aam
				28	Govt.	Parti Kadim	610	Gair Mazarua Malik
				41	Private	Dhanhar	486	Kamta Singh, Satyendra Singh S/o Lt. Ganesh Singh & Chandan Singh S/o Lt. Lakshman Singh, R/o Madhu Pur
				40	Private	Dhanhar	121	Kamta Singh, Satyendra Singh S/o Lt. Ganesh Singh & Chandan Singh S/o Lt. Lakshman Singh, R/o Madhu Pur
				39	Private	Ressi.	1052	Rameshwar Singh S/o Lt. Ragho Singh & Anugrah Singh S/o Lt. Kamla Singh & Saryu Singh S/o Lt. Ram Chandra Singh & Ram Bilash Singh, Sukhdev Singh S/o Lt. Jeet Wahan Singh & Rajendra Singh S/o Lt. Bandhu Singh, R/o Munshi Bigaha
				38.	Govt.	Parti Kadim	566	Gair Mazarua Malik
			Total				6385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(5) Shripalc hak Thana No.145	61, 63/ 46	Private	Commercial	189	Nandu Singh, Mahendra Singh S/o Ram Prasad Singh & Janeshwar Singh, Radha Singh, Krishna Singh, Subhash Singh S/o Ram Chandra Singh & Lakhan Singh S/o Lt. Pragas Singh & Doman Singh S/o Lt. Mukha Singh, R/o Munshi Bigaha & Gorakh Nath Singh S/o Surya Dev Singh R/o Bisai
				63/50	Private	Dhanhar	45	Kariman Chauhan S/o Buddhan Chauhan, R/o Bardi Khurd
				66/51	Private	Dhanhar	15	Yamuna Singh S/o R/o Satuahi
				66/52	Private	Dhanhar	18	Shri Ram Mahto, Baliram Mahto, Devlal Mahto S/o Lt. Ram Swarup Mahto, R/o Bardi Khurd
				66/53	Private	Dhanhar	20	Dhanmuni Devi W/o Ram Ganesh Chauhan, R/o Bardi Khurd
				66/54	Private	Dhanhar	20	Maheshwari Kunwar W/o Lt. Lakshman Chauhan & Sumitra Kunwar W/o Lt. Yamuna Chauhan & Janki Chauhan S/o Munni Lal Chauhan & Munnial Chauhan S/o Lt. Jagmohan Chauhan R/o Dayalpur
				66/55	Private	Dhanhar	57	Ram Prasad Chauhan S/o Lt. Raghunandan Chauhan, R/o Bels, Amba, Thana
				66/56	Private	Resai	40	Gopal Chauhan S/o Dindayal Chauhan, R/o Dayalpur, Tola Munshi Bigaha
				66/57	Private	Resai	28	Chandan Kumar Singh S/o Lakshman Singh, R/o Madhupur
				66/58	Private	Commercial	80	Satyendra Singh, Kamta Singh S/o Ganesh Singh & Chandan Kumar Singh S/o Lakshman Singh, R/o Madhupur
				67/58	Private	Dhanhar	142	Gopal Chauhan, Amrit Chauhan S/o Dindayal Chauhan, R/o Dayalpur, Tola Munshi Bigaha & Smt. Shanti Devi W/o Kapildev Chauhan, R/o Mangi, Navinagar
				67/60	Private	Dhanhar	332	Smt. Shanti Devi W/o Kapildev Chauhan, R/o Mangi, Navinagar & Chandrika Kamini W/o Bhuneshwar Noniya, R/o Vijayipur, Gaya & Gopal Chauhan S/o Dindayal Chauhan, R/o Dayalpur, Tola Munshi Bigaha
				60/45	Govt.	Dhanhar	4612	Bihar Government
				71/261	Private	Dhanhar	32	Maheshwari Kunwar W/o Lt. Lakshman Chauhan & Sumitra Kunwar W/o Lt. Yamuna Chauhan & Janki Chauhan S/o Munni Lal Chauhan, R/o Dayalpur
				67, 71/61	Private	Dhanhar	121	Mathura Singh, Shiv Kumar Singh S/o Dhaneshwar Singh & Janeshwar Singh S/o Nageshwar Singh & Ashok Singh, Sunil Singh S/o Ram Jenam Singh, R/o Madhupur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				74/82	Private	Dhanhar	15	Mahendra Singh, Ram Prawesh Singh S/o Sukhdev Singh, R/o Dayalpur
				88/77	Private	Dhanhar	10	Shriram Singh, Suresh Singh, Anurudh Singh, Mithilesh Singh, Awdhesh Singh S/o Ram Chandra Singh, R/o Dayalpur
				89, 90, 91, 92, 93/78	Private	Commercial	131	Relinced Hotel and Plaza & Ram Bilash Singh, Ramdas Singh, Alakhdev Singh S/o Harikishun Singh & Pramod Singh, Vinod Singh, Vimal Singh, Nirmal Singh S/o Kamdev Singh, R/o Dayalpur
				127, 128, 131/89	Govt.	Passage	1213	Gair Mazarua Aam
				130, 136/91	Private	Dhanhar	152	Ramdas Singh, Alakhdev Singh, Kamdev Singh, Ram Bilash Singh S/o Harikishun Singh R/o Dayalpur
				132, 134/91	Private	Dhanhar	1487	Unknown
				260/175	Private	Dhanhar	142	Pashuram Paswan S/o Langeswar Ram, R/o Dayalpur
				256, 218/168	Private	Dhanhar	101	Prawesh Singh S/o Indradev Singh, R/o Madhupur
				204/143	Private	Dhanhar	671	Chandan Kumar Singh S/o Lakshman Singh & Kamta Singh, Satyendra Singh S/o Ganesh Singh R/o Madhupur
				202/141	Private	Dhanhar	324	Ramdas Singh, Jagdish Singh, Kamta Singh S/o Mahesh Singh, R/o Dayalpur
				203/142	Govt.	River	324	Punpun River
				258, 259/176	Private	Dhanhar	331	Gupta Singh, Rajkishor Singh, Nageshwar Singh S/o Lt. Bhikshan Singh & Shyama Kunwar W/o Lt. Bhikshan Singh & Jagat Devi, Rajo Devi D/o Lt. Bhikshan Singh, R/o Dayalpur
				63/49	Private	Dhanhar	29	Satyendra Nonia, Rajendra Nonia, Bhola Nonia S/o Lt. Ramchandra Nonia & Birju Nonia S/o Lt. Mahendra Nonia R/o Shripalchak
Total							10681	
				827	Govt.	Dhanhar	445	Gair Mazarua Aam
				815	Govt. of India	Pind	283	Keshre Hind
				822	Private	Dhanhar	3318	Kamta Prasad Singh, Yugendra Singh S/o Lt. Raghupat Singh, R/o Havaspur
				837	Private	Dhanhar	627	Dharmendra Singh S/o Ganesh Singh & Umesh Singh S/o Lt. Ramdev Singh, R/o Havaspur
				845	Private	Dhanhar	617	Smt. Kunti Devi W/o Gopal Narayan Singh & Sanjay Kumar Singh S/o Gopal Narayan Singh, R/o Dehri on Sone & Dharmendra Singh S/o Ganesh Singh, R/o Havaspur
				840	Govt.	Dhanhar	4451	Gair Mazarua Malik
				868	Govt.	Dhanhar	192	Gair Mazarua Malik

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(6) Bhupatp ur, Chader - 1 Thana No.137	878	Govt.	Commercial	566	Gair Mazarua Malik
				839	Private	Dhanhar	2144	Smt. Lalmuni Devi W/o Manoj Kumar Soni, R/o Aara, Jawahir Tola, Nawada & Vijay Kumar Soni S/o Jai Govind Seth, R/o New Area, Dehri on Sone & Lakhan Singh S/o Indradev Singh & Pramod Kumar S/o Krit Sav, R/o Havaspur & Ram Chandra Mallah S/o Kameshwar Mallah, R/o Siris & Mithilesh Singh S/o Raghupat Singh & Manju Devi W/o & Pachu Sav S/o Lt. Faudar Sav, R/o Havaspur
				802	Private	Dhanhar	97	Smt. Iachi Devi W/o Rambriksh Mahto, R/o New Diliya, Dehri on Sone & Murli Prasad S/o Shivan Sav & Hari Sav S/o Godhan Sav & Maniya Devi W/o Raghu Sav, R/o Siris
				803	Govt. of India	Dhanhar	293	Keshre Hind
				801	Private	Dhanhar	293	Murli Prasad S/o Shivan Sav R/o Siris
				800	Govt. of India	Dhanhar	314	Keshre Hind
				148	Private	Dhanhar	486	Amba Singh S/o Ram Kishun Singh R/o Havaspur & Badri Narayan Singh S/o Awdheshwar, R/o Bhupatpur
				149	Private	Ressi.	143	Akhtar Husain S/o Ali Imam, R/o Siris, Bhupatpur
				795	Govt.	Passage	2266	Gair Mazarua Aam
				521	Private	Dhanhar	263	Madan Prasad S/o Ganesh Prasad & Awdhesh Kumar Gupta, Rajesh Prasad Gupta, Dinesh Prasad Gupta, Ram Prawesh Gupta S/o Ramdas, R/o Siris
				798	Private	Dhanhar	293	Harihar Prasad S/o Goverdhan Prasad & Mahendra Prasad, Sulendra Prasad S/o Ramrekha Sav, R/o Siris
				799	Govt. of India	Dhanhar	303	Keshre Hind
				796	Private	Dhanhar	243	Satyendra Gupta S/o Ramratan Gupta & Lilawati Devi W/o Sudama Sav, R/o Siris
				797	Govt. of India	Dhanhar	324	Keshre Hind
				887	Private	Commercial	194	Duli Singh, Sahdev Singh S/o Lt. Gopal Singh & Ramratan Singh S/o Vishvanath Singh, R/o Havaspur
Total							18155	
			Chader - 2	976	Govt.	Ressi.	182	Gair Mazarua Malik
				977	Govt.	Commercial	971	Gair Mazarua Malik
				978	Private	Ressi.	20	Nathuni Ram S/o Nanhak Ram, R/o Siris
				979	Private	Commercial	556	Chanda Devi W/o Mallu Sav & Bhola Sav S/o Mallu Sav, R/o Siris
				981	Private	Commercial	283	Nagendra Singh S/o Ram Janam Singh & Ram Kishor Singh, Vijay Singh, Sanjay Singh S/o Jamindar Singh, R/o Havaspur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				986	Private	Commercial	394	Gopal prasad Halwai S/o Mathura Prasad Sav, R/o Bhupatpur & Dharmendra Kumar Gupta S/o Ganesh Prasad Gupta & Ram Naresh Singh S/o Shiv Sharan Singh & Ram Bachan Sharma, Bajrangi Sharma, Baliram Sharma, Raj Kishor Sharma, Pappu Sharma S/o Sudama Mistry R/o Siris & Vipin Kumar S/o Ram Swaroop Singh R/o Fatehpur & Ram Swaroop Singh S/o Shiv Saran Singh & Rajendra Mahto S/o Ram Bilash Mahto R/o Siris & Sitaram Yadav S/o Devraj Yadav & Sudama Sav S/o Janki Sav, R/o Khambha, Nabi Nagar
				985	Govt. of India	Dhanhar	101	Keshre Hind
				982	Private	Dhanhar	212	Ram Kishor Singh, Ajay Singh, Sanjay Singh S/o Jamindar Singh, R/o Havaspur
				984	Private	Dhanhar	20	Ram Kishor Singh, Ajay Singh, Sanjay Singh S/o Jamindar Singh, R/o Havaspur
				983	Govt.	Commercial	809	Gair Mazarua Malik
				943	Private	Dhanhar	80	Pankaj Kumar S/o Laxmi Sav & Hemanti Devi W/o Vinod Prasad & Murli Prasad S/o Shiv Sav & Karu Sav alias Ramnandan Sav, Krit Sav S/o Jawahir Sav R/o Siris & Yogendra Singh, Lakhan Singh S/o Indradev Singh R/o Baspura
				942	Govt. of India	Bhit	506	Keshre Hind
				941	Govt. of India	Bhit	142	Keshre Hind
				940	Private	Dhanhar	324	Marakshi Kunwar W/o Lt. Jawahir Sav, R/o Siris
				938	Private	Dhanhar	688	Ravindra Singh S/o Ajay Singh, R/o Havaspur
				936	Govt. of India	Bhit	1194	Keshre Hind
				935	Govt.	Dhanhar	1214	Bakast Malik
				934	Private	Dhanhar	223	Kamta Singh S/o Janki Singh, R/o Havaspur
				933	Govt.	Dhanhar	121	Bakast Malik
				987	Private	Commercial	405	Md. Sadique Miyan S/o Iquebal Ahamad R/o Siris
				794	Private	Commercial	890	Ganesh Mahto S/o Shiv Balak Mahto R/o Bhupatpur
				988	Govt.	Commercial & Parti	121	Gair Mazarua Malik
				792	Private	Commercial	10	Kamta Singh S/o Janki Singh, R/o Havaspur
				990	Private	Commercial	81	Ravindra Singh S/o Ajay Singh, R/o Havaspur
				991	Private	Commercial	850	Brijnandan Singh S/o Kamta Singh R/o Havaspur & Rajkumari Kunwar W/o Lt. Baikunth Mistry & Lankeshwari Kunwar W/o Lt. Ayodhya Mistry R/o Siris

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				992	Private	Dhanhar	1052	Md. Ekram S/o Lt. Md. Isahak, R/o Bhupatpur
				993	Govt.	Dhanhar	2832	Bakast Malik
				996	Private	Dhanhar	405	Kamta Singh S/o Janki Singh, R/o Havaspur
				997	Govt.	Bhit	40	Gair Mazarua Aam
				998	Private	Dhanhar	81	Kamta Singh S/o Janki Singh, R/o Havaspur
				999	Private	Dhanhar	81	Kamta Singh S/o Janki Singh, R/o Havaspur
				1000	Private	Dhanhar	283	Sachida Nandan Ram S/o Chhatthan Ram, R/o Siris & Shyam Layak Singh S/o Lt. Surya Dev Singh R/o Havaspur
				787	Govt.	Passage	81	Bihar Government
				1001	Private	Commercial	566	Shripat Sav, Shivshankar Prasad, Mahendra Prasad S/o Mahangu Sav & Ramchandra Paswan, Ramdhanu Ram S/o Ramsewak Ram & Bhikshan Mahto S/o Sivi Lal Mahto R/o Bhupatpur & Suresh Ram S/o Lt. Khaderan Ram, R/o Siris
				1004	Private	Commercial & Parti	668	Indri Devi W/o Daya Nandan Sav & Naeim Akhtar Khan S/o Zahurul Hasan R/o Siris & Upendra Kumar Singh S/o Mukhdev Singh, R/o Chilar Bigha & Mujib Ahamad Khan S/o Shamsuddin Khan R/o Fatehpur & Vina Devi W/o Vinod Prasad & Anil Kumar, Vinod Kumar S/o Rameshwar Sav R/o Siris & Awdhesh Singh S/o Tapeshwar Singh R/o Gopalpur & Satyendra Singh S/o Bhikhari Singh & Murari Sharma S/o Baikunth Mistry & Ramdas Singh S/o Devdhari Singh, R/o Havaspur & Mahendra Sav S/o Lt. Ramdev Sav, R/o Kajichak & Kamakhya Singh, Dinesh Singh S/o Lt. Mahadev Singh & Jagdish Singh, Bhagwati Singh S/o Lt. Nathuni Singh, R/o Barwadeeh Tola & Baijnath Prasad S/o Parikha Sav, R/o Bhupatpur
				1019	Private	Commercial	425	Raghunath Sahai S/o Karmu Sahai R/o Siris & Doman Chauhan S/o Lt. Ganpat Nonia R/o Bhupatpur
				1020	Private	Commercial	303	Raghunath Sahai S/o Karmu Sahai R/o Siris & Doman Chauhan S/o Lt. Ganpat Nonia R/o Bhupatpur
				1202	Govt.	Bhit	81	Gair Mazarua Malik
				1200	Private	Parti	324	Bhagwati Singh S/o Jagdish Singh & Nathuni Singh, Kamakhya Singh, Dinesh Singh S/o Lt. Mahdev Singh & Ram Das Singh S/o Lt. Devdhari Singh, R/o Bhupatpur
				1201	Private	Dhanhar	769	Ramdas Singh S/o Lt. Devdhari Singh, R/o Bhupatpur, Tola-Barwadih & Raguvansh Sahai S/o Aditya Sahai R/o Siris & Kamakhya Singh, Dinesh Singh S/o Lt. Mahdev Singh R/o Bhupatpur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1199	Govt.	Dhanhar + Ressi.	1052	Gair Mazarua Malik
				1198	Private	Ressi.	1012	Mosaphir, Doman Singh, Rambriksh Singh S/o Lt. Bandhu Singh & Ram Pravesh Singh S/o Kishun Singh, R/o Bhupatpur
				1186	Govt.	Dhanhar	3237	Gair Mazarua Malik
				1174	Govt.	Dhanhar	81	Gair Mazarua Malik
				1173	Private	Dhanhar	809	Laxmi Devi W/o Nirmal Kumar Singh R/o Mahadeva & Shivpujan Singh S/o Ramdas Singh R/o Barwadih & Ramrekha Singh S/o Lt. Halkhori Singh R/o Bhupatpur
				1055	Private	Dhanhar	81	Nageshwar Sahai S/o Visheshwar Sahai R/o Siris
				937	Private	Dhanhar	324	Ravindra Singh S/o Ajay Singh, R/o Havaspur
			Total				24984	
			(7) Tengra, Chader- 1 Thana No. 129	449	Govt.	Bandh	144	Gair Mazarua Aam
				451	Private	Dhanhar	840	Ramdas Singh S/o Devdhari Singh, R/o Bhupatpur & Keshwar Gop S/o Jagdish Gop & Dinesh Singh S/o Lt. Mahadev Singh, R/o Barwadih
				448	Govt.	Bandh	24	Gair Mazarua Aam
				446	Govt.	Parti Kadim	96	Gair Mazarua Malik
				445	Private	Parti Jadid	60	Basdev Singh S/o Kuldeep Singh, R/o Barwadih
				443	Govt.	Parti Kadim	51	Gair Mazarua Malik
				442	Private	Parti Jadid	10	Lallu Singh S/o Ramswarup Singh, R/o Tengra
				441	Govt.	Bandh	10	Gair Mazarua Aam
				439	Govt.	Passage	2427	Gair Mazarua Aam
				440	Govt.	Parti Kadim	111	Gair Mazarua Malik
				438	Govt.	Parti Kadim	60	Gair Mazarua Malik
				1012	Govt.	Passage	627	Gair Mazarua Malik
				432	Govt.	Bandh	40	Gair Mazarua Aam
				431	Govt.	Parti Kadim	30	Gair Mazarua Malik
				426	Private	Dhanhar	60	Smt. Sukhali Devi W/o Bhutali Prajapati, R/o Tengra
				422	Govt.	Bandh	81	Gair Mazarua Aam
				430	Private	Parti Jadid	20	Shiv Prasad Singh S/o Baiju Singh & Janeshwar Singh S/o Chandra Dev Singh, R/o Bishun Bigha
			Total				4691	
			Chader- 2	523	Govt.	Parti Kadim	20	Gair Mazarua Malik
				532	Govt.	Ressi.	708	Bakast Malik
				533	Govt.	Parti Kadim	3965	Gair Mazarua Malik
				539	Private	Bhit	20	Vishundev Singh S/o Kesho Singh, R/o Tengra
				558	Private	Dhanhar	192	Prem Kumar Singh S/o Lt. Sohrai Singh & Vijay Kumar Singh S/o Lt. Krishna Singh & Baijnath Singh S/o Hira Prasad Singh, R/o Tengra
				559	Private	Dhanhar	223	Ram Govind Singh, Anand Singh S/o Lt. Murat Singh & Shiv Prasad Singh S/o Hargovind Singh, R/o Tengra
				560	Govt.	Ressi.	486	Gair Mazarua Malik

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				561	Private	Dhanhar	121	Anjani Kumar Pandey, Anuj Kumar Pandey S/o Raghwal Pandey & Bigan Singh S/o Ramdas Singh, R/o Tengra
				728	Govt.	Cremation Ground	850	Gair Mazarua Aam
				723	Private	Dhanhar	40	Krishna Singh S/o Raghuvansh Singh & Umesh Kumar Singh S/o Lt. Dev Narayan Singh & Smt. Meena Devi W/o Umesh Kumar Singh, R/o Shivnath Pur
				730	Private	Dhanhar	20	Prem Kumar Singh S/o Sohrai Singh, R/o Tengra
				729	Govt.	Dhanhar	870	Gair Mazarua Malik
				757	Govt.	Dhanhar	61	Gair Mazarua Malik
				759	Private	Dhanhar	587	Laldev Sav S/o Ram Jatan Sav & Vishwanath Sav S/o Basdev Sav & Bharat Sav S/o Lt. Narayan Sav, R/o Tengra
				760	Private	Dhanhar	314	Gupteshwar Sharma S/o Bhim Chandra Sharma, R/o Banua, Dhiyara
				761	Private	Ressi.	223	Jagamath Sharma S/o Lt. Chandra Deep Sharma, R/o Banua
				762	Private	Ressi.	397	Smt. Ramkaliya Devi W/o Rajendra Lohar, R/o Khaira, Majhauri & Smt. Tetari Devi W/o Nageshwar Sharma, R/o Banwa Khaira & Vijay Singh, Sanjay Singh S/o Lt. Chandradev Singh, R/o Tengra
				764	Private	Dhanhar	172	Premni Devi W/o Ravindra Singh, R/o Tengra
				758	Govt.	Dhanhar	56	Gair Mazarua Aam
			Total				9325	
			(8) Pritampur Thana No. 123	11	Govt.	Parti Kadim	566	Gair Mazarua Malik
				12	Private	Sahan	1214	Shiv Kumar Singh S/o Lt. Basdev Singh & Baijnath Singh S/o Dhanni Singh, R/o Pritampur
				14	Govt.	Parti	1194	Gair Mazarua Malik
				15	Govt.	Sahan	1578	Gair Mazarua Malik
				17	Govt.	Parti	2023	Gair Mazarua Malik
				83	Private	Parti	10	Ram Janki Thakur wadi/ President Ram Chandra Singh Yadav, R/o Barun
				84	Private	Dhanhar	20	Pravin Pandey, Rajesh Pandey, Ram Naresh Pandey, Sanjiv Pandey, Arvind Pandey S/o Nem Narayan Pandey, R/o Pritampur
				101	Private	Dhanhar	20	Jitendra Pandey S/o Sarju Pandey, R/o Pritampur
				102	Private	Dhanhar	20	Ram Janki Thakur wadi/ President Ram Chandra Singh Yadav, R/o Barun
				103	Private	Dhanhar	10	Ram Govind Pandey S/o Lt. Janki Pandey, R/o Pritampur
				104	Private	Dhanhar	10	Umesh Pandey S/o Lt. Vishundev Pandey, R/o Pritampur
				122	Private	Dhanhar	243	Ram Janki Thakur wadi/ President Ram Chandra Singh Yadav, R/o Barun

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				123	Private	Dhanhar	243	Umesh Pandey S/o Lt. Vishundev Pandey & Ravindra Pandey S/o Lt. Munni Pandey & Pankaj Pandey S/o Lt. Baikunth Pandey, R/o Pritampur
				125	Private	Dhanhar	101	Ram Janki Thakur wadi/ President Ram Chandra Singh Yadav, R/o Barun
				126	Private	Dhanhar	162	Ram Prasad Ram S/o Ghutur Ram, R/o Pritampur
				127	Private	Dhanhar + Ressi.	546	Smt. Munarika Devi W/o Lt. Nem Narayan Pandey & Raj Nandan Pandey, Suresh Pandey S/o Ram Chandra Pandey, R/o Pritampur
				128	Private	Ressi.	263	Sarju Singh, Dudheshwar Singh S/o Mishiri Singh, R/o Pritampur
				121	Private	Ressi.	81	Raj Nandan Pandey, Suresh Pandey S/o Lt. Ram Chandra Pandey, R/o Pritampur
				129	Private	Ressi.	405	Raj Nandan Pandey, Suresh Pandey S/o Lt. Ram Chandra Pandey, R/o Pritampur
				130	Govt.	Passage	384	Gair Mazarua Aam (Anabad Bihar Government)
				131	Private	Ressi.	182	Laldev Pandey S/o Lt. Baran Pandey, R/o Pritampur
				132	Private	Ressi.	364	Raj Kumar Singh, Ram Pukar Singh S/o Lt. Sukhdev Singh, R/o Pritampur
				133	Private	Ressi.	243	Mesh Narayan Pandey, Ram Keshwar Pandey, Ramadhar Pandey, Ram Bilash Pandey S/o Lt. Kishundev Pandey & Kripal Kishor, Sudhir Kishor S/o Lt. Ram Narayan Pandey, R/o Pritampur
				134	Private	Ressi.	485	Shiv Prasad Ram S/o Lt. Mutur Ram & Arvind Pandey, Praveen Pandey, Rajesh Pandey, Ram Naresh Pandey, Sanjiv Pandey S/o Lt. Nem Narayan Pandey & Ram Govind Pandey S/o Lt. Janki Pandey, R/o Pritampur
				135	Private	Ressi.	243	Raj Nandan Pandey, Suresh Pandey S/o Lt. Ram Chandra Pandey & Ramdoot Pandey, Jitendra Pandey, Anantu Pandey, Virendra Pandey, Umesh Pandey, Ravindra Pandey, Pankaj Pandey S/o Lt. Dhanuk Pandey, R/o Pritampur
				137	Private	Ressi.	243	Shiv Kumar Singh, Ram Kumar Singh S/o Lt. Basdev Singh, R/o Pritampur
				138	Private	Ressi.	303	Shiv Kumar Singh, Ram Kumar Singh S/o Lt. Basdev Singh & Shiv Keshwar Ram S/o Doman Ram & Swarup Ram, Babban Ram, Rajaram S/o Lt. Kanhai Ram & Ram Prasad Ram S/o Lt. Ghutur Ram, R/o Pritampur
				139	Private	Ressi.	233	Dev Nandan Ram, Naresh Ram, Ram Janam Ram, Gaya Ram S/o Lt. Rajkumar Ram & Rajesh Ram S/o Laldev Ram, R/o Pritampur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				140	Private	Ressi.	71	Ravindra Pandey S/o Lt. Munni Pandey & Anita Kunwar W/o Lt. Yogendra Pandey & Satyendra Ram S/o Yogeshwar Ram & Rajesh Ram S/o Laldev Ram, R/o Pritampur
				141	Private	Dhanhar	172	Raj Nandan Pandey, Suresh Pandey S/o Lt. Ram Chandra Pandey, R/o Pritampur
				142	Private	Ressi.	769	Ram Keshwar Pandey S/o Lt. Kishundev Pandey & Gulab Keshar Kunwar W/o Lt. Ram Prawesh & Fulvaso Kunwar W/o Lt. Anakshar Ram & Devbali Ram S/o Lt. Murla Ram & Manindra Kumar S/o Lt. Ram Prawesh & Manoj Kumar Pandey, Sudhir Kumar Pandey S/o Lt. Ram Narayan Pandey, R/o Pritampur
				148	Private	Ressi.	81	Bhadai Paswan S/o Nathuni Paswan & Dukhani Devi W/o Bhadai Paswan, R/o Pritampur
				146	Private	Ressi.	81	Gulab Keshar Kunwar W/o Lt. Ram Prawesh Ram, R/o Pritampur
				145	Private	Ressi.	233	Smt. Parwati Devi W/o Biadar Ram, R/o Pritampur
				143	Private	Ressi.	344	Kapikdev Ram S/o Lt. Bhuneshwar Ram, R/o Pritampur
				144	Private	Ressi.	394	Raj Ballabh Ram S/o Lt. Baldev Ram & Janeshwar Ram, Rameshwar Ram S/o Biadar Ram, R/o Pritampur
				288	Govt.	Dhanhar	1133	Gair Mazarua Malik
				289	Govt.	Dhanhar	324	Gair Mazarua Malik
				290	Govt.	Dhanhar	1012	Gair Mazarua Malik
				291	Govt.	Dhanhar	1113	Gair Mazarua Malik
				421	Govt.	Dhanhar	1406	Gair Mazarua Malik
				420	Govt.	Dhanhar	1051	Gair Mazarua Malik
				419	Govt.	Dhanhar	1032	Gair Mazarua Malik
				416	Govt.	Dhanhar	1942	Gair Mazarua Malik
				414	Govt.	Dhanhar	2427	Gair Mazarua Malik
				413	Private	Ressi.	1537	Ramdeni Mahto S/o Lt. Dhupan Mahto & Parwati Devi W/o Lt. Rameshwar Prasad, R/o Ratanpura, Barun & Dashrath Singh, Lagan Singh S/o Lt. Vibhishan Singh & Nijam Miyan S/o Lt. Md. Yakub Ansari, R/o Kans
				410	Govt.	Dhanhar	2104	Gair Mazarua Malik
				409	Private	Parti Jadid	324	Reetan Pandey, Kashi Pandey, Udho Pandey, Bhuwan Pandey S/o Nanhu Pandey, R/o Pritampur
				577	Govt.	Dhanhar	971	Gair Mazarua Malik
				576	Private	Commercial	162	Prasidh Narayan Singh S/o Lt. Harihar Singh, R/o Urdina
				575	Private	Commercial	243	Prasidh Narayan Singh S/o Lt. Harihar Singh, R/o Urdina
				574	Govt.	Dhanhar	405	Gair Mazarua Malik
				573	Private	Dhanhar	142	Ram Janki Thakur wadi/ President Ram Chandra Singh Yadav, R/o Barun
				572	Private	Dhanhar	202	Antu Pandey S/o Lt. Dhanuk Pandey, R/o Pritampur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				571	Private	Dhanhar	526	Antu Pandey S/o Lt. Dhanuk Pandey, R/o Pritampur
				570	Private	Dhanhar	293	Rup Narayan Singh S/o Lt. Jagdamba Singh, R/o Itahar
				567	Private	Ressi.	405	Umesh Pandey S/o Lt. Vishundev Pandey, R/o Pritampur
				564	Private	Dhanhar	324	Ram Janki Thakur wadi/ President Ram Chandra Singh Yadav, R/o Barun
				566	Govt. of India	Dhanhar	324	Keshre Hind
				565	Govt. of India	Dhanhar	647	Keshre Hind
				563	Private	Ressi.	81	Raj Nandan Pandey, Suresh Pandey S/o Lt. Ram Chandra Pandey, R/o Pritampur
				560	Govt. of India	Dhanhar	647	Keshre Hind
				559	Govt. of India	Dhanhar	809	Keshre Hind
				556	Govt.	Commercial	40	Gair Mazarua Malik
				557	Private	Dhanhar	486	Ram Govind Pandey S/o Lt. Janki Pandey & Arvind Pandey S/o Nem Narayan Pandey, R/o Pritampur
				555	Govt.	Bandh	243	Gair Mazarua Aam
				554	Govt.	Aahar	202	Gair Mazarua Aam
				558	Govt. of India	Dhanhar	971	Keshre Hind
				550	Private	Dhanhar	61	Ravindra Pandey S/o Lt. Munni Pandey & Anita Kunwar W/o Lt. Yogendra Pandey, R/o Pritampur
				553	Private	Dhanhar	405	Ram Janki Thakur wadi/ President Ram Chandra Singh Yadav, R/o Barun
				552	Private	Dhanhar	445	Raj Nandan Pandey, Suresh Pandey S/o Lt. Ram Chandra Pandey & Ram Deep Pandey, Virendra Pandey S/o Lt. Paras Pandey, R/o Pritampur
				551	Private	Dhanhar	40	Ghura Ram, Gudar Ram S/o Baudh Paswan & Lallan Paswan, Ramjee Paswan, Rajendra Paswan, Basdev Paswan, Munarik Paswan, Sahdev Paswan S/o Lt. Bigan Paswan, R/o Pritampur
				542	Govt.	Passage	263	Gair Mazarua Aam
				540	Govt.	Ressi.	951	Gair Mazarua Malik
				537	Private	Dhanhar	20	Arvind Pandey, Pravin Pandey, Rajesh Pandey, Ram Naresh Pandey, Sanjiv Pandey S/o Lt. Nem Narayan Pandey & Mathura Pandey S/o Lt. Chandra Dev Pandey, R/o Pritampur
				536	Private	Dhanhar	40	Mathura Pandey, Kapildev Pandey, Ram Prawesh Pandey S/o Lt. Chandra Dev Pandey, R/o Pritampur
				535	Private	Dhanhar	61	Arvind Pandey, Pravin Pandey, Rajesh Pandey, Ram Naresh Pandey, Sanjiv Pandey S/o Lt. Nem Narayan Pandey & Ram Govind Pandey S/o Lt. Janki Pandey, R/o Pritampur
				534	Govt.	Dhanhar	40	Gair Mazarua Malik

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				533	Private	Dhanhar	293	Awdhesh Pandey S/o Lt. Suryadev Pandey & Mantu Pandey, Ranjeet Pandey S/o Lt. Balswarup Pandey, R/o Pritampur
				532	Private	Dhanhar	253	Nathuni Ram, Naresh Ram S/o Lt. Aliyar Ravidas & Chandra Mani Kunwar W/o Lt. Suresh Ram, R/o Pritampur
				470	Private	Dhanhar	263	Antu Pandey S/o Lt. Dhanuk Pandey, R/o Pritampur
				468	Private	Dhanhar	607	Pankaj Pandey, Rakesh Pandey S/o Lt. Baikunth Pandey, R/o Pritampur
				466	Private	Dhanhar	425	Awdhesh Pandey S/o Lt. Suryadev Pandey & Mantu Pandey, Ranjeet Pandey S/o Lt. Balswarup Pandey, R/o Pritampur
				465	Private	Dhanhar	192	Arvind Pandey, Pravin Pandey, Rajesh Pandey, Ram Naresh Pandey, Sanjiv Pandey S/o Lt. Nem Narayan Pandey, R/o Pritampur
				464	Private	Dhanhar	364	Ravindra Pandey S/o Lt. Munni Pandey & Anita Kunwar W/o Lt. Yogendra Pandey, R/o Pritampur
				463	Govt.	Dhanhar	81	Gair Mazarua Malik
				460	Private	Dhanhar	91	Awdhesh Pandey S/o Lt. Suryadev Pandey & Mantu Pandey, Ranjeet Pandey S/o Lt. Balswarup Pandey, R/o Pritampur
				459	Private	Dhanhar	10	Umesh Pandey S/o Lt. Vishundev Pandey, R/o Pritampur
				433	Govt.	Dhanhar	1294	Gair Mazarua Malik
				432	Govt.	Dhanhar	142	Gair Mazarua Malik
				431	Govt.	Dhanhar	121	Bakast Malik
				430	Govt.	Ressi.	1578	Gair Mazarua Malik
				429	Govt.	Dhanhar	384	Gair Mazarua Malik
				428	Private	Dhanhar	243	Ram Charittar Singh, Ram Krit Singh, Ram Jag Singh S/o Lt. Sharan Singh & Ram Lagan Singh, Dashrath Singh S/o Lt. Vibhishan Singh, R/o Kans
				427	Govt.	Dhanhar	283	Gair Mazarua Malik
				426	Govt.	Pind	142	Gair Mazarua Aam
				425	Govt.	Dhanhar	1214	Gair Mazarua Malik
				82	Private	Dhanhar	10	Umesh Pandey S/o Lt. Vishundev Pandey, R/o Pritampur
				65	Govt.	Bandh	10	Gair Mazarua Aam
				549	Private	Dhanhar	20	Ravindra Pandey S/o Lt. Munni Pandey & Anita Kunwar W/o Lt. Yogendra Pandey, R/o Pritampur
				467	Govt. of India	Dhanhar	890	Keshre Hind
				458	Govt.	Dhanhar	324	Gair Mazarua Malik
				361	Private	Parti Jadid	40	Mukku Pandey, Brahm Pandey S/o Lt. Kuldeep Pandey, R/o Pritampur
				436	Govt.	Ressi.	484	Gair Mazarua Malik
Total							49146	
			(9) Kans	114	Private	Dhanhar	1376	Munarik Singh urf Dwarika Singh S/o Lt. Mauji Singh, R/o Kans

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Thana No. 116	108	Private	Commercial	587	Ram Prawesh Yadav S/o Lt. Ramdhari Yadav & Naresh Yadav, Suresh Yadav, Jagdeesh Yadav, Vindeshwari Yadav S/o Lt. Ramdas Yadav, R/o Kans
				107	Private	Parti + Ressi.	405	Munarik Singh urf Dwarika Singh S/o Lt. Mauji Singh & Smt. Rita Devi W/o Vijay Kumar Singh & Rajaram Singh S/o Lt. Tulsi Singh, R/o Kans
				106	Private	Dhanhar	1983	Tapeshwar Yadav S/o Lt. Shankar Yadav & Rajaram Yadav S/o Lt. Tulsi Yadav, R/o Kans
				105	Govt.	Bandh	223	Gair Majarua Aam, Bihar Government
				104	Private	Dhanhar	415	Tapeshwar Yadav S/o Lt. Shankar Yadav & Rajaram Yadav S/o Lt. Tulsi Yadav, R/o Kans
				101	Govt.	Dhanhar	809	Gair Majarua Malik
				83	Govt.	Bandh	1861	Gair Majarua Aam, Bihar Government
				120	Private	Dhanhar	566	Rajaram Singh S/o Lt. Tulsi Singh & Tapeshwar Yadav S/o Lt. Shankar Yadav & Dashrath Yadav, Ram Lagan Yadav S/o Lt. Vibhishan Yadav, R/o Kans
				121	Private	Commercial	486	Rajaram Singh S/o Lt. Tulsi Singh & Tapeshwar Yadav S/o Lt. Shankar Yadav & Dashrath Yadav, Ram Lagan Yadav S/o Lt. Vibhishan Yadav, R/o Kans & Ambuj Singh S/o Lt. Sahab Dayal Singh, R/o Nasariganj, Rohtas, at Present Add. Kans
				122	Govt.	Commercial	202	Gair Majarua Malik
				123	Private	Commercial	324	Asgar Ansari S/o Ishak Ansari, R/o Jogiya
				119/ 115	Govt.	Dhanhar	2747	Gair Majarua Malik
				126	Govt.	Parti	610	Gair Majarua Malik
				128	Govt.	Bandh	81	Gair Majarua Aam, Bihar Government
				125	Private	Ressi.	809	Jawahir Mahto S/o Lt. Faguni Mahto & Rajeshwar Mahto S/o Lt. Sukhari Mahto, R/o Kans
				129	Private	Ressi.	566	Smt. Indra Kurwar W/o Lt. Ashok Prasad Singh & Damodar Prasad S/o..... R/o Kans & Isha Ansari S/o Md. Hussain Ansari, R/o Jogiya & Suman Prasad S/o Muneshwar Prasad & Jitendra Yadav S/o Pancham Yadav & Ram Adit Singh S/o Lt. Pooran Singh, R/o Kans
				130	Private	Ressi.	530	Suman Prasad Gupta S/o Munnu Babu, R/o Jogiya & Ramkrit Singh, Ram Charitra Singh S/o Lt. Pooran Singh, R/o Kans
				131	Govt.	Bandh	405	Gair Majarua Aam, Bihar Government
				132	Private	Commercial	810	Awadh Singh S/o Lt. Deni Singh & Ram Prawesh Singh S/o Lt. Ramdhari Singh & Ram Charitra Singh, Ramkrit Singh S/o Lt. Pooran Singh, R/o Kans

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				133	Private	Commercial	810	Ram Charitra Singh, Ramkrit Singh S/o Lt. Pooran Yadav & Ram Prawesh Singh S/o Lt. Ramdhari Singh, R/o Kans & Awadh Singh S/o Lt. Deni Singh, R/o Jankop
Total							16605	
			(10) Jankop Thana No. 118	1201	Private	Dhanhar	182	Madar Mahto S/o Lt. Bal Govind Mahto & Rameshwar Mahto S/o Ramdev Mahto & Laxman Mehta, Rakshaia Mehta, Parmeshwar Mahto S/o Lt. Sukhdev Mehta & Lakhan Mehta S/o Lt. Shivcharan Mehta & Ganesh Mehta S/o Lt. Devcharan Mehta, R/o Kans
				1198	Govt.	Road	243	Gair Majarua Aam
				1209	Private	Dhanhar	243	Laxuman Yadav, Dhaneshar Yadav, Maheshar Yadav S/o Lt. Kunj Bihari Yadav & Ramprवेश Yadav S/o Lt. Ramdhari Yadav & Ramchandra Yadav, Rajnath Yadav S/o Lt. Tetar Yadav & Kaushal Kumar Yadav S/o Padarath Yadav, R/o Kans
				1211	Private	Dhanhar	162	Ram Charitra Yadav S/o Lt. Puran Yadav, R/o Kans
				1224	Private	Dhanhar	243	Bhola Mahto, Lakhichand Mahto, Shivpujan Mahto, Laxmi Mahto S/o Lt. Sukhdev Mahto, R/o Kans
				1147	Private	Dhanhar	202	Rameshwar Mahto S/o Lt. Ramdev Mahto & Lakhan Mahto S/o Lt. Shivcharan Mahto, R/o Kans & Sohan Mahto S/o Lt. Rupnarayan Mahto, R/o Ratanpur
				1145	Private	Parti	243	Dasrath Yadav, Ramlakhan Yadaav S/o Lt. Vibhishan Yadav, R/o Kans
				1144	Private	Parti	101	Bilash Mahto, Bhola Mahto, Laxuman Mahto S/o Lt. Sukan Mahto, R/o Kans
				1143	Private	Parti	142	Mahmood Alam S/o Israel, R/o Jogia
				1140	Private	Parti	113	Moti Lal Yadav S/o Keswar Yadav & Rupnaryan Mahto S/o Lt. Mahraj Mahto R/o Jankop
				1141	Private	Bhat	121	Ramdhani Mahto S/o Lt. Manjar Mahto & Moti Lal Yadav, Badri Yadav S/o Lt. Keshwar Yadav & Mahabir Yadav, Krishna Yadav S/o Lt. Raghu Yadav & Ramchandra Yadav, Naresh Yadav S/o Lt. Kishun Yadav, R/o Jankop
				1139	Private	Dhanhar	384	Ramnaresh Yadav S/o Lt. Ramgati Yadav & Munarik Yadav S/o Lt. Mauji Yadav, R/o Kans
				1132	Private	Dhanhar	324	Ramprasad Mistri S/o Lt. Segan Mistri, R/o Jankop
				1265	Private	Dhanhar	809	Omprakash Khemka S/o Lt. Omkar Mal, R/o Aurangabad
				1124	Private	Dhanhar	132	Omprakash Khemka S/o Lt. Omkar Mal, R/o Aurangabad
				1123	Private	Dhanhar	142	Omprakash Khemka S/o Lt. Omkar Mal, R/o Aurangabad
				1121	Private	Dhanhar	91	Arjun Mehta S/o Lt. Chanarik Mehta, R/o Jankop

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1269	Private	Dhanhar	61	Shivnath Singh S/o Lt. Rameshwar Singh, Satyendra Narayan Singh S/o Lt. Bishun Singh, R/o Sanathua
				1120	Private	Dhanhar	162	Shivnath Singh S/o Lt. Rameshwar Singh, Satyendra Narayan Singh S/o Lt. Bishun Singh, R/o Sanathua
				1299	Private	Commercial & Parti	121	Nawal Singh, Krishna Dev Singh S/o Lt. Kesho Singh & Prashidh Singh S/o Lt. Jageshwar Singh, R/o Jankop
				1300	Private	Commercial	202	Smt. Manaka Devi W/o Surith Kumar Singh & Smt. Urmila Devi W/o Sidheshwar Kumar Singh & Prasidh Singh S/o Lt. Jageshwar Singh, R/o Jankop
				1298	Private	Dhanhar	344	Sunil Kumar, Subodh Kumar, Shailendra Kumar S/o Lt. Lallu Prasad, R/o Jogia
				1426	Govt.	Commercial	465	Bakast Malik
				1424	Govt.	Parti	101	Bakast Malik
				1427	Govt.	Commercial	445	Bakast Malik
				1428	Govt.	Dhanhar	142	Bakast Malik
				1420	Private	Parti	728	Kshitij Ranjan, Anil Kumar S/o Mukhtal Singh, R/o Hal Club Road, Aurangabad & Dineshwar Ram S/o Lt. Dev Dharan Paswan, R/o Jankop
				1419	Private	Dhanhar	283	Nilmani Kunwar W/o Lt. Raksha Singh & Kishunchand Sav S/o Lt. Chhedi Lal Sav, R/o Jankop
				1440	Govt.	Ressi.	405	Bakast Malik
				1441	Govt.	Bhit	162	Bakast Malik
				1443	Govt.	Commercial	291	Bakast Malik
				1457	Govt.	Commercial	10	Bakast Malik
				1458	Govt.	Commercial	534	Bakast Malik
				1459	Govt.	Commercial	340	Bakast Malik
				1465	Private	Commercial	243	Yamuna Mehta, Sarju Mehta, Tribeni Mehta S/o Lt. Naresh Mehta, R/o Sohar Bigaha, Chandauli
				1464	Private	Commercial	40	Yamuna Mehta, Sarju Mehta, Tribeni Mehta S/o Lt. Naresh Mehta, R/o Sohar Bigaha, Chandauli
				1470	Private	Dhanhar	307	Surith Kumar Singh S/o Lt. Ramdeni Singh, R/o Jankop & Uday Kumar S/o Rambriksh Chauhan R/o Munshi Bigaha & Jitendra Kumar S/o Surya Dev Chauhan, R/o Jankop
				1471	Private	Dhanhar	81	Suryadev Noniya S/o Lt. Dukhi Noniya & Bharat Gupta, Ramchandru Gupta, Omprakash Gupta, Sattan Gupta S/o Lt. Firangi Gupta, R/o Jankop
				1543	Private	Commercial	242	Surith Kumar Singh S/o Lt. Ramdeni Singh, R/o Jankop
				1545	Private	Dhanhar	121	Jodhi Baitha S/o Gopi Baitha & Ashok Baitha S/o Mathura Baitha, R/o Jankop
				1546	Private	Dhanhar	142	Ram Prawesh Rajak, Naresh Rajak S/o Lt. Ganpat Rajak, R/o Jankop
				1548	Private	Bhit	172	Ganesh Mehta, Sundar Mehta, Mundar Mehta, Kamta Mehta, Janardan Mehta S/o Lt. Bhekh Mehta, R/o Jankop

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1469	Private	Dhanhar	101	Chandradeep Mistri S/o Lt. Jagesar Mistri, R/o Jankop
				1133	Private	Dhanhar	1132	Ram Charitra Singh, Ram Krit Singh, Ramjag Singh S/o Lt. Pooran Yadav, R/o Kans
				781	Govt.	River	263	Bihar Government, Sarvasadharan
				782	Govt.	Bandh	162	Gair Majarua Aam
			Total				15713	
			(11) Chanda uli Thana No.236	625	Private	Ressi.	260	Saryu Singh S/o Ram Naresh Singh, R/o Sohar Bigha
				626	Private	Bhit	192	Saryu Singh S/o Ram Naresh Singh, R/o Sohar Bigha
				638	Private	Bhit	243	Rajendra Mahto, Nandu Mahto, Brij Mohan Mahto S/o Awadh Bihari Mahto, R/o Sohar Bigha
				637	Private	Bhit + Parti	162	Jamuna Prasad S/o Ram Naresh Prasad, R/o Sohar Bigha
				640	Private	Bhit + Parti	384	Kamta Mahto S/o Lt. Doman Mahto, R/o Sohar Bigha
				644	Private	Bhit + Parti	171	Rameshwar Prasad Varma S/o Lt. Shyam Bihari Mehta, R/o Sohar Bigha
				643	Private	Bhit + Parti	142	Sukhlal Mehta, Saryu Mehta S/o Lt. Ganeshi Mehta & Harvansh Mehta S/o Lt. Jagdish Mehta & Suman Kumar S/o Lt. Vijay Mehta R/o Sohar Bigha
				646	Private	Bhit + Parti	192	Kamta Mahto S/o Lt. Doman Mahto R/o Sohar Bigha
				655	Private	Bhit + Parti	293	Rameshwar Prasad Varma S/o Lt. Shyam Bihari Mehta & Bali Mehta S/o Lt. Sukhdev Mehta R/o Sohar Bigha
				654	Private	Bhit + Parti	344	Sitaram Mehta, Surendra Mehta S/o Lt. Raghubir Mehta, R/o Sohar Bigha & Gupteshwar Mehta, Munna Mehta, Sushil Mehta S/o Judagir Mehta, R/o Chandauli
				650	Private	Bhit + Parti	243	Rambaran Mehta, Kashinath Mehta, Baiju Mehta S/o Lt. Ramdev Mehta, R/o Sohar Bigha
				651	Private	Bhit + Parti	223	Saryu Singh S/o Ram Naresh Singh, & Ram Pravesh Mehta S/o Ramratan Mehta, R/o Sohar Bigha
				704	Private	Bhit + Parti	97	Sukhlal Mehta, Jagdish Mehta S/o Lt. Ganeshi Mehta, R/o Sohar Bigha
				705	Private	Bhit + Parti	142	Sukhlal Mehta, Saryu Mehta, Jagdish Mehta S/o Lt. Ganeshi Mehta, R/o Sohar Bigha
				708	Private	Bhit + Parti	51	Kamta Mahto S/o Lt. Doman Mahto, R/o Sohar Bigha
				575	Private	Bhit + Parti	81	Kamta Mahto S/o Lt. Doman Mahto, R/o Sohar Bigha
				574	Private	Bhit + Parti	202	Kailash Mahto S/o Lt. Roop Mahto, R/o Sohar Bigha
				573	Private	Bhit	283	Dhaneshar Mehta, Rajendra Mehta S/o Lt. Thakur Mehta, R/o Sohar Bigha
				713	Private	Bhit	40	Ram Badan Mahto S/o Lt. Bhola Mahto, R/o Sohar Bigha
				714	Private	Bhit	75	Arjun Mehta, Bhim Mehta S/o Lt. Dhari Mehta, R/o Sohar Bigha

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				716	Private	Bhit	263	Saryu Singh S/o Lt. Ram Naresh Singh, R/o Sohar Bigha
				718	Private	Bhit + Parti	162	Rambaran Mahto, Kashi Mahto, Baijnath Mahto S/o Lt. Ramdev Mahto & Basudev Mahto, Satyendra Mahto, Birendra Mahto S/o Lt. Krit Mahto, R/o Sohar Bigha
				785	Private	Bhit + Parti	202	Arjun Mehta, Bhim Mehta S/o Lt. Dhari Mehta, R/o Sohar Bigha
				786	Private	Bhit + Parti	445	Krishna Mahto, Bhagwan Mahto, Satyendra Mahto S/o Lt. Faguni Mahto, R/o Sohar Bigha
				788	Govt.	Passage	75	Gair Mazaryua Aam
				789	Govt.	Karha	45	Gair Mazaryua Aam
				790	Govt.	Passage	405	Gair Mazaryua Aam
				866	Private	Bhit + Parti	243	Sukhlal Mehta, Saryu Mehta, Jagdish Mehta S/o Lt. Ganeshi Mehta R/o Sohar Bigha
				867	Private	Bhit + Parti	131	Suman Mehta S/o Vijay Mehta & Awadhesh Mehta S/o Rajdev Mehta, R/o Sohar Bigha
				868	Private	Bhit	162	Mohan Mehta, Bishnupat Mehta, Pryag Mehta, Bishwanath Mehta, Chhedi Mehta S/o Lt. Ram Jatni Mehta & Chhedi Mahto S/o Lt. Lagan Mahto R/o Sohar Bigha
				862	Private	Bhit	60	Awadhesh Mehta S/o Rajdev Mehta & Rambadan Mehta S/o Bhoia Mehta, R/o Sohar Bigha
				863	Private	Bhit	223	Yamuna Prasad S/o Ram Naresh Prasad & Ram Pravesh Mahto, Awadhesh Mahto, Rambadan Mahto S/o Lt. Ram Ratan Mahto, R/o Sohar Bigha
				870	Private	Bhit	81	Pachu Mehto S/o Lt. Mangar Mahto, R/o Sohar Bigha
				878	Private	Bhit	769	Jagdish Singh S/o Lt. Akhaj Singh, R/o Chandauli & Yamuna Prasad S/o Ram Naresh Prasad, R/o Sohar Bigha
				879	Private	Bhit	324	Jagdish Singh S/o Lt. Akhaj Singh & Tapeswar Singh S/o Lt. Jagdish Singh, R/o Chandauli
				618	Govt.	Aahar	404	Gair Mazaryua Aam
				617	Private	Bhit	71	Ram Janam Prasad, Shatrughan Prasad S/o Lt. Mathura Mahto, R/o Sohar Bigha
				619	Private	Bhit	61	Jagdish Singh S/o Lt. Akhaj Singh, R/o Chandauli
				615	Private	Bhit	384	Saryu Mehta S/o Naresh Mehta & Awadhesh Mehta S/o Rajdev Mehta & Kamdev Mehta S/o Lt. Rajaram Mehta, R/o Sohar Bigha
				603	Private	Bhit	60	Chhedi Mahto S/o Lt. Lagan Mahto & Mohan Mehta S/o Lt. Ram Jatni Mehta, R/o Sohar Bigha

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				604	Private	Bhit	212	Sitaram Mehta, Surendra Mehta S/o Lt. Raghubir Mehta & Gupteshwar Mehta, Munna Mehta, Sushil Mehta S/o Lt. Judagir Mehta & Pachu Mehta S/o Lt. Mangar Mehta R/o Sohar Bigha
				605	Private	Bhit	61	Saryu Mehta, Jagdish Mehta, Jaymangal Mehta S/o Lt. Ganeshi Mehta, R/o Sohar Bigha
				606	Private	Bhit	243	Narayan Mehta S/o Lt. Tileshwar Mehta, R/o Sohar Bigha & Smt. Usha Devi W/o Rajendra Prasad Gupta, R/o Shahpur. Aurangabad
				598	Private	Dhanhar	486	Kamdev Mahto, Parmanand Mahto, Ajai Mahto S/o Lt. Raja Ram Mahto, R/o Sohar Bigha
				646	Private	Bhit	81	Rajdev Mehta, Rambadan Mehta S/o Lt. Bhola Mehta & Ram Pravesh Mehta, Suresh Mehta S/o Lt. Ramratan Mehta, R/o Sohar Bigha
				647	Private	Bhit	60	Rajdev Mehta, Rambadan Mehta S/o Lt. Bhola Mehta & Ram Pravesh Mehta, Suresh Mehta S/o Lt. Ramratan Mehta, R/o Sohar Bigha
				648	Private	Parti	101	Dhaneshar Mehta, Rajendra Mehta S/o Lt. Thakur Mehta, R/o Sohar Bigha
				591	Private	Parti	40	Dhaneshar Mehta, Rajendra Mehta S/o Lt. Thakur Mehta, R/o Sohar Bigha
				650	Private	Parti	61	Shivdhari Mahto S/o Lt. Mahipat Mahto & Krishna Mahto, Satyendra Mahto, Bhagwan Mahto S/o Lt. Faguni Mahto, R/o Sohar Bigha
				587	Private	Bhit	194	Mohan Mehta, Bishnupat Mehta, Pryag Mehta, Bishwanath Mehta S/o Lt. Ram Jatni Mehta & Awadh Bihari Mahto S/o Lt. Surya Mahto & Mosafir Mahto, Pyare Mahto S/o Lt. Nanhak Mahto & Pradip Mahto S/o Lt. Ramapat Mahto, R/o Sohar Bigha
				580	Private	Parti	130	Ram Pravesh Mehta, Awadhesh Mehta, Rambadan Mehta S/o Ram Ratan Mehta, R/o Sohar Bigha
				581	Private	Parti	20	Basudev Mahto S/o Lt. Ramkrit Mahto, R/o Sohar Bigha
				586	Private	Parti	81	Jitwahan Mahto, Ramnandan Mahto S/o Lt. Shankar Mahto, R/o Sohar Bigha
				582	Govt.	Parti	293	Bakast Malik
				570	Govt.	Bhit	101	Bakast Malik
				571	Govt.	Bhit	194	Bakast Malik
				565	Govt.	Bhit	81	Bakast Malik
				562	Govt.	Bhit	121	Bakast Malik
				561	Govt.	Bhit	61	Bakast Malik
				560	Govt.	Bhit	101	Bakast Malik
				559	Govt.	Bhit	162	Bakast Malik
				557	Govt.	Bhit	486	Bakast Malik
				833	Govt.	Bhit	405	Bakast Malik
				834	Govt.	Bhit	162	Bakast Malik

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				862	Private	Bhit	162	Awadhesh Mehta S/o Rajdev Mehta & Rambadan Mehta S/o Bhola Mehta, R/o Sohar Bigha
				859	Private	Bhit	172	Rambaran Mahto, Kashi Nath Mahto, Baiju Mahto S/o Lt. Ramdev Mahto R/o Sohar Bigha
				857	Private	Bhit	394	Yadubansh Singh, Satyendra Singh, Jitendra Singh S/o Lt. Kauleshwar Singh, R/o Jankop & Kamta Mahto S/o Lt. Doman Mahto, R/o Sohar Bigha
				854	Private	Bhit	324	Kamta Mahto S/o Lt. Doman Mahto, R/o Sohar Bigha
				880	Private	Bhit	121	Naresh Singh, Arjun Singh, Suresh Singh S/o Lt. Mahadev Singh & Vijay Singh S/o Lt. Saryu Singh, R/o Chandauli
				881	Private	Parti	142	Suman Singh S/o Lt. Rajdev Singh, R/o Sohar Bigha & Nagdev Singh, Bishnupat Singh S/o Lt. Dipan Singh, R/o Chandauli
				900	Private	Dhanhar	162	Nagdev Singh, Bishnupat Singh S/o Lt. Dipan Singh, R/o Chandauli & Suman Singh S/o Lt. Rajdev Singh R/o Sohar Bigha
				899	Private	Dhanhar	526	Yadubansh Singh, Satyendra Singh, Jitendra Singh S/o Lt. Kauleshwar Singh, R/o Jankop & Arun Kumar Singh S/o Lt. Raghubansh Singh, R/o Chandauli
				624	Private	Dhanhar	175	Rampravesh Varma S/o Ramratan Mahto & Awadhesh Mahto S/o Rajdev Mahto & Rambadan Mahto S/o Bhola Mahto, R/o Sohar Bigha
				639	Private	Dhanhar	192	Yadubansh Singh, Satyendra Singh, Jitendra Singh S/o Lt. Kauleshwar Singh, R/o Jankop & Arun Kumar Singh S/o Lt. Raghubansh Singh, R/o Chandauli
				564	Govt.	Parti	91	Bakast Malik
				717	Private	Dhanhar	101	Kailash Mahto S/o Lt. Roop Mahto, R/o Sohar Bigha
				869	Private	Dhanhar	162	Sidhari Mahto S/o Lt. Mahipat Mahto, R/o Sohar Bigha
				558	Govt.	Dhanhar	81	Bakast Malik
				579	Private	Dhanhar	81	Unknown
			Total				15233	
		2. Auran gabad	(1) Babhandih Thana No.266	808	Private	Dhanhar	1699	Satish Kumar S/o Baijnath Singh, R/o Babhandih
				816	Private	Dhanhar	350	Rambilash Singh, Ramjanam Singh S/o Lt. Laldhari Singh, R/o Babhandih
				817	Private	Dhanhar	566	Rajesh Singh S/o Lt. Jai Govind Singh, R/o Babhandih
				820	Private	Dhanhar	101	Sudhir Singh S/o Ramdev Singh & Ram Bachan singh S/o Lt. Munshi Singh, R/o Babhandih & Manoj Prasad Gupta, Madan Prasad Gupta S/o Ramdas, R/o Telhara, Amba

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(2) Manjura hi Thana No. 265	993	Private	Dhanhar	566	Chandrika Singh S/o Jagan Singh & Lallan Singh S/o Briksh Singh, R/o Manjura hi
				931	Govt.	Passage	620	Gair Mazaryua Aam
				699	Private	Resi.	607	Baikunth Singh S/o Lt. Ram Bharan Singh, R/o Manjura hi
				698	Private	Resi.	566	Gair Mazura Malik
				1241	Private	Commercial	795	Suresh Singh, Umesh Singh, Dinesh Singh, Dilip Singh S/o Pradima Singh, R/o Manjura hi & Maksudan Singh S/o Lt. Indradev Singh, R/o Manjura hi
				1240	Private	Commercial	250	Suresh Singh, Umesh Singh, Dinesh Singh, Dilip Singh S/o Pradima Singh & Urmila Devi W/o Keshnath Singh, R/o Manjura hi
				1255	Govt.	Commercial	1163	Gair Mazura Malik
				1256	Govt.	Commercial	749	Growth Center
				1305	Govt.	Commercial	1020	Gair Mazura Malik
			Total				6336	
			(3) Jasoeya, Chadar 1 Thana No.264	407	Private	Commercial	1254	Binod Sharma S/o Satyadev Sharma, R/o Sharma petrolpump, Aurangabad & Arjun Kahar, Suraj Kahar S/o Bhikhar Kahar, R/o Manjura hi
				408	Govt.	Dhanhar	2185	Gair Mazarua Malik
				405	Govt.	Pind	910	Gair Mazarua Aam
				391	Private	Dhanhar	516	Smt. Savitri Devi W/o Ambika Prasad Singh, R/o Laxman Bigha
				390	Private	Dhanhar	1699	Smt. Kanti Singh W/o Binod Kumar Singh & Rajendra Singh S/o Lt. Shivrindan Singh & Pramod Kumar Singh, Vinod Kumar Singh, Arvind Kumar Singh S/o Rajendra Prasad Singh, R/o Nega Bigha, Aurangabad & Vijay Thakur, Ajai Thakur, Avinas Thakur S/o Lt. Nathuni Thakur, R/o Jasoeya, Aurangabad
				389	Private	Dhanhar	627	Smt. Sandhya Singh W/o Pramod Kumar Singh & Smt. Nibha Singh W/o Arvind Kumar Singh & Smt. Sita Devi W/o Rajendra Prasad Singh, R/o Nega Bigha, Aurangabad & Narayan Thakur S/o Phaujadar Thakur, R/o Jasoeya
				388	Private	Parti	960	Narayan Thakur S/o Phaujadar Thakur, R/o Jasoeya
				387	Private	Parti	1305	Dhanajay Singh, Ramashish Singh S/o Satya Narayan Singh, R/o Jasoeya & Lilawati Kunwar W/o Lt. Rajeshwar Singh, R/o Katharua, Aurangabad
				386	Private	Dhanhar	486	Gupteshwar Narayan Singh S/o Chandrika Singh, R/o Jasoeya
				385	Govt.	Dhanhar	971	Bakast Malik

1	2	3	4	5	6	7	8	9.
				384	Private	Ressi.	1479	Ravishankar Singh, Shashi Shankar Singh S/o Rampreman Singh, R/o Rajpur, Aurangabad & Smt. Usha Singh S/o Rajan Kumar Singh, R/o Adarsh Colony Aurangabad & Ramparikha Singh, Ramrekha Singh S/o Rajdev Singh & Dhanmanik Kurwar W/o Lt. Rambilash Singh, R/o Jasoeya & Rajiv Kumar Singh S/o Lt. Mahesh Singh, R/o Sanathua, Magadh Gaish Agency Aurangabad & Gopal Narayan Singh S/o Nageshwar Singh, R/o Bharthauli
				413	Govt.	Pind	162	Gair Mazaryua Aam
				414	Govt.	Boundary	980	Bihar Indistial Area, Development Authority, East Gandhi Maidan Udyog Bhawan Patna, (BIADA)
				412	Govt.	Pind	1821	Gair Mazaryua Aam
				428	Private	Boundary	227	Bihar Indistial Area, Development Authority, East Gandhi Maidan Udyog Bhawan Patna, (BIADA)
				429	Private	Boundary	200	Bihar Indistial Area, Development Authority, East Gandhi Maidan Udyog Bhawan Patna, (BIADA)
				431	Private	Boundary	260	Bihar Indistial Area, Development Authority, East Gandhi Maidan Udyog Bhawan Patna, (BIADA)
				432	Govt.	Pind	20	Gair Mazaryua Aam
				434	Govt.	Boundary	617	Bihar Indistial Area, Development Authority, East Gandhi Maidan Udyog Bhawan Patna, (BIADA)
				435	Govt.	Boundary	111	Bihar Indistial Area, Development Authority, East Gandhi Maidan Udyog Bhawan Patna, (BIADA)
				436	Govt.	Boundary	101	Bihar Indistial Area, Development Authority, East Gandhi Maidan Udyog Bhawan Patna, (BIADA)
				441	Govt.	Boundary	130	Bihar Indistial Area, Development Authority, East Gandhi Maidan Udyog Bhawan Patna, (BIADA)
				442	Govt.	Boundary	162	Bihar Indistial Area, Development Authority, East Gandhi Maidan Udyog Bhawan Patna, (BIADA)
				443	Govt.	Boundary	364	Bihar Indistial Area, Development Authority, East Gandhi Maidan Udyog Bhawan Patna, (BIADA)
				437	Govt.	Pind	81	Gair Mazaryua Aam
				396	Govt.	Dhanhar	40	(Bhoo-Hadbandi) Gopal Narayan Singh S/o Nageshwar Singh, R/o Jasoeya
				382	Govt.	Dhanhar	2845	(Bhoo-Hadbandi) Gopal Narayan Singh S/o Nageshwar Singh, R/o Jasoeya
				383	Govt.	Passage	1700	Gair Mazaryua Aam
			Total				22213	
			Chadar-2	480	Govt.	Bandh	1497	Gair Mazaryua Aam
				481	Private	Dhanhar	2030	Gupteshwar Narayan Singh S/o Chandrika Singh, R/o Jasoeya

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				479	Govt.	Commercial	815	Bihar Industrial Area, Development Authority, East Gandhi Maidan Udyog Bhawan Patna, (BIADA)
				559	Govt. of India	Dhanhar	405	Keshre Hind
				626	Govt. of India	Dhanhar	283	Keshre Hind
				627	Govt. of India	Dhanhar	221	Keshre Hind
				628	Govt. of India	Dhanhar	250	Keshre Hind
				367	Govt.	Commercial	1012	Gair Mazarua Malik
				863	Govt.	Dhanhar	1720	(Bhoo- Hadbandi) Krishna Narayan Singh S/o Nageshwar Singh, R/o Bharathauli
				865	Private	Commercial	980	Smt. Uttam Devi S/o Shankar Singh R/o Jasoeya & Anil Kumar Khemka, Sunil Kumar Khemka S/o Baij Nath Prasad Khemka, R/o New Area, Mahrajganj Aurangabad & Ram Suresh Singh S/o Ramratan Singh R/o Jasoeya & Krishna Narayan Singh S/o Nageshwar Singh, R/o Bharathauli
				900	Private	Commercial	263	Smt. Uttam Devi S/o Shankar Singh & Shankar Singh S/o Nand Lal Singh, R/o Jasoeya & Gopal Narayan Singh S/o Ramprasad Singh, R/o Jasoeya
				902	Private	Resi.	185	Ramdas Thakur, Bhagwan Das Thakur, Sita Ram Thakur S/o Ram Tahal Thakur, R/o Jasoeya
				903	Private	Resi.	194	Ram Suresh Singh S/o Lt. Ram Ratan Singh, R/o Jasoeya
				905	Private	Dhanhar	109	Sunil Kumar Khemka S/o Lt. Baijnath Prasad Khemka, R/o New Area Mahrajganj & Ram Ashish Singh S/o R/o Raipura
				906	Private	Dhanhar	283	Ram Suresh Singh S/o Lt. Ram Ratan Singh, R/o Jasoeya
				907	Govt.	Passage	202	Gair Mazarua Aam
				908	Private	Resi.	445	Krishna Narayan Singh S/o Nageshwar Singh, R/o Bharthauli
				909	Private	Resi.	250	Krishna Singh, Sudarshan Singh, Ram Binay Singh, Ranjit Singh, Sumant Singh S/o Lt. Shivjanam Singh, R/o Jasoeya
				910	Private	Resi.	162	Dwarika Singh S/o Lt. Pragas Singh & Murl Singh S/o Ram Prasad Singh, R/o Jasoeya
				912	Private	Resi.	162	Ram Suresh Singh S/o Lt. Ram Ratan Singh, R/o Jasoeya
				913	Private	Resi.	81	Ram Suresh Singh S/o Lt. Ram Ratan Singh, R/o Jasoeya
				914	Private	Resi.	205	Ram Suresh Singh S/o Lt. Ram Ratan Singh, R/o Jasoeya
				623	Govt.	Resi.	162	Gair Mazarua Malik
				624	Private	Resi.	20	Braj Nandan Kumar Singh, Jainendra Kumar Singh, Randhir Kumar Singh S/o Krishna Kumar Singh R/o Jasoeya

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				625	Private	Ressi.	20	Ganesh Saw S/o Lt. Shivdas Saw. R/o Jasoeya
				572	Govt of Inda	Dhanhar	40	Keshre Hind
				573	Private	Dhanhar	20	Karmdev Singh S/o Lt. Jagdev Singh & Sunil Kumar Singh, Sanjay Kumar Singh S/o Karmdev Singh, R/o Jasoeya
				574	Govt of Inda	Dhanhar	182	Keshre Hind
				575	Govt of Inda	Dhanhar	10	Keshre Hind
				96	Govt.	Passage	20	Gair Mazaryua Aam, Sarwasadharan
				611	Govt of Inda	Dhanhar	51	Keshre Hind
				612	Private	Ressi.	61	Sunil Kumar Singh, Sanjay Kumar Singh S/o Karmdev Singh, R/o Jasoeya
				613	Govt.	Ressi.	10	Gair Mazarua Malik
				995	Private	Dhanhar	81	Gupteshwar Narayan Singh S/o Lt. Chandrika Singh, R/o Jasoeya
				994	Govt.	Dhanhar	20	(Bhoo- Hadbandi) Gopal Narayan Singh S/o Nageshwar Singh, R/o Jasoeya
				1005	Private	Dhanhar	486	Lalbihari Singh S/o Lt. Balgovind Singh, R/o Jasoeya
				1006	Govt.	Dhanhar	587	Gair Mazarua Aam
				1017	Private	Dhanhar	243	Smt. Lalita Devi W/o Shiv Murat Tiwari, R/o Jasoeya
				1015	Private	Dhanhar	1457	Murli Singh S/o Ramprasad Singh, R/o Jasoeya & Malti Devi W/o Surendra Singh & Kamta Singh S/o Lt. Lalji Singh, R/o Katharua & Ramdulari Singh W/o Radha Prasad Singh, R/o New Area Dehri & Vina Devi W/o Anil Singh, R/o Jasoeya
				987	Govt.	Dhanhar	2430	Bakast Malik
				988	Govt.	Dhanhar	162	(Bhoo- Hadbandi) Gopal Narayan Singh S/o Nageshwar Singh, R/o Jasoeya
				998	Private	Dhanhar	1254	Dhanush Singh Yadav S/o Lt. Ramdev Singh & Govind Prasad Akela, Arvind Kumar S/o Dhanush Singh Yadav, R/o Jagdishpur & Satyam Shivam Sundram S/o Lt. Devdatt Prasad Singh & Smt. Vijayaraj Laxmi W/o Satyam Sivam Sundram, R/o Narauli, Bakhtiyarpur, Patna
				999	Govt.	Dhanhar	769	(Bhoo- Hadbandi) Gopal Narayan Singh S/o Nageshwar Singh, R/o Jasoeya
				1002	Private	Dhanhar	364	Haricharan Singh S/o Chulhan Singh, R/o Jasoeya
				1003	Private	Dhanhar	971	Penu Singh S/o Kalpu Singh & Kamoda Kunwar W/o Lt. Sahdev Singh, R/o Jasoeya
				1014	Govt.	Parti	162	Gair Mazarua Malik

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				911	Private	Dhanhar	81	Dwarika Singh S/o Lt. Pragas Singh, R/o Jasoeya & Smt. Malti Sinha W/o Ram Swarup Singh R/o Goverdhan Pur, Kanat Tola, Daud Nagar
				1000	Private	Dhanhar	10	Penu Singh S/o Kalpu Singh & Kamoda Kunwar W/o Lt. Sahdev Singh, R/o Jasoeya
Total							21427	
			(4) Katharua Thana No.561	761	Private	Ressi.	486	Pramod Sav, Sudhir Kumar Gupta S/o Lt. Uday Sav, R/o Katharua & Jagannath Sharma S/o Chandra Deep Sharma, R/o Banua
				762	Private	Ressi.	259	Rajendra Yadav S/o Jitendra Yadav, R/o Katharua
				766	Private	Ressi.	162	Smt. Anita devi W/o Jitendra Kumar Singh & Jitendra Kumar Singh S/o Shambhu Sharan Singh & Babu Ram Yadav S/o R/o Katharua
				764	Private	Ressi.	566	Smt. Hasmukha Devi W/o Siyaram Rai, R/o Kaler Tola, Arwai & Dudheshwar Ram S/o R/o
				720	Private	Ressi.	81	Rajendra Yadav S/o Jitendra Yadav, R/o Katharua
				715	Private	Ressi.	283	Secta Ram Yadav, Ram Bilash Yadav, Ramdev Yadav S/o R/o Katharua
				714	Private	Ressi.	243	Indradev Singh S/o R/o Varna, Dev
				950	Private	Ressi.	162	Narendra Kumar Singh S/o Laidev Singh, R/o Aurangabad
				948	Private	Ressi.	81	Narendra Kumar Singh S/o Laidev Singh, R/o Aurangabad
				951	Private	Ressi.	728	Smt. Kamla Devi W/o Yamuna Singh, R/o Rampura
				736	Private	Ressi.	40	Dharmaraj Yadav S/o Raghu Yadav, R/o Katharua
				750	Private	Sahan	263	Smt. Premshila Devi W/o Arjun Singh, R/o Surjukhap
				753	Private	Ressi.	293	Niranjan Kumar Singh S/o Anil Kumar Singh, R/o Bedani, Charkamba, Dev, Aurangabad & Shrichandra Shamsher, Jang Bahadur Singh S/o Sidheshwar Prasad Singh, R/o Golghar, G.T.Road, Aurangabad & Shankar Singh S/o Mishran Singh, R/o Katharua
				756	Private	Ressi.	340	Neeraj Kumar Singh S/o Anil Kumar Singh, R/o Bedani, Charkamba, Dev, Aurangabad
				757	Private	Ressi.	324	Rajendra Yadav S/o Jitendra Yadav, R/o Katharua
				829	Private	Dhanhar	324	Unknown
				830	Private	Dhanhar	20	Unknown
				831	Govt.	Passage	243	Gair Mazarua Aam
				836	Private	Dhanhar	162	Unknown
				837	Private	Dhanhar	81	Smt. Rita Devi W/o Bhagwan Das Gupta, R/o Rampur, Karpi, Arwai & Mahendra Prasad S/o Nathuni Sav, R/o Katharua

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				700	Private	Boundary	121	Ram Lakhan Singh S/o Jagamath Singh, R/o Katharua & Palita Devi W/o Lalian Singh, R/o Bara Tetariya
				699	Private	Boundary	405	Ram Lakhan Singh S/o Jagamath Singh, R/o Katharua & Yamuna Singh S/o R/o Raipua
				697	Private	Ressi.	405	Yamuna Singh S/o R/o Raipura
				713	Private	Sahan	223	Kamta Singh, Arjun Singh S/o Laljee Singh, R/o Katharua
				712	Private	Sahan	81	Rajendra Yadav S/o Jitendra Yadav, R/o Katharua
				711	Private	Sahan	101	Saguni Yadav S/o Briksha Yadav, R/o Katharua
				777	Private	Sahan	40	Dharmaraj Yadav S/o Lt. Raghu Yadav, Vill Katharua
				774	Private	Sahan	162	Ashok Singh S/o Ramadhar Singh, R/o Katharua
				767	Private	Boundary	223	Mahangu Paswan S/o Sahdev Paswan, R/o Katharua
				1053	Private	Boundary	182	Mahangu Paswan S/o Sahdev Paswan, R/o Katharua
				765	Private	Sahan	65	Unknown
				941	Govt.	Pind	486	Gair Mazarua Aam
				716	Private	Boundary	162	Unknown
				978	Private	Sahan	101	Kamta Singh S/o Lt. Laljee Singh, R/o Katharua
				976	Private	Sahan	283	Anil Kumar Khemka S/o Baijnath Khemka, R/o Kasva New Area Aurangabad
				1006	Private	Sahan	5	Ashok Singh S/o Lt. Ramadhar Singh & Ram Autar Singh S/o Lt. Ram Bilash Singh, R/o Katharua
				1007	Private	Sahan	360	Ashok Singh S/o Lt. Ramadhar Singh & Ram Autar Singh S/o Lt. Ram Bilash Singh & Arjun Singh S/o Laljee Singh, R/o Katharua
				1009	Private	Sahan	445	Ram Lakhan Singh S/o Lt. Jagamath Singh & Vishunpat Singh S/o Baijnath Singh & Mohan Singh S/o Kishori Singh, R/o Katharua
				1010	Private	Sahan	161	Unknown
				1012	Private	Dhanhar	61	Unknown
				1013	Private	Sahan	182	Sharda Singh S/o Kulvansh Singh, R/o Saya, Mali, Aurangabad & Prahlad Mahto S/o Dudhar Mahto, R/o Sundar Ganj
				1023	Private	Ressi.	162	Smt. Manwati Devi W/o Vijay Nandan Singh, R/o Katharua & Jitendra Kumar Singh S/o Mangaldev Singh, R/o Kutumba
				1022	Private	Ressi.	101	Vindhyachal Singh S/o Ram Janam Singh, R/o Navinagar, Aurangabad
				1020	Private	Sahan	425	Dharmaraj Yadav S/o Lt. Raghu Yadav, Vill Katharua
				1043	Govt.	Pind	50	Gair Mazarua Aam

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1042	Private	Ressi.	365	Munna Singh S/o Awdhesh Singh & Smt. Manmati Devi W/o Shri Munna Singh, R/o Bypass G.T. Road, Aurangabad & Balkeshwar Singh, Ram Keshwar Singh, Janeshwar Singh, Mahendra Singh S/o Lt. Ram Ratan Singh, R/o Saheya, Manjuraahi & Devanti Devi W/o Surendra Singh, R/o Katharua & Kedar Nath Singh S/o.....
				1005	Govt.	Pind	56	Gair Mazarua Aam
				966	Private	Sahan	81	Jitendra Kumar Singh S/o Shambhu Sharan Singh & Smt. Anita devi W/o Jitendra Kumar Singh, R/o Riyur, Aurangabad
				968	Private	Sahan	161	Smt. Pushpa Devi W/o Ishwar Chandra Singh, R/o Bumaru
				969	Private	Sahan	61	Ishwar Chandra Singh S/o Lt. Rajendra Prasad Singh, R/o Bumaru
				970	Private	Dhanhar	170	Ishwar Chandra Singh S/o Lt. Rajendra Prasad Singh, R/o Bumaru & Jitendra Pandey, Satyendra Pandey S/o Prasad Pandey, R/o Dhaniwar
				977	Private	Sahan	81	Kauleshwar Sav, Ram Naresh Sav S/o Lt. Veeran Sav, R/o Katharua
				758	Private	Dhanhar	61	Unknown
				719	Private	Sahan	240	Unknown
				1048	Private	Ressi.	546	Ganesh Prasad Gupta, Ram Prasad Sav, Vibhishan Sav, Ram Chalittar Sav S/o Lt. Tapsi Sav, R/o Jalwan, Madanpur & Shanti Devi W/o Lt. Ram Darshan Singh & Vijay Kumar Singh S/o Munshi Singh, R/o Katharua
				1049	Private	Sahan	411	Pramod Sav, Sudhir Kumar Gupta S/o Lt. Uday Sav, R/o Katharua & Munna Sav S/o Lt. Tapsi Sav & Meena Devi W/o Ram Naresh Diwedi R/o Katharua
				1050	Private	Ressi.	411	Smt. Manmati Devi W/o Shri Munna Singh, R/o Bypass G.T. Road, Aurangabad
				1051	Private	Sahan	323	Kauleshwar Sav, Ram Naresh Sav S/o Lt. Veeran Sav, R/o Katharua
				828	Govt.	Passage	40	Gair Mazarua Aam
				827	Private	Sahan	40	Banwari Mistry S/o Moti Mistry R/o Kathuria
				778	Private	Sahan	20	Kamta Singh S/o Lt. Laljee Singh, R/o Katharua
				779	Private	Dhanhar	20	Unknown
				Total			13220	
			(5) Auranga bad Thana No. 560	254	Private	Ressi.	1052	Prajapati Singh S/o Lt. Shiv Narayan Singh, R/o Ramabagh
				256	Private	Ressi.	101	Anil Singh S/o Ramdeen Singh, R/o Ramabagh
				257	Private	Ressi.	200	Sarju Singh S/o Lt. Hitnarayan Singh, R/o Ramabagh

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				255	Private	Commercial	324	Ramdeep Singh S/o Lt. Mukhdev Singh, R/o Ramabagh & Manoj Kumar Singh S/o Ram Krishna Singh & Smt. Kavita Devi W/o Amod Kumar Singh, R/o Sarraiya & Munna Singh S/o Lt. Awdhesh Singh & Raghuvansh Singh S/o Lt. Ramjee Singh, R/o Aurangabad
				258	Private	Commercial	81	Prajapati Singh S/o Lt. Shiv Narayan Singh, R/o Ramabagh
Total							1758	
			(6) Shahpur	1677	Private	Commercial	850	Ajeet Singh S/o Hari Shankar Singh, R/o Shahpur
			Chadar	3342	Private	Commercial	364	Nurul Hasan Khan S/o Abdul Rauf Khan, R/o Aurangabad
			1 Thana No.566	3344	Private	Commercial	546	Bechan Sav S/o & Nurul Hasan Khan S/o Abdul Rauf Khan, R/o Aurangabad & Ajeet Singh S/o Hari Shankar Singh, R/o Shahpur
				3339	Private	Commercial	263	Sabaul Hasan S/o Nurul Hasan Khan, R/o Aurangabad & Bechan Sav S/o R/o
				1673	Private	Dhanhar	283	Satyendra Singh S/o R/o Pokhrai
				1672	Private	Dhanhar	486	Ram Prawesh Singh S/o Karmadev Singh, R/o Gurgaiya Karma, Aurangabad & Abhay Chandra Sharma S/o Lt. Ramdev Sharma, R/o Lodipur
				1679	Private	Dhanhar	546	Unknown
				1686	Private	Dhanhar	445	Upendra Singh S/o Lt. Ram Dahin Singh & Lailan Singh S/o Lt. Megha Singh, R/o Ratanua
				1685	Private	Dhanhar	146	Upendra Singh S/o Lt. Ram Dahin Singh, R/o Ratanua
				1688	Private	Dhanhar	728	Kaushal Kishor Singh S/o Lt. Ambika Prasad Singh & Smt. Jhalakraj Devi W/o Kaushal Kishor Singh, R/o Siwan Bigaha, Siris
				1706	Private	Ressi.	65	Shiv Nandan Singh, Ram Nandan Singh S/o Kulvansh Singh, R/o Ratanua
				1689	Private	Dhanhar	40	Aditya Singh S/o R/o Shahpur
				1707	Private	Commercial	356	Dablu Babu S/o Atma Babu, R/o Aurangabad
				1708	Private	Ressi.	356	Roshan Mistri S/o & Harihar Mahto S/o Dasai Mahto, R/o Shahpur Akhada
				1712	Private	Dhanhar	146	Sundar Sav S/o R/o Shahpur
				1713	Private	Dhanhar	874	Rajendra Singh S/o Lt. Basudev Singh & Harihar Singh, Bindeshwari Singh S/o Ram Kishun Singh, R/o Shahpur Akhada
				1715	Private	Dhanhar	324	Gaya Singh S/o R/o Dewariya & Surya Dev Yadav S/o Dev Chand Yadav, R/o Khairi Tola, Gopi Bigaha & Smt. Ram Pyari Devi W/o Anubhuti Nath Singh & Vibhuti Nath Singh S/o Kedar Nath Singh, R/o Dewariya Kala & Smt. Rajmani Devi W/o Lailan Prasad, R/o Shivpur Dehri, Jamhor

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1717	Private	Dhanhar	316	Anup Das S/o Budhan Das, R/o Shahpur
				1718	Private	Dhanhar	1294	Lakhan Mahto, Rameshwar Mahto, Mithilesh Mahto S/o Janki Mehta & Smt. Saroj Devi W/o Abhay Kumar, R/o Shahpur & Vijay Prasad Singh S/o Kailash Singh, R/o Israur
				1719	Private	Dhanhar	101	Prawesh Mahto S/o Bilash Mahto, R/o Shahpur
				1611	Private	Dhanhar	81	Prawesh Mahto S/o Bilash Mahto, R/o Shahpur
				1543	Private	Dhanhar	243	Sitaram Mahto S/o R/o Shahpur
				1555	Private	Dhanhar	81	Saryu Mahto S/o Ram Janam Mahto & Jagdish Mahto S/o Durgi Mahto, R/o Shahpur
				1585	Private	Dhanhar	101	Anup Das S/o Budhan Das, R/o Shahpur & Narayan Yadav S/o R/o Karma Bigaha
				3706	Private	Dhanhar	101	Anup Das S/o Budhan Das, R/o Shahpur
				1554	Private	Dhanhar	324	Narayan Yadav S/o R/o Karma Bigaha
				1552	Private	Dhanhar	253	Kamta Mahto S/o Nanhak Mahto, R/o Shahpur & Smt. Satani Devi W/o Lakshaman Sharma, R/o Chilikaw
				3308	Private	Dhanhar	566	Gopal Mahto S/o Dasai Mahto & Bhola Mahto S/o Jitu Mahto, R/o Shahpur
				1223	Govt.	Passage	101	Gair Mazarua Aam
				1222	Govt.	Pind	61	Gair Mazarua Aam
				852	Private	Dhanhar	384	Ramrekha Singh S/o Lt. Kameshwar Singh, R/o Shahpur Akhada
				3027	Private	Dhanhar	194	Ramrekha Singh S/o Lt. Kameshwar Singh, R/o Shahpur Akhada
				855	Private	Dhanhar	194	Prawesh Mahto S/o Bilash Mahto & Braj Kishor Prasad Varma S/o Lt. Jitwahan Mehta, R/o Shahpur
				856	Private	Dhanhar	445	Mathura Mahto S/o Shivratan Mahto, R/o Shahpur
				857	Private	Sahan	61	Smt. Shanti Devi W/o Meghnath Singh, R/o Sendaha, Tarari, Bhojpur & Kumar Lallan Singh S/o Lt. Jagdish Singh, R/o Darar & Renu Devi W/o Akshay Kumar Singh, R/o Aanti, Gaya, Present Add. Shahpur
				859	Private	Ressi.	303	Vijay Pathak S/o Lt. Raj Nandan Pathak & Smt. Sumita Devi W/o Awdhesh Singh, R/o Shahpur
				971	Private	Dhanhar	243	Braj Kishor Prasad Varma S/o Jitwahan Mehta, R/o Shahpur
				978	Private	Ressi.	61	Prawesh Sav, Awdhesh Sav, Santosh Sav S/o Lt. Lakhan Sav, R/o Shahpur & Ishwari Thakur S/o Ram Sewak Thakur, R/o Khadiha & Naresh Yadav S/o R/o Chetana
				972	Private	Ressi.	250	Ful Kumari Devi W/o Ram Sewak Thakur & Ishwari Thakur S/o Ram Sewak Thakur, R/o Khadiha

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				973	Private	Ressi.	293	Sona Devi W/o Ram Prasad Sharma & Vijay Baitha S/o Banarsi Baitha & Rajo Devi W/o Nathuni Yadav, R/o Shahpur & Lallan Yadav S/o Sitaram Yadav, R/o Krishna Puri, Ward No. 27 Shahpur
				3074	Private	Ressi.	154	Surya Pati Devi W/o Sitaram Yadav, R/o Kama Bigha & Lallan Yadav S/o Sitaram Yadav, R/o Krishna Puri, Ward No. 27 Shahpur
				966	Private	Ressi.	65	Parwati Devi W/o Ram Sinhasan Singh, R/o Kama Bigaha & Suresh, Mithilesh S/o R/o Shahpur
				980	Private	Commercial	121	Smt. Kamla Devi W/o Balram Tiwari, R/o Sadkar, Siris & Smt. Rajkali Devi W/o Bhagawati Prasad Mehta, R/o Shahpur
				3083	Private	Ressi.	61	Gupta Singh S/o R/o Kama Bigaha
				3200	Private	Ressi.	293	Chandrawati Devi W/o Ram Chandra Pal, R/o Krishna Puri, Ward No. 27, Shahpur & Ganauri Prasad S/o Hem Lal Bhagat, R/o Katema Barun
				1263/ 1262	Private	Ressi.	455	Mahendri Devi W/o Ram Swarup Chauhan & Prema Devi W/o Awdhesh Chauhan & Anil Prasad, Lallan Prasad, Gopal Prasad, Kanhaiya Prasad S/o Lt. Prahlad Sav & Sharda Sav S/o R/o Shahpur
				1267	Private	Dhanhar	170	Vindeshwari Sav S/o R/o Kunda
				1259	Private	Ressi.	486	Smt. Ram Dulari Devi W/o Sitaram Yadav, R/o Shahpur & Sukhwasi Devi W/o Balkishun Vishwakarma, R/o Yamuna Nagar, Shahpur & Suryadev Singh S/o Lt. Hari Yadav, R/o Shahpur & Kanhaiya Prasad Mehta S/o Lt. Prahlad Sav & Rajendra Pathak, Mangaldev Pathak S/o & Benga Mistri S/o R/o Chilar
				1258	Govt.	Dhanhar	121	Gair Mazarua Malik
				1268	Govt.	Passage	81	Gair Mazarua Aam
				1270	Private	Dhanhar	243	Smt. Anju Devi W/o Narsingh Singh, R/o Khaira Dhamani & Manjar Yadav S/o Hasan Yadav, R/o Shahpur & Ram Khelawan Singh S/o Maheep Singh, R/o Kama Bigaha
				1271	Private	Ressi.	162	Ramashish Mistri S/o Shivdutt Mistri, R/o Yamuna Nagar, Ward No. 28, Shahpur
				1558	Private	Dhanhar	20	Unknown
				3335	Private	Ressi.	245	Smt. Manju Devi W/o Surya Nath Singh, R/o Shahpur, Present Add. Hurma & Smt. Bina Devi W/o Lt. Harendra Singh, R/o Aami, Chhapra & Nain Kumari Devi W/o Arun Kumar Singh, R/o Shahpur
				1670	Private	Ressi.	110	Unknown
				1668	Private	Ressi.	45	Smt. Anju Devi W/o Narsingh Singh, R/o Khaira Dhamani

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1669	Private	Dhanhar	404	Ram Sewak Singh S/o Pragan Singh, R/o Shahpur
				1693	Private	Ressi.	40	Lallan Singh S/o Lt. Megha Singh & Upendra Singh S/o Lt. Ram Dahin Singh, R/o Ratanua
				1694	Private	Ressi.	205	Lallan Singh S/o Lt. Megha Singh & Upendra Singh S/o Lt. Ram Dahin Singh & Kamla Prasad Singh S/o Lt. Muneshwar Singh R/o Ratanua
				1695	Private	Ressi.	65	Smt. Anju Devi W/o Narsingh Singh, R/o Khaira Dhamani
				1696	Private	Ressi.	110	Kesho Sahu S/o Feku Sahu, R/o Shahpur
				1698	Private	Commercial	295	Smt. Padmini Agrawal W/o Sanjiv Kumar Agrawal, R/o New Area, Aurangabad & Sundar, Mundar S/o & Lalpari Devi W/o Kamla Prasad Singh & Smt. Mani Devi W/o ranjeet Singh R/o Ratanua
				1700	Govt.	Pind	40	Gair Mazarua Aam
				1706	Private	Ressi.	185	Ram Nandan Singh S/o Lt. Kulvansh Singh, R/o Ratanua
				Total			17045	
			Chadar-2	2425	Private	Dhanhar	165	Kuldeep Singh S/o Jhaudi Singh, R/o Shahpur
				3475	Private	Dhanhar	97	Unknown
				3426	Private	Dhanhar	20	Unknown
				2298	Private	Dhanhar	70	Neha Kumari D/o Tapeswar Yadav, R/o Parsa Tola, Murgi Bigha, Madanpur
				3456	Private	Dhanhar	259	Bhikhari Mahto S/o Dukhi Mahto, R/o Shahpur
				2292	Private	Parti	405	Dhanji Singh S/o Kamta Singh, R/o Club Road, Aurangabad
				2293	Private	Parti	223	Ramrekha Singh S/o Lt. Kameshwar Singh, R/o Shahpur Akhada
				2294	Private	Dhanhar	227	Anil Singh, Lallan Singh S/o R/o Maniko & Vikram Vishal, Vibhuti Narayan Singh S/o Dudheshwar Singh, R/o Devi Bigaha
				2485	Govt.	Passage	101	Gair Mazarua Aam
				2481	Private	Boundary wall	293	Ghanshyam Singh S/o Dukhan Singh & Rajendra Singh, Jaimangal Singh, Pramod Singh S/o Kamta Singh, R/o Shahpur
				2483	Private	Boundary wall	182	Smt. Sushila Devi W/o Omkar Singh, R/o Vijoei & Bangali Yadav S/o Bal Govind Yadav, R/o Shahpur, Tola Pipardih
				2486	Private	Dhanhar	162	Jaimangal Singh S/o Kamta Singh, R/o Ekauna & Smt. Sushila Devi W/o Omkar Singh, R/o Vijoei
				3481	Private	Dhanhar	146	Krishna Sonar S/o Lt. Dukhan Sonar, R/o Aurangabad
				2488	Private	Dhanhar	146	Krishna Sonar S/o Lt. Dukhan Sonar, R/o Aurangabad
				2496	Private	Commercial	61	Smt. Mamta Devi W/o Pramod Kumar, R/o Shahpur

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2495	Private	Ressi.	131	Suresh Prasad Ram S/o Jagnarayan Sharma, R/o Shahpur
				2501	Private	Dhanhar	324	Satyendra Singh S/o ... R/o Khadakpur, Harihar Ganj
				2484	Private	Dhanhar	194	Janki Mahto S/o Akai Mahto, R/o Shahpur
				2513	Private	Dhanhar	97	Satya Narayan Singh S/o Lt. Nathuni Singh, R/o Pakadi Pipara
				2522	Private	Ressi.	310	Anjani Devi W/o Baijnath Prasad & Lal Bahadur Singh S/o Girindra Prasad Singh, R/o Shahpur
				2521	Private	Dhanhar	200	Ram Lakhan Singh, Ashok Singh S/o Basudev Singh, R/o Shahpur
				2525	Private	Ressi.	65	Ram Ratan Yadav S/o Doman Yadav, R/o Shahpur
				3586	Private	Ressi.	65	Unknown
				2574	Private	Ressi.	230	Smt. Anju Singh W/o Kumar Manwendra, R/o Banchar, Rafiganj
				2571	Private	Ressi.	61	Smt. Bigani Devi W/o Mahavir Yadav, R/o Shahpur
				2495	Private	Dhanhar	230	Unknown
				2571	Private	Ressi.	232	Mathura Mahto, Nathuni Mahto S/o Govind Mahto, R/o Shahpur
				2566	Private	Commercial	283	Janki Sav S/o Fakira Sav, R/o Aurangabad & Vidul Devi W/o Banwari Sav, R/o Soniyad & Ramindra Prasad Gupta, Narayan Prasad, Jaiprakash Kumar S/o Janki Sav, Ram Narayan Yadav S/o Jaggu Yadav, R/o Aurangabad
				2564/3494	Private	Ressi.	404	Prabha Devi W/o Shambhu Prasad Mehta, R/o Shahpur
				2562	Private	Dhanhar	40	Diwasiya Kunwar W/o Lt ..., R/o Shahpur
				2556	Private	Commercial	121	Unknown
				2747	Private	Commercial	545	Abhay Kumar Gupta S/o Banarsi Prasad & Kaushalendra Pratap Narayan Singh, Raghvendra Pratap Singh S/o Lt. Thakur Yugal Kishor Narayan Singh & Rampati Yadav S/o & Raj Mangal Yadav, Shiv Mangal Yadav S/o & Jawahar Lal Gupta S/o & Sarju Gupta S/o , R/o Shahpur
				3566	Govt.	Ressi.	1072	Gair Mazarua Malik
				3589	Private	Ressi.	2595	Vijay Yadav S/o Kailash Yadav, R/o Pandey Pur & Krishna Yadav S/o Haldhar Yadav, R/o Ketki Tola Khadak Bigha
				3591	Govt.	Commercial	4289	Industries Department
				2683	Private	Ressi.	809	Awdhesh Yadav alias Ram Prawesh Yadav S/o Fakira Yadav & Dharmdev Yadav, Barani Yadav, Rajendra Yadav, Laldev Yadav S/o Rameshwar Yadav, R/o Shahpur
				2731	Govt.	Ressi.	227	Gair Mazarua Malik
				2730	Govt.	Parti	142	Gair Mazarua Aam

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2732	Private	Commercial	890	Raghubir Prasad Gupta S/o Lt. Janki Sav, R/o Aurangabad & Smt. Vinduliya Devi W/o Banwari Sav, R/o Dhami Road, Aurangabad & Sitaram Prasad S/o Pachkaudi Sav & Smt. Binda Devi W/o Lt. Kishori Sav, R/o Shahganj & Sudama Yadav, Krishna Yadav S/o Doman Yadav R/o Shahpur & Ram Chandra Yadav S/o Lt. Ram Krishna Yadav & Smt. Rajwatiya Devi W/o Ram Chandra Yadav R/o Ekauna
				2733	Govt.	Commercial	1700	Gair Mazarua Malik
				2735	Govt.	Ressi.	890	Gair Mazarua Malik
				2736	Govt.	Boundary Wall	566	Divisional Jail, Aurangabad
				2738	Govt.		162	
				2739	Govt.		316	
				2299	Private	Dhanhar	20	Pammi Kumari D/o Tapeswar Yadav, R/o Murgi Bigaha, Madanpur
				2297	Private	Dhanhar	40	Mathura Mahto, Nathuni Mahto S/o Govind Mahto, R/o Shahpur
				3484	Private	Ressi.	120	Smt. Archana Devi W/o Subodh Singh & Subodh Singh S/o Vijay Singh, R/o Upardahan Tola, Udham Bigaha, Dev
				2524	Private	Dhanhar	101	Ram Swarup Yadav, Ramgati Yadav S/o Lt. Dukhi Yadav, R/o Pipardih & Halkhori Mahto S/o Lali Mahto & Kamta Mahto S/o Nanhaku Mahto, R/o Shahpur
				2722	Private	Dhanhar	121	Unknown
				2737	Govt.	Boundary Wall	445	Divisional Jail, Aurangabad
				2741	Private	Ressi.	1032	Satyendra Yadav S/o Lt. Nathuni Yadav & Ramchandra Yadav S/o Balkishun Yadav & Dasharath Yadav S/o Ghuran Yadav, R/o Pandey Pur & Radhe Shyam Gupta S/o Setu Ram Gupta & Smt. Meera Rani W/o Radhe Shyam Gupta & Prem Prakash Ram S/o Radhe Shyam Gupta, R/o Shahpur & Ayodhya Singh S/o Kuldeep Yadav, R/o Amar Bigaha
				2740	Govt.	Pind	61	Gair Mazarua Aam
				2524/2520	Private	Dhanhar	101	Unknown
				3590	Private	Dhanhar	20	Unknown
Total							21808	
			(7) Hasola Ajarkabe Thana No. 872	111	Govt.	Dhanhar	992	Gair Mazarua Malik
				116	Govt.	Pind	250	Gair Mazarua Aam
Total							1242	
			(8) Ora Thana No. 580	1201	Govt.	Ressi.	769	Gair Mazarua Malik
				1202	Private	Dhanhar	526	Arjun Gosai S/o & Sudhir Singh S/o & Girja Mistri, Kameshwar Mistri S/o Chamank Mistri, R/o Ora
				1205	Govt.	Commercial	635	Gair Mazarua Malik

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1207	Private	Dhanhar	1902	Meghan Noniya S/o Lt. Babban Noniya & Siri Noniya S/o Lt. Ram Kishun Noniya & Arjun Noniya S/o Lt. Faguni Noniya & Virendra Noniya S/o Lt. Ramdev Noniya & Buddhan Noniya S/o Lt. Janki Noniya, R/o Ora
				1209	Govt.	Ressi. Cremation Ground	2589	Gair Mazarua Malik
				1210	Private	Dhanhar	829	Munna Singh S/o Lt. Suryadev Singh & Pradeep Singh S/o Lt. Mathura Singh, R/o Ora & Pankaj Singh, Rakesh Singh, Rajesh Singh S/o Ajay Kumar Singh R/o Poiwa & Bajrangi Singh S/o & Nilam Devi W/o Br. rangi Singh R/o Aurangabad & Rajiv Ranjan Agrawal, Sanjiv Kumar Agrawal S/o Krishnadev Lal R/o Navi Nagar
				1212	Govt.	Boundary wall	1315	Gair Mazarua Malik
				1214	Govt.	Dhanhar	121	Bakast Malik
				1215	Govt.	Dhanhar	566	Bakast Malik
				1110	Govt.	Road	1113	Gair Mazarua , am
				1103	Private	Dhanhar	81	Chandrika Yadav S/o Hari Yadav, R/o Ora
				1537	Govt.	Nala	1376	Gair Mazarua Aam
				1536	Private	Dhanhar	162	Visheshwar Singh S/o Sikan Singh R/o Ora
				935	Private	Dhanhar	283	Prahlad Singh S/o Lt. Chandrika Singh & Jairam Singh S/o Lt. Dharmdev Singh, R/o Ora & Amar Mistri S/o & Sunil Singh S/o R/o & Prabha Devi W/o Lakshaman Yadav R/o Ora
				934	Private	Parti	1376	Unknown
				930	Govt.	River	194	Gair Mazarua Aam
				915	Private	Ressi.	920	Babulal Mistri S/o Lt. Deep Chandra Mistri & Amar Mistri S/o Suraj Mistri & Ajay Mistri S/o Lt. Maheshwar Mistri & Dashrath Mistri S/o Lt. Shiv Ratan Mistri & Pintu Mistri S/o Lt. Dhaneshwar Mistri & Lalchand Yadav, Dashrath Yadav, Deep Chand Yadav S/o Naipali Yadav & Smt. Satola Devi W/o Deep Chand Yadav & Prawesh Mistri S/o Ambika Mistri & Madan Mistri S/o Lt. Nathuni Mistri & Chhedi Prajapati, Tetar Prajapati, Godani Prajapati S/o Bhajani Prajapati & Jhagaru Prajapati S/o Lt. Dhanni Prajapati & Makarjani Prajapati S/o Swarath Prajapati & Phulchand Prajapati, Raghuvansh Prajapati S/o Lt. Padarath Prajapati, R/o Ora
				911/ 914	Private	Ressi.	324	Satyendra Yadav, Mahendra Yadav, Dharmendra Yadav S/o Lt. Virachi Yadav & Buddhu Yadav S/o Jagesar Yadav & Awdhesh Prajapati, Rakesh Prajapati S/o Bigan Prajapati, R/o Ora

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				909	Private	Dhanhar	20	Ramchandra Prajapati S/o Lt. Padarath Prajapati, R/o Ora
				908	Private	Dhanhar	40	Janeshwar Prajapati S/o Lt. Ram Prasad Prajapati, R/o Ora
				907	Private	Dhanhar	81	Janeshwar Prajapati S/o Lt. Ram Prasad Prajapati, R/o Ora
				903	Private	Reesi.	1012	Jhagaru Prajapati S/o Lt. Dhanni Prajapati, R/o Ora
				902	Private	Reesi.	607	Jhagaru Prajapati S/o Lt. Dhanni Prajapati, R/o Ora
				904	Private	Reesi.	162	Kesho Prajapati S/o Lt. Nathuni Prajapati & Fulmatiya Kunwar W/o Lt. Jeetvahan Yadav, R/o Ora
				901	Private	Reesi.	40	Raghuvanshi Prajapati S/o Lt. Padarath Prajapati, R/o Ora
				900	Private	Reesi.	61	Raghuvanshi Prajapati S/o Lt. Padarath Prajapati, R/o Ora
				896	Private	Reesi.	20	Chhedi Singh S/o Lt. Chulhan Singh, R/o Ora
				895	Private	Reesi.	73	Ramchandra Prajapati S/o Lt. Padarath Prajapati, R/o Ora
				894	Private	Reesi.	121	Phulchandra Prajapati S/o Lt. Padarath Prajapati, R/o Ora
				892	Private	Reesi.	142	Smt. Munni Devi W/o Rajkumar Prasad Singh, R/o Ora
				891	Private	Reesi.	81	Jagarnath Singh, Vijay Singh S/o Lt. Ramchandra Singh, R/o Ora, Renu Bigaha
				883	Private	Reesi.	223	Suryadev Yadav S/o Lt. Hulash Yadav & Smt. Munni Devi W/o Suryadev Yadav & Ram Prasad Yadav S/o Lt. Naujadik Yadav & Nand Kishor Yadav S/o Lt. Sahdev Yadav & Dev Nandan Yadav S/o Lt. Chhedi Yadav & Smt. Jagati Kunwar W/o Lt. Ramkeshwar Yadav & Santosh Kumar S/o Ram Prawesh Yadav R/o Ora
				882	Private	Reesi.	132	Narayan Paswan, Ram Ashish Paswan S/o Lt. Brahma Paswan & Shankar Prasad Gupta S/o Lt. Ymuna Prasad Gupta, R/o Ora
				881	Govt.	Passage	101	Gair Mazarua Aam
				830	Private	Reesi.	40	Shankar Prasad Gupta, Mahendra Prasad Gupta S/o Lt. Yamuna Prasad Gupta & Raghunath Prasad S/o Shiv Narayan Saw & Dileep Prasad S/o Sukhdev Prasad & Kalawati Kunwar W/o Lt. Ashok Prasad Gupta, R/o Ora
				829	Govt.	Reesi.	40	Gair Mazarua Malik
				827	Govt.	Reesi.	51	Gair Mazarua Malik
				826	Govt.	Reesi.	40	Gair Mazarua Malik
				825	Govt.	Reesi.	10	Gair Mazarua Malik
				824	Govt.	Passage	121	Gair Mazarua Aam, (Laxmikala Parishad, Shiv Temple)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				823	Private	Ressi.	324	Kapil Paswan, Ramswarup Paswan, Jagdamba Paswan, Shribodh Paswan S/o Lt. Huraha Paswan & Lakhan Paswan S/o Lt. Bichhi Paswan, R/o Ora
				820	Private	Ressi.	10	Buddhu Yadav S/o Lt. Jagesar Yadav & Narsingh Yadav S/o Lt. Mosaheb Yadav, R/o Ora
				819	Govt.	Dhanhar	162	Gair Mazarua Aam
				795	Private	Ressi.	223	Jaglal Chaudhary S/o Lt. Gopichand Chaudhary & Basdev Chaudhary, Sohan Chaudhary S/o Lt. Faguni Chaudhary & Brij Mohan Chaudhary S/o Lt. Kishan Chaudhary & Manju Kunwar W/o Lt. Surendra Chaudhary & Bhola Chaudhary S/o Lt. Chhedi Chaudhary & Gopal Chaudhary, Ram Prasad Chaudhary, Ram Prawesh Chaudhary S/o Lt. Shyam Lal Chaudhary, R/o Ora
				752	Private	Ressi.	20	Ram Prawesh Chaudhary S/o Lt. Shyam Lal Chaudhary, R/o Ora
				751	Private	Ressi.	10	Janeshwar Yadav S/o Lt. Jageshwar Yadav & Anil Yadav S/o Daroga Yadav, R/o Ora
				750	Private	Ressi.	20	Janeshwar Yadav S/o Lt. Jageshwar Yadav & Anil Yadav S/o Daroga Yadav, R/o Ora
				746	Govt.	Ressi.	405	Gair Mazarua Malik
				1471	Private	Ressi.	121	Smt. Lalmuni Devi W/o Siri Mahto, R/o Ora
				1470	Private	Ressi.	1012	Jagdish Prajapati S/o & Ram Poojan Baitha S/o Lt. Sitaram Baitha & Rameshwar Yadav S/o Lt. Jaipal Yadav & Judagir Yadav S/o Lt. Kauleshwar Yadav & Dev Nandan Yadav S/o Raghuni Yadav & Narayan Yadav S/o Kesho Yadav & Durgawati Devi W/o Kishori Saw & Pawan Kumar S/o Ram Poojan Rajak R/o Ora
				1469	Govt.	River	202	Gair Mazarua Aam
				347	Govt.	Paen	570	Gair Mazarua Aam
				741	Govt.	Parti Kadim	81	Gair Mazarua Aam
				740	Private	Ressi.	162	Chandradev Mahto, Baijnath Mahto S/o Lt. Shivaran Mahto & Jairam Mahto S/o Suraj Mahto & Prabhu Mahto S/o Lt. Barat Mahto & Phulaniya Devi W/o Kamta Mahto & Malti Kunwar W/o Lt. Kamlesh Mahto, R/o Ora
				731	Govt.	Dhanhar	607	Gair Mazarua Malik
				730	Private	Dhanhar	324	Rajendra Yadav, Visheshwar Yadav, Dudheshwar Yadav S/o Lt. Bechan Yadav, R/o Ora
				729	Private	Dhanhar	202	Janeshwar Yadav S/o Lt. Jageshwar Yadav & Anil Yadav S/o Lt. Daroga Yadav & Uddheshwar Yadav S/o Ganeshi Yadav, R/o Ora

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				726	Private	Dhanhar	410	Ram Lakhan Yadav, Ram Sakal Yadav S/o Lt. Mahadev Yadav, R/o Ora
				721	Govt.	River	130	Gair Mazarua Aam
				1456	Private	Dhanhar	1295	Arjun Chauhan S/o Faguni Chauhan & Virendra Noniya S/o Ramdev, R/o Ora
				1457	Private	Dhanhar	445	Meghnath Noniya S/o Lt. Babban Noniya & Siri Noniya S/o Lt. Ram Kishun Noniya & Arjun Chauhan S/o Faguni Chauhan & Virendra Noniya S/o Ramdev, R/o Ora
				1458	Govt.	Dhanhar	324	Anabad Bihar Government
				1459	Private	Dhanhar	1300	Baudh Paswan, Sudama Paswan, Ramswarup Paswan, Jagdamba Paswan, Lakht Paswan, Kapil Paswan S/o Hurha Paswan & Shreepal Paswan, Lakhan Paswan, Baijnath Paswan, Karmu Paswan S/o Bichhi Paswan, R/o Ora
				1460	Private	Dhanhar	324	Jaglal Chaudhary S/o Gopichand Chaudhary & Nagina Devi W/o Lt. Satyendra Chaudhary & Vasudev Chaudhary S/o Lt. Faguni Chaudhary & Chhedi Chaudhary, Brijmohan Chaudhary S/o Kishun Chaudhary, R/o Ora
				1461	Private	Dhanhar	361	Rameshwar Yadav S/o Lt. Jaipal Yadav & Narayan Yadav S/o Kesho Yadav & Judagir Yadav S/o Kauleshwar Yadav, R/o Ora
				1462	Private	Dhanhar	486	Ram Briksh Yadav S/o Lt. Chhedi Yadav, R/o Ora
				1509	Govt.	River	101	Gair Mazarua Aam
				1485	Private	Dhanhar	101	Naresh Lal S/o Lt. Dev Kumar Lal, R/o Ora
				1483	Private	Dhanhar	101	Smt. Vishuni Devi W/o Jaglal Chaudhary, R/o Ora
				1482	Private	Dhanhar	101	Suryadev Mahto S/o Lt. Bharat Mahto, R/o Ora
				1481	Private	Dhanhar	101	Shiv Poojan Thakur S/o Lt. Govardhan Thakur & Sahdev Mahto S/o Lt. Lekha Mahto & Pashupati Mahto S/o Lt. Faguni Mahto, R/o Ora
				1480	Private	Dhanhar	81	Ramgati Mahto S/o Lt. Balkeshar Mahto, R/o Ora
				1476	Private	Dhanhar	110	Jagdish Mahto S/o Jagpat Mahto, R/o Ora
				1475	Private	Dhanhar	270	Vishwajeet Singh S/o Mahesh Singh & Ram Prasad Yadav S/o Lt. Naujadik Yadav & Ram Briksh Yadav, Devnandan Yadav S/o Lt. Chhedi Yadav & Shiv Nandan Yadav S/o Dhaneshwar Yadav & Bhikhani Kunwar W/o Lt. Mosaheb Yadav, R/o Ora
				1474	Private	Dhanhar	125	Smt. Motiraj Devi W/o Suryadev Singh, R/o Ora
				1473	Private	Dhanhar	124	Smt. Motiraj Devi W/o Suryadev Singh, R/o Ora

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total							29044	
			(9) Kanbeh ari Thana No.865	185	Private	Dhanhar	566	Ram Sarup Sharma, Shatrughna Sharma, Bharat Sharma S/o Lt. J.P. Mistri & Sumeshwar Sharma, Laljee Sharma, Balindra Sharma, Dudheshwar Sharma S/o Lt. Barat Mistri & Chhatthu Mistri S/o Jagat Mistri & Krishna Sharma, Arjun Sharma S/o Lt. Moti Mistri, R/o Kanbehri
				186	Private	Dhanhar	162	Ram Sarup Sharma, Shatrughna Sharma, Bharat Sharma S/o Lt. J.P. Mistri & Sumeshwar Sharma, Laljee Sharma, Balindra Sharma, Dudheshwar Sharma S/o Lt. Barat Mistri & Chhatthu Mistri S/o Jagat Mistri & Krishna Sharma, Arjun Sharma S/o Lt. Moti Mistri, R/o Kanbehri
				187	Private	Dhanhar	324	Ram Sarup Sharma, Shatrughna Sharma, Bharat Sharma S/o Lt. J.P. Mistri & Sumeshwar Sharma, Laljee Sharma, Balindra Sharma, Dudheshwar Sharma S/o Lt. Barat Mistri & Chhatthu Mistri S/o Jagat Mistri & Krishna Sharma, Arjun Sharma S/o Lt. Moti Mistri, R/o Kanbehri
				188	Private	Dhanhar	334	Keshwar Mistri S/o Lt. Bhagwan Mistri & Ram Sarup Sharma S/o Lt. J.P. Mistri & Mugesh Sharma S/o Ganauri Mistri & Ram Prawesh Sharma S/o Lt. Vishundev Sharma R/o Kanbehri
				189	Private	Bhit	647	Narayan Sharma, Bhagwan Sharma S/o Lt. Kameshwar Sharma & Ram Sarup Sharma S/o Lt. J.P. Sharma & Jitendra Sharma S/o Banarsi Sharma & Ram Prawesh Sharma, Ram Nath Sharma S/o Lt. Vishundev Sharma, R/o Kanbehri
				195	Private	Dhanhar	324	Kedar Singh S/o Lt. Ramdev Singh, R/o Kanbehri
				194	Private	Dhanhar	223	Kedar Singh S/o Lt. Ramdev Singh, R/o Kanbehri
				193	Private	Dhanhar	490	Nagdev Singh S/o Lt. Krit Singh, R/o Kanbehri
				199	Private	Dhanhar	607	Suchit Singh S/o Lt. Vindeshwari Singh, R/o Kanbehri
				200	Private	Dhanhar	597	Arun Singh S/o Ram Lakhan Singh & Pramod Singh S/o Amar Singh, R/o Kanbehri
				201	Private	Dhanhar	3944	Arun Singh S/o Ram Lakhan Singh & Pramod Singh S/o Amar Singh, R/o Kanbehri
				202	Private	Dhanhar	344	Anugrah Narayan Singh S/o Harihar Singh & Kapil Dev Singh S/o Ramgati Singh, R/o Kanbehri
				203	Private	Dhanhar	293	Smt. Adhiraj Devi W/o Ramesh Singh, R/o Kanbehri

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				204	Private	Dhanhar	344	Ramesh Singh S/o Kuldeep Singh, R/o Kanbehri
				209	Private	Dhanhar	405	Pappu Singh, Ravindra Singh S/o Rajeshwar Singh & Suchit Singh, Vindeshwari Singh S/o Lt. Brahmraj Singh, R/o Kanbehri
				210	Private	Dhanhar	566	Arun Singh S/o Lt. Ram Lakhan Singh, R/o Kanbehri
				208	Private	Dhanhar	324	Awdhesh Singh S/o Lt. Amar Singh, R/o Kanbehri
				300	Private	Dhanhar	202	Yogendra Singh S/o Lt. Girja Singh, R/o Kanbehri
				207	Private	Dhanhar	243	Krishna Singh S/o, R/o Kanbehri
				301	Private	Dhanhar	81	Ram Sarup Sharma, Shatrughna Sharma, Bharat Sharma S/o Lt. J.P. Mistri & Sumeshwar Sharma, Laljee Sharma, Balindra Sharma, Dudheshwar Sharma S/o Lt. Barat Mistri & Chhatthu Mistri S/o Jagat Mistri & Krishna Sharma, Arjun Sharma S/o Lt. Moti Mistri, R/o Kanbehri
				302	Private	Dhanhar	91	Ram Sarup Sharma, Shatrughna Sharma, Bharat Sharma S/o Lt. J.P. Mistri & Sumeshwar Sharma, Laljee Sharma, Balindra Sharma, Dudheshwar Sharma S/o Lt. Barat Mistri & Chhatthu Mistri S/o Jagat Mistri & Krishna Sharma, Arjun Sharma S/o Lt. Moti Mistri, R/o Kanbehri
				303	Private	Dhanhar	142	Tetar Singh S/o Lt. Dev Prakash Singh & Chandra Shekhar Singh, Vijay Singh S/o Mundrika Singh, R/o Kanbehri
				304	Private	Dhanhar	364	Arun Singh, Prabhat Singh, Giru Singh S/o Lt. Ram Lakhan Singh, R/o Kanbehri
				306	Private	Dhanhar	162	Brahmraj Singh S/o Lt. Kuldeep Singh, R/o Kanbehri
				307	Private	Dhanhar	121	Deepak Narayan Singh S/o Ramesh Singh, R/o Kanbehri
				308	Private	Dhanhar	97	Arun Singh S/o Lt. Ram Lakhan Singh, R/o Kanbehri
				311	Private	Dhanhar	75	Tetar Singh S/o Lt. Dev Prakash Singh R/o Kanbehri
				312	Private	Dhanhar	202	Ashok Singh, Anil Singh, Sunil Singh S/o Lt. Ram Chandra Singh, R/o Kanbehri
				313	Private	Dhanhar	162	Mukesh Kumar Singh S/o Lt. Mungeshwar Singh, R/o Kanbehri
				318	Govt. of India	Dhanhar	61	Keshare Hind
				319	Govt. of India	Dhanhar	334	Keshare Hind
				320	Govt. of India	Dhanhar	486	Keshare Hind
				317	Govt.	Bandh	971	Gair Mazarua Aam
				322	Govt.	Pond	1294	Gair Mazarua Aam
				321	Govt. of India	Dhanhar	728	Keshare Hind

4683 46/10-14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				625	Govt. of India	Dhanhar	566	Keshare Hind
				628	Private	Dhanhar	405	Ashok Singh, Anil Singh, Sunil Singh S/o Lt. Ram Chandra Singh, R/o Kanbehri
				623	Private	Dhanhar	526	Ashok Singh, Anil Singh, Sunil Singh S/o Lt. Ram Chandra Singh, R/o Kanbehri
				626	Private	Dhanhar	162	Ashok Singh, Anil Singh, Sunil Singh S/o Lt. Ram Chandra Singh, R/o Kanbehri
				629	Govt. of India	Dhanhar	40	Keshare Hind
				630	Private	Dhanhar	175	Uday Singh, Rajkumar Singh S/o Lt. Narsingh Singh & Dharendra Singh S/o Lt. Haridwar Singh, R/o Kanbehri
				631	Govt. of India	Dhanhar	81	Keshare Hind
				632	Govt. of India	Dhanhar	81	Keshare Hind
				633	Private	Dhanhar	314	Uday Singh, Rajkumar Singh S/o Lt. Narsingh Singh, R/o Kanbehri
				635	Govt. of India	Dhanhar	162	Keshare Hind
				640	Private	Dhanhar	101	Ashok Singh, Anil Singh, Sunil Singh S/o Lt. Ram Chandra Singh, R/o Kanbehri
				639	Private	Dhanhar	344	Ashok Singh, Anil Singh, Sunil Singh S/o Lt. Ram Chandra Singh, R/o Kanbehri
				642	Govt.	Passage	70	Gair Mazarua Aam
				651	Private	Dhanhar	243	Ravindra Singh, Saroj Singh S/o Lt. Rajeshwar Singh, R/o Kanbehri
				652	Private	Dhanhar	81	Vijay Singh, Ajay Singh S/o Lt. Ram Narayan Singh, R/o Bhediya
				654	Private	Dhanhar	243	Kapildev Singh S/o Lt. Ramgati Singh, R/o Kanbehri
				800	Govt.	Parti	486	Gair Mazarua Malik
				801	Govt.	Dhanhar	283	Gair Mazarua Aam
				802	Govt. of India	Dhanhar	40	Keshare Hind
				803	Govt. of India	Parti	81	Keshare Hind
				1258	Private	Parti	1942	Shishir Singh S/o, R/o Kamakhya Bigaha
				1257	Private	Parti	293	Kanhaiya Lal Jain S/o Balchandra Lal Jain, R/o Aurangabad
				1256	Private	Dhanhar	283	Pramod Singh S/o Lt. Amar Singh, R/o Kanbehri
				1255	Private	Parti	101	Nareish Singh S/o Lt. Ramdhani Singh, R/o Kanbehri
				1254	Private	Dhanhar	405	Pramod Singh S/o Lt. Amar Singh, R/o Kanbehri
				1253	Private	Parti	162	Prabhat Singh, Virendra Singh, Arun Singh S/o Lt. Ram Lakhani Singh, R/o Kanbehri
				1251	Private	Parti	1537	Gair Mazarua Malik
				1146	Govt. of India	Dhanhar	283	Keshare Hind

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1144	Private	Dhanhar	81	Awdhesh Singh S/o Lt. Amar Singh, R/o Kanbehri
				1147	Govt. of India	Dhanhar	162	Keshare Hind
				1138	Govt. of India	Dhanhar	223	Keshare Hind
				1189	Private	Dhanhar	243	Yogendra Singh S/o Lt. Girja Singh, R/o Kanbehri
				1127	Private	Dhanhar	162	Smt. Shivrani Devi W/o Kuldeep Singh, R/o Kanbehri
				1128	Govt. of India	Dhanhar	1052	Keshare Hind
				1126	Private	Dhanhar	97	Ramjee Singh S/o Lt. Kuldeep Singh, R/o Kanbehri
				1086	Govt. of India	Dhanhar	314	Keshare Hind
				1085	Govt. of India	Dhanhar	1012	Keshare Hind
				1077	Govt. of India	Dhanhar	243	Keshare Hind
				1076	Govt. of India	Dhanhar	526	Keshare Hind
				1064	Private	Dhanhar	243	Chandra Shekhar Singh, Vijay Singh S/o Lt. Mundrika Singh & Tetar Singh S/o Lt. Dev Prakash Singh, R/o Kanbehri
				1075	Private	Sahan	121	Seeta Ram Sharma, Vijay Sharma S/o Lt. Lakhan Mistri, R/o Kanbehri
				1079	Private	Ressi	61	Dhananjay Sharma, Ranjeet Sharma, Randheer Sharma S/o Birja Mistri & Tetar Singh S/o Lt. Pargas Singh R/o Kanbehri
				1080	Private	Ressi	10	Jairam Sharma, Mahendra Sharma, Nand Kishor Sharma, Janeshwar Sharma S/o Lt. Tribhuvan Sharma, R/o Kanbehri
				1061	Govt. of India	Dhanhar	162	Keshare Hind
				184	Govt.	Bandh	364	Gair Mazarua Aam
				196	Private	Dhanhar	81	Yogendra Singh S/o Lt. Girja Singh, R/o Kanbehri
				653	Govt.	Parti	81	Gair Mazarua Malik
				887	Private	Dhanhar	61	Vijay Singh, Ajay Singh S/o Ramnarayan Singh, R/o Bhediya
				1083	Private	Dhanhar	81	Ram Sarup Sharma S/o Lt. J.P. Mistri & Chhatthu Mistri S/o Lt. Jagat Mistri & Mahendra Singh, Rajendra Singh, Anugrah Singh S/o Lt. Harihar Singh & Baijnath Singh, Shambhu Singh S/o Lt. Charittar Singh & Indu Devi W/o Lt. Ajeet Singh, R/o Kanbehri
				1093	Private	Dhanhar	40	Podina Paswan S/o Mahipat Paswan & Dhumdhani Paswan S/o Lt. Kawleshwar Paswan & Rajkishor Paswan S/o Karu Paswan & Awadh Paswan, Jaiprakash Paswan S/o Lt. Baburam Paswan, R/o Kanbehri
Total							31220	
			(10) Bhedia	29	Govt.	Chhawar	73	Gair Mazarua Aam
				288	Govt.	Chhawar	283	Gair Mazarua Aam

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Thana No.864	287	Private	Dhanhar	283	Tapasya Narayan Singh S/o Brahmraj Singh & Haridwar Singh S/o Vishunpat Singh, R/o Bhediya
				286	Private	Dhanhar	263	Kedar Singh, Ram Janam Singh S/o Mathura Singh, R/o Bhediya
				30	Govt.	Bandh	223	Gair Mazarua Aam
				285	Private	Dhanhar	121	Satish Kumar Singh S/o Dhananjay Singh, R/o Bhediya
				284	Private	Dhanhar	146	Ambika Prasad Singh S/o Lt. Ram Briksh Singh, R/o Bhediya
				282	Private	Dhanhar	121	Shanti Devi W/o Shambhu Chauhan & Gauri Devi W/o Arjun Chauhan, R/o Bhediya
				281	Private	Dhanhar	45	Binod Singh, Ashok Kumar Singh S/o Mohan Singh, R/o Bhediya
				280	Private	Dhanhar	131	Raghubansh Singh S/o Ram Briksh Singh, R/o Bhediya
				283	Private	Dhanhar	607	Binod Singh S/o Mohan Singh & Ram Janam Singh S/o Mathura Singh & Manwati Kurwar W/o Lt. Chhedi Singh, R/o Bhediya
				279	Private	Dhanhar	61	Binod Singh S/o Mohan Singh & Ram Janam Singh S/o Mathura Singh & Manwati Kurwar W/o Lt. Chhedi Singh, R/o Bhediya
				278	Private	Dhanhar	405	Nagendra Kumar S/o Harsh Narayan Singh, R/o Majurakha & Bhimsen Singh, Arjun Singh S/o Mithilesh Singh & Baijnath Singh S/o Indradev Singh, R/o Bhediya
				277	Private	Dhanhar	20	Ram Sundar Singh S/o Sarju Singh, R/o Bhediya
				276	Private	Dhanhar	61	Bhimsen Singh, Arjun Singh S/o Mithilesh Singh, R/o Bhediya
				270	Private	Dhanhar	81	Bhimsen Singh, Arjun Singh S/o Mithilesh Singh, R/o Bhediya & Nagendra Kumar Singh S/o Harsh Narayan Singh, R/o Majurakha
				269	Private	Dhanhar	181	Nagendra Kumar Singh S/o Harsh Narayan Singh, R/o Majurakha
				265	Private	Dhanhar	162	Nagendra Singh S/o Chandradev Singh, R/o Bhediya
				264	Private	Dhanhar	162	Gupteshwar Singh S/o Ramanand Singh, R/o Bhediya
				263	Private	Dhanhar	198	Rajeshwar Singh S/o Salik Singh, R/o Bhediya
				262	Private	Dhanhar	61	Rajeshwar Singh S/o Salik Singh, R/o Bhediya
				260	Private	Dhanhar	101	Mahendra Singh S/o Dwarika Singh & Satguru, Ajay Singh S/o Ramraj Singh, R/o Bhediya
				255	Govt.	Parti Kadim	81	Gair Mazarua Malik
				256	Private	Dhanhar	212	Indradev Singh S/o Ram Awtar Singh, R/o Bhediya
				258	Govt.	Passage	162	Gair Mazarua Aam
				231	Private	Dhanhar	81	Surendra Singh, Shailendra Singh S/o Alakhdev Singh, R/o Bhediya

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				230	Private	Dhanhar	202	Raghubansh Singh S/o Ram Briksh Singh, R/o Bhediya
				229	Private	Dhanhar	89	Janardan Singh S/o Raghunandan Singh, R/o Bhediya
				226	Private/ Govt.	Dhanhar	142	Virendra Singh S/o, R/o Pauna Dehri New Canal, Irrigation Department
				960	Private/ Govt.	Dhanhar	566	Mahendra Singh, Satyendra Singh S/o Dwarika Singh & Satguru, Agam Singh S/o Ramraj Singh, R/o Bhediya New Canal, Irrigation Department
				223	Private	Dhanhar	324	Jitendra Singh, Virendra Singh, Yogendra Singh, Ranjeet Singh S/o Krishna Singh & Vinod Singh S/o Mohan Singh, R/o Bhediya
				213	Govt.	Dhanhar	1457	Gair Mazarua Malik
				205	Private	Dhanhar	105	Dwarika Yadav S/o Charittar Yadav & Ashok Yadav, Akhilesh Yadav, Kamlesh Yadav, Nilesh Yadav S/o Mundrika Yadav, R/o Bhediya Tola
				204	Private	Dhanhar	172	Ram Prawesh Yadav S/o Jitu Yadav & Dwarika Yadav S/o Charittar Yadav & Ashok Yadav, Akhilesh Yadav, Kamlesh Yadav, Nilesh Yadav S/o Mundrika Yadav, R/o Bhediya Tola
				662	Govt.	Passage	81	Gair Mazarua Aam
				299	Govt.	Cremation Ground	81	Gair Mazarua Aam (Cremation Ground)
				300	Private	Dhanhar	121	Satish Kumar Singh S/o Dhananjay Singh, R/o Bhediya
				243	Private	Dhanhar	475	Ram Chandra Singh, Banshraj Singh S/o Ram Autar Singh, R/o Bhediya
				345	Govt. of India	Dhanhar	631	Keshare Hind
				346	Govt. of India	Dhanhar	131	Keshare Hind
				347	Govt. of India	Dhanhar	486	Keshare Hind
				348	Private	Dhanhar	81	Gupteshwar Prasad Singh S/o Ramanand Singh, R/o Bhediya
				366	Govt. of India	Dhanhar	223	Keshare Hind
				365	Govt. of India	Dhanhar	101	Keshare Hind
				360	Private	Dhanhar	324	Bharat Singh S/o Sadhu Sharan Singh, R/o Bhediya
				363	Govt. of India	Dhanhar	202	Keshare Hind
				369	Govt. of India	Bhit	283	Keshare Hind
				370	Govt. of India	Parti	283	Keshare Hind
				371	Govt. of India	Dhanhar	405	Keshare Hind
				372	Private	Dhanhar	130	Ram Kumar Singh S/o Ram Briksh Singh, R/o Bhediya
				373	Private	Dhanhar	971	Indra Dev Singh S/o Ram Awtar Singh, R/o Bhediya
				374	Private	Dhanhar	121	Bhimsen Singh S/o Mithilesh Singh, R/o Bhediya

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				444	Govt. of India	Parti Kadim	486	Keshare Hind
				445	Govt. of India	Parti Kadim	162	Keshare Hind
				438	Private	Dhanhar	132	Ram Baran Singh, Bhim Baran Singh S/o Dasharath Singh, R/o Bhediya
				446	Govt. of India	Dhanhar	253	Keshare Hind
				443	Private	Dhanhar	243	Ram Kumar Singh S/o Ram Briksh Singh, R/o Bhediya
				439	Private	Dhanhar	202	Tarkeshwar Singh, Bindesh Singh S/o Devnandan Singh, R/o Bhediya
				447	Govt. of India	Dhanhar	647	Keshare Hind
				448	Govt. of India	Dhanhar	263	Keshare Hind
				449	Private	Dhanhar	140	Mahendra Singh S/o Dwarika Singh & Janardan Singh S/o Nanhak Singh, R/o Bhediya
				453	Private	Dhanhar	364	Ashok Kumar Singh S/o Bashishth Narayan Singh & Harihar Yadav, Indradev Yadav, Satish Yadav S/o Rameshar Yadav, R/o Majurakha
				454	Govt. of India	Parti	344	Keshare Hind
				455	Govt. of India	Dhanhar	324	Keshare Hind
				458	Private	Dhanhar	283	Sunil Singh, Santosh Singh S/o Dev Narayan Singh & Sanjay Singh, Vijay Singh S/o Anugrah Narayan Singh, R/o Bhediya
				456	Govt. of India	Dhanhar	526	Keshare Hind
				457	Private	Dhanhar	405	Shanti Singh W/o Upendra Singh & Lalpari Devi W/o Ravindra Singh & Nagendra Kumar Singh S/o Harsh Narayan Singh, R/o Majurakha
				489	Govt. of India	Parti	465	Keshare Hind
				488	Private	Dhanhar	374	Jagrani Devi D/o Lt. Ramdeni, W/o Mukhdev Yadav, R/o Bhediya
				490	Govt. of India	Dhanhar	194	Keshare Hind
				491	Govt. of India	Dhanhar	394	Keshare Hind
				492	Govt. of India	Dhanhar	364	Keshare Hind
				493	Govt. of India	Dhanhar	293	Keshare Hind
				494	Govt. of India	Dhanhar	223	Keshare Hind
				498	Govt. of India	Dhanhar	566	Keshare Hind
				499	Govt. of India	Dhanhar	340	Keshare Hind
				962	Private	Dhanhar	61	Jagrani Devi W/o Mukhdev Yadav, R/o Bhediya
				495	Private	Dhanhar	101	Mungeshwari Devi W/o Indradev Yadav, R/o Bhediya
				484	Private	Dhanhar	101	Ramswarup Yadav, Sarikhan Yadav S/o Chandradev Yadav, R/o Bhediya Tola

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				487	Private	Dhanhar	101	Ram Prawesh Yadav S/o Jitu Yadav, R/o Bhediya Tola
				497	Private	Dhanhar	81	Ram Prawesh Yadav S/o Jitu Yadav, R/o Bhediya Tola & Ramparikhan Yadav S/o Yadunandan Yadav R/o Kurtha, Dev
				969	Govt.	Passage	40	Gair Mazarua Aam
				297	Govt. of India	Dhanhar	850	Keshare Hind
				233	Govt.	Bandh	40	Gair Mazarua Aam
				442	Private	Dhanhar	61	Raghubansh Singh S/o Ram Briksh Singh, R/o Bhediya
				437	Private/ Govt.	Dhanhar	121	Nagendra Kumar Singh S/o Harsh Narayan Singh, R/o Majurakha New Canal, (Irrigation Department)
Total							22056	
			(11) Karahar a Thana No.866	1335	Govt.	Nala	486	Gair Mazarua Aam
				610	Govt.	Dhanhar	1295	Gair Mazarua Malik
				609	Private	Dhanhar	81	Nanhaku Singh S/o Ishwar Singh R/o Karahara
				608	Govt.	Pit	142	Gair Mazarua Aam
				607	Private	Dhanhar	688	Gupta Singh, Rajendra Singh S/o Manager Singh & Kamta Singh, Bharat Singh, Ravindra Singh S/o Bindeshari Singh, R/o Karahara
				606	Private	Resai.	1788	Dinesh Ram S/o Shiv Sharan Ram & Ramashish Ram S/o Mahangu Ram & Phoolchand Ram S/o Parmeshwar Ram & Suga Devi W/o Jagmohan Ram & Deena Ram S/o Devram R/o Karahara & Baliram Sharma S/o Dhaneshar Sharma, R/o Piyara
				602	Govt.	Resai.	324	Gair Mazarua Malik
				603	Govt.	Resai.	121	Gair Mazarua Malik
				605	Govt.	Dhanhar	61	Gair Mazarua Malik
				604	Private	Dhanhar	2361	Naresh Singh S/o Shivraksha Singh & Rajendra Singh S/o Manager Singh R/o karahara
				632	Private	Dhanhar	728	Naresh Singh S/o Shivraksha Singh & Rajendra Singh S/o Manager Singh R/o karahara
				633	Private	Dhanhar	1052	Sonamati Devi W/o Ugrah Singh & Satyendra Singh S/o Ramdahin Singh & Awadhesh Singh, Bhagwan Singh S/o Shankar Dayal Singh & Sanjay Singh, Basant Singh, Akhilesh Singh S/o Kameshwar Singh & Bhaggal Singh, Shivkumar Singh, Biran Singh S/o Tapeswar Singh & Shrikant Singh S/o Kamakhya Singh, R/o Karahara
				635	Govt.	Dhanhar	1861	Gair Mazarua Malik
				638	Private	Dhanhar	647	Sonamati Devi W/o Ugrah Singh & Sarwati Devi W/o Jai Nandan Singh & Mahendra Singh, Surendra Singh, Satyendra Singh S/o Ram Dahin Singh, R/o Karahara
				639	Govt.	Dhanhar	3641	Gair Mazarua Malik
				643	Govt.	Pind	293	Gair Mazarua Aam

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				644	Govt.	Dhanhar	4380	Gair Mazarua Malik
				642	Private	Dhanhar	728	Sonamati Devi W/o Ugrah Singh & Sarswati Devi W/o Jainandan Singh & Mahendra Singh, Surendra Singh, Satyendra Singh S/o Ramdahin Singh & Bhola Singh, Mathura Singh S/o Ramdutt Singh R/o Karahara
				649	Private	Dhanhar	486	Ravindra Singh, Manish Kumar, Ramesh Singh, Pappu Singh, Bindeshwari Singh, Ram Raj Singh S/o Kuldeep Singh R/o Kanbehri
				648	Govt.	Parti Kadim	202	Gair Mazarua Aam
				647	Govt.	Nala	40	Gair Mazarua Aam
				646	Govt.	Dhanhar	202	Gair Mazarua Aam
				651	Private	Bhit	81	Bhola Singh, Mathura Singh S/o Ramdutt Singh, R/o Karahara
				652	Private	Bhit	526	Madan Yadav, Krishna Yadav, Rajaram Yadav, Ramjanam Yadav S/o Jagdev Yadav & Jagdev Yadav S/o L. Raghubar Yadav, R/o Karahara
				654	Private	Bhit	566	Krishna Singh S/o Dev Raksha Singh & Mohan Yadav S/o Hari Yadav, R/o Karahara
				656	Private	Parti Kadim	647	Mohan Yadav S/o Hari Yadav, R/o Karahara
				645	Govt.	Parti Kadim	7283	Gair Mazarua Malik
				658	Private	Parti	61	Ram Laxhan Yadav S/o Munarik Yadav & Jagdev Yadav S/o L. Raghubar Yadav & Bhola Singh, Mathura Singh S/o Ramdutt Singh, R/o Karahara
				683	Private	Parti	65	Sonamati Devi W/o Ugrah Singh & Sarswati Devi W/o Jainandan Singh & Mahendra Singh, Surendra Singh, Satyendra Singh S/o Ramdahin Singh, R/o Karahara
				685	Private	Dhanhar	637	Bhola Singh S/o Ramdutt Singh & Sonamati Devi W/o Ugrah Singh & Sarswati Devi W/o Jainandan Singh & Mahendra Singh, Surendra Singh, Satyendra Singh S/o Ramdahin Singh & Mohan Yadav S/o Hari Yadav R/o Karahara
				686	Private	Dhanhar	405	Sudip Yadav S/o Hari Yadav & Ram Kalesh Yadav S/o Kuldeep Yadav, R/o Raghupur, Karahara
				687	Private	Parti	113	Sudip Yadav S/o Hari Yadav R/o Raghupur, Karahara
				688	Private	Dhanhar	129	Sudip Yadav S/o Hari Yadav & Ram Kalesh Yadav S/o Kuldeep Yadav, R/o Raghupur, Karahara
				689	Private	Parti	212	Kesho Yadav, Rameshwar Yadav, Judagir Yadav S/o Jaipal Yadav, R/o Ora
				692	Govt.	Parti	971	Gair Mazarua Malik

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				693	Private	Bhit	1012	Jagdev Yadav, Laxman Yadav S/o Lt. Raghubar Yadav & Sudip Yadav S/o Hari Yadav & Ram Kalesh Yadav S/o Kuldip Yadav & Bisheswar Yadav, Tilsar Yadav S/o Lt. Chandra Dev Yadav & Ramakhan Yadav, Ram Swarup Yadav S/o Munarik Yadav, R/o Karahara
				694	Govt.	Bandh	809	Gair Mazarua Aam
				695	Govt.	Dhanhar	2040	Gair Mazarua Malik
				696	Private	Dhanhar	243	Sarswati Devi W/o Jainandan Singh & Mahendra Singh, Satyendra Singh, Surendra Singh S/o Ramdahan Singh & Bhola Singh, Mathura Singh S/o Ramdutt Singh R/o Karahara
				690	Private	Dhanhar	142	Jagdev Yadav, Laxman Yadav S/o Lt. Raghubar Yadav & Sudip Yadav S/o Hari Yadav & Ram Kalesh Yadav S/o Kuldip Yadav & Bisheswar Yadav, Tilsar Yadav S/o Lt. Chandra Dev Yadav & Ramakhan Yadav, Ram Swarup Yadav S/o Munarik Yadav, R/o Karahara
				689	Private	Dhanhar	192	Mahesh Singh R/o Shivraksha Singh, R/o Karahara
				700	Private	Dhanhar	344	Mathura Singh S/o Ramdas Singh & Dhananjay Singh S/o Rameshwar Singh, R/o Karahara
				701	Private	Dhanhar	202	Bhagwan Singh & Ramadhar Singh S/o R/o Remu Bigha
				702	Private	Dhanhar	40	Birachi Yadav S/o Jagesar Yadav, R/o Karahara
				598	Govt.	Temple	1214	Gair Mazarua Aam, Hanumam Temple & Gate
				597	Govt.	Passage	243	Gair Mazarua Aam
				595	Private	Dhanhar	162	Budhu Yadav S/o Jogesar Yadav, R/o Ora
				563	Private	Dhanhar	405	Bindeshwari Singh, Ramraj Singh, Manish Kumar Singh, Ravindra Singh, Ramesh Singh S/o Kuldip Singh, R/o Kenbehari
				562	Govt.	Dhanhar	405	Gair Mazarua Malik
				561	Private	Dhanhar	162	Saryendra Singh, Krishna Singh S/o Dev Raksha Singh & Pankaj Singh S/o Jugeshwar Singh & Bablu Singh S/o Uday Singh, R/o Karahara
				560	Private	Dhanhar	40	Nareish Singh, Upendra Singh S/o Shiv Raksha Singh, R/o Karahara
				559	Govt.	Dhanhar	162	Gair Mazarua Malik
				537	Private	Dhanhar	486	Damodar Singh S/o Triveni Singh, R/o Raghubar Bigha, Karahara
				596	Private	Dhanhar	40	Rupchand Rai S/o Shivrani, R/o Karahara
				640	Govt.	Nala	1699	Gair Mazarua Aam
				641	Private	Dhanhar	243	Radhe Shyam Gupta S/o R/o Shahpur, Aurangabad
				Total			43588	
			(12)	1096	Govt.	Dhanhar	809	Gair Mazarua Malik

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Narsiha Thana No.820	1099	Govt.	Dhanhar	2104	Gair Mazarua Malik
				1117	Private	Dhanhar	728	Smt. Shushila Devi Singh W/o Ravindra Nath Singh, R/o New town area, Aurangabad Service Station, Shahpur tola pipardih, Aurangabad
								Roopchand Saw, Durga Saw S/o Sahdev Saw, R/o Narsiha
								Haricharan Saw S/o Lt. Mahadev Sah & Shyamlal S/o Nanhak Saw, R/o Narsiha
								Gupteshwar Saw S/o Ramdas Saw, R/o Chaukhada
								Karmi Devi W/o Lt. Ramgulam Saw, R/o Narsiha
				1124	Govt.	Dhanhar	1537	Gair Mazarua Malik
				1125	Private	Parti	101	Gupteshwar Yadav S/o Bajrangi Yadav, R/o Maya Bigha
				1030	Govt.	Dhanhar	870	Gair Mazarua Malik
				990	Govt.	Dhanhar	1748	Gair Mazarua Malik
				1224	Govt.	Bandh	1618	Gair Mazarua Aam
				989	Private	Ressi.	202	Gupteshwar Yadav S/o Bajrangi Yadav & Kamlesh Yadav, Ajai Yadav S/o Maheshi Yadav & Surendra Yadav, Mahendra Yadav S/o Sarwdev Yadav & Chandradeep Yadav S/o Bishundev Yadav, R/o Maya Bigha
				1222	Govt.	Pind	61	Gair Mazarua Aam (District Board)
				1211	Govt.	Road	40	Gair Mazarua Aam (District Board)
				1213	Private	Dhanhar	161	Rajendra Singh S/o Jagdish Singh & Binod Singh, Mithilesh Singh, Umesh Singh S/o Gaya Singh & Ramchandra Singh S/o Sarju Singh, R/o Narsiha
				1129	Govt.	Dhanhar	10520	Gair Mazarua Malik
				1133	Govt.	Dhanhar	1295	Gair Mazarua Malik
				1212	Govt.	Dhanhar	303	Gair Mazarua Aam
				1134	Govt.	Pind	324	Gair Mazarua Aam
			Total				22421	
		3. Madan pur		51	Govt.	Bandh	40	Gair Mazarua Aam
				50	Private	Ressi.	405	Raghuvansh Singh, Raghupat Singh S/o Roopchand Singh, R/o Chaukhada
				49	Govt.	Passage	121	Gair Mazarua Aam
				48	Govt.	Pind	202	Gair Mazarua Aam
				47	Govt.	Passage	194	Gair Mazarua Aam
				46	Govt.	Temple	1225	Gair mazarua malik (Goverdhan Pahar, Shiv Temple)
				45	Private	Dhanhar	1213	Ramnath Singh, Ramprasidh Singh, Shivpujan Singh, Rampukar Singh S/o Devnandan Singh, R/o Maya Bigha
			(1) Maya Bigaha Thana No. 821	71	Private	Dhanhar	900	Ramnath Singh, Ramprasidh Singh, Shivpujan Singh, Rampukar Singh S/o Devnandan Singh, R/o Maya Bigha
				61	Govt.	Bandh	142	Gair Mazarua Aam
				62	Govt.	Dhanhar	1670	Gair Mazarua Malik
				70	Govt.	Dhanhar	303	Gair Mazarua Malik
				69	Govt.	Bandh	283	Gair Mazarua Aam
				68	Govt.	Paen	141	Gair Mazarua Aam
				28	Govt.	Bandh	61	Gair Mazarua Aam

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				60	Govt. of India	Dhanhar	1943	Keshare Hind
				59	Govt. of India	Dhanhar	384	Keshare Hind
				64	Govt.	Dhanhar	566	Gair Mazarua Aam
				63	Govt.	Pasin	202	Gair Mazarua Aam
				65	Govt. of India	Dhanhar	809	Keshare Hind
				67	Govt.	Pasin	263	Gair Mazarua Aam
Total							11067	
			(2) Darbhanga Thana No.856	220	Govt.	Dhanhar	2110	Gair Mazarua Malik
				223	Govt. of India	Dhanhar	364	Keshare Hind
				222	Private	Dhanhar	2435	Bhikhari Baitha, Dukhan Baitha S/o Ghura Baitha, R/o Maya Bigha Tribhuwan Baitha & others S/o Gopichand Baitha, R/o Maya Bigha Shivdeni Baitha S/o Jageshwar Baitha, R/o Maya Bigha Mohan Yadav S/o Lt. Ramdeni Yadav, R/o Batura, Barun Shankuntala Devi W/o Mosafir Mistri, R/o Maha Bigha
				225	Private	Dhanhar	1537	Bhikhari Baitha, Dukhan Baitha S/o Ghura Baitha, R/o Maya Bigha Shivdeni Baitha S/o Jageshwar Baitha, R/o Maya Bigha Bigan Baitha S/o Gopichand Baitha, R/o Maya Bigha Rampukar Singh S/o Siyaram Singh, R/o Maya Bigha
				226	Private	Dhanhar	2435	Bhikhari Baitha, Dukhan Baitha S/o Ghura Baitha, R/o Maya Bigha Tribhuwan Baitha & others S/o Gopichand Baitha, R/o Maya Bigha Shivdeni Baitha S/o Jageshwar Baitha, R/o Maya Bigha Bigan Baitha S/o Gopichand Baitha, R/o Maya Bigha Madho Yadav S/o Shiv Balak Yadav, R/o Maya Bigha Devkali Devi W/o Lt. Satdev Yadav, R/o Maya Bigha
				228	Private	Dhanhar	243	Devkali Devi W/o Lt. Satdev Yadav, R/o Maya Bigha
				229	Govt.	Dhanhar	486	Gair Mazarua Malik
				230	Govt.	Nala	243	Gair Mazarua Aam
				179	Private	Dhanhar	81	Mukendra Yadav S/o Lt. Krit Yadav, R/o Maya Bigha
				184	Govt.	Dhanhar	405	Gair Mazarua Aam
				185	Govt.	Passage	142	Gair Mazarua Aam
				209	Govt.	Nala	809	Gair Mazarua Aam
				208	Govt.	Nala	162	Gair Mazarua Aam
				207	Govt.	Parti Kadim	890	Gair Mazarua Malik
				211	Govt.	Nala	121	Gair Mazarua Aam
				212	Govt.	School	330	Gair Mazarua Malik
				213	Govt. of India	Dhanhar	324	Keshare Hind

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				214	Govt. of India	Dhanhar	142	Keshare Hind
				298	Govt.	Dhanhar	607	Gair Mazarua Malik
				296	Govt.	Nala	526	Gair Mazarua Aam
				289	Govt.	Dhanhar	2428	Gair Mazarua Malik
				286	Govt.	Nala	405	Gair Mazarua Aam
				287	Govt.	Dhanhar	61	Gair Mazarua Malik
				283	Govt.	Parti Kadim	101	Gair Mazarua Malik
				282	Private	Dhanhar	486	Kedar Singh, Harihar Singh, Devendra Singh, Pramod Singh, Badri Singh S/o Suryadev Singh, R/o Darbhanga
				284	Govt.	Dhanhar	61	Gair Mazarua Aam
Total							17934	
			(3) Dadhap ee Thana No.854	1683	Private	Dhanhar	212	Bharosa Singh S/o Darbari Singh R/o Dadhapee
				1684	Private	Dhanhar	81	Arjun Mistri S/o Chandra Dev Mistri R/o Dadhapee
				1685	Private	Dhanhar	233	Umesh Prasad S/o Devcharan Mehta, R/o Dadhapee
				1686	Govt.	Dhanhar	566	Gair Mazarua Malik
				1687	Private	Dhanhar	324	Chandradeep Mahto, Gopal Mahto S/o Jagdev Mahto R/o Dadhapee
				1717	Private	Dhanhar	324	Ram Lakhani Singh & Others S/o Lt. Krit Narayan Singh R/o Dadhapee
				1719	Private	Dhanhar	971	Rajeev Lal S/o Lt. Sitaram Prasad R/o Dadhapee
				1718	Private	Dhanhar	1537	Banarsi Saw S/o somaran Saw, R/o Dadhapee
				1720	Govt.	Dhanhar	314	Gair Mazarua Malik
				1721	Private	Dhanhar	1052	Naresh Singh, Yamuna Singh S/o Chandradev Singh, R/o Dadhapee
				1722	Private	Dhanhar	364	Awadhesh Pathak S/o Gupteshwar Pathak, R/o Dadhapee Mithilesh Pathak S/o Rajendra Pathak, R/o Dadhapee
				1723	Private	Dhanhar	566	Raghwendra Singh & others S/o Shivratan Singh, R/o Dadhapee
				1440	Private	Dhanhar	283	Naresh Singh, Yamuna Singh S/o Chandradev Singh, R/o Dadhapee
				1450	Private	Dhanhar	1133	Raghwendra Singh & others S/o Shivratan Singh, R/o Dadhapee
				1451	Private	Dhanhar	73	Naresh Singh, Yamuna Singh S/o Chandradev Singh, R/o Dadhapee
				1452	Private	Dhanhar	728	Anil Singh, Raghwendra Singh S/o Shivratan Singh, R/o Dadhapee
				1453	Private	Dhanhar	647	Naresh Singh, Yamuna Singh S/o Chandradev Singh, R/o Dadhapee
				1454	Private	Dhanhar	465	Mahip Singh S/o Ajay Singh, R/o Dadhapee
				1455	Private	Dhanhar	486	Raghwendra Singh & others S/o Shivratan Singh, R/o Dadhapee
				1491	Private	Dhanhar	971	Indrajeet Singh S/o Lt. Ramjanam Singh, R/o Dadhapee
				1487	Private	Dhanhar	162	Indrajeet Singh S/o Lt. Ramjanam Singh, R/o Dadhapee
				1493	Private	Dhanhar	405	Indrajeet Singh S/o Lt. Ramjanam Singh, R/o Dadhapee

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1492	Private	Dhanhar	566	Indrajeet Singh S/o Lt. Ramjanam Singh, R/o Dadhapee
				1503	Private	Dhanhar	566	Mathura Mahto S/o Ramu Mahto, R/o Dadhapee
								Lakhan Mahto S/o Chalittar Mahto, R/o Dadhapee
				1504	Private	Dhanhar	647	Ramlakhan Singh, Dinesh Singh S/o Krit Narayan Singh, R/o Dadhapee
				1507	Private	Ressi.	113	Md. Aftab Alam S/o Nazir Alam, R/o Dadhapee
				1508	Private	Dhanhar	194	Rameshwar Prasad S/o Ramlakhan Singh Kamat, R/o Dadhapee
				1512	Govt.	Parti	1861	Gair Mazarua Malik
				1511	Private	Commercial	971	Krishna Prasad S/o Shivdeni Prasad, R/o Dadhapee
								Madhuri Devi D/o Krishna Saw, R/o Dadhapee
								Brijesh Kumar, Nandan Kumar S/o Krishna Saw, R/o Dadhapee
								Rajendra Prasad S/o Babulal Saw, R/o Dadhapee
								Bachu Paswan S/o Lt. Deep Paswan, R/o Shivganj
								Devkalia Devi W/o Lt. Tapeswar Chauhan, R/o Dadhapee
								Prahlad Chaudhary S/o Kameshwar Chaudhary, R/o Dadhapee
								Shanti Devi W/o Ramchandra Prajapati, R/o Shivganj
								Shiv Balak Prajapati S/o Ramdas Prajapati, R/o Erki kala
								Ramjee S/o R/o Jamuei
				733	Govt.	Passage	81	Gair Mazarua Aam
				734	Private	Commercial	526	Kunti Devi W/o Jagnarayan Singh, R/o Teldiha
								Kuldip Paswan S/o Tasan Paswan, R/o Shivganj
								Md. Sarfaraj S/o Md. Kalim Ansari, R/o Shivganj
								Raghunandan Paswan S/o Tasan Paswan, R/o Shivganj
								Munshi Sav S/o Anchhu Sav, R/o Shivganj
				1513	Govt.	Commercial	1052	Gair Mazarua Malik
				1514	Govt.	Bandh	293	Gair Mazarua Aam
				1515	Govt.	Canal	708	Gair Mazarua Aam, Paein
				1516	Govt.	Bandh	293	Gair Mazarua Aam, Bandh
				1518	Private	Dhanhar	81	Surendra Yadav S/o R/o Gaiwal Bigha
				1542	Govt.	Canal	324	Gair Mazarua Aam
				1577	Govt. of India	Bhit	202	Keshare Hind
				1564	Govt.	Commercial	243	Gair Mazarua Malik
				1563	Private	Commercial	223	Thakur Jee Mahraj Sewayat & Shridhar Singh S/o Surendra Singh, R/o Shivganj
								Surendra Singh S/o R/o Shivganj

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1543	Private	Dhanhar	728	Shankar Yadav, Sudhir Yadav S/o Kameshwar Singh, R/o Gawal Bigha Halkhori Prasad Varma S/o Lt. Biran Mahto, R/o Dadhapee Karu Mahto S/o Bigan Mahto, R/o Shivganj Alkaria Devi W/o Rambali Mahto, R/o Kasauti Ramkewal Yadav S/o Lt. Chandradev Yadav & Vijay Yadav & others S/o Lt. Mohan Yadav, R/o Ghordih
Total							21569	
Grand Total in Sqmt.							571155	
Hactares							57.0365	

[F. No. NHAI/11013/2010-LA/Notif/PIU-Varanasi]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.